



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2—जनवरी 8, 2016 (पौष 12, 1937)  
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2—JANUARY 8, 2016 (PAUSA 12, 1937)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और  
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

---

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2016

नियम

सं.बी/59501/137/आरटीजी.एनडीए प्रवेश/2805/डी(एजी)—दिनांक 2 जनवरी, 2017 से प्रारंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 137 वें पाठ्यक्रम तथा 99वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम(आईएनएसी) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2016 को आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2016 के नियम प्रकाशित किए जाते हैं।

आयोग यदि चाहे तो उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या इस प्रकार होगी :--



राष्ट्रीय रक्षा अकादमी	320 (208 थल सेना के लिए, 42 नौसेना के लिए और 70 वायु सेना के लिए)
भारतीय नौसेना अकादमी (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम)	55
योग	375

रिक्तियां अनंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय नौ सेना अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष ध्यान : (i) प्रत्येक उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपने वरीयता क्रम के अनुसार (1 से 4) सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें, ताकि योग्यता क्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं। उम्मीदवार द्वारा अपने प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में वृद्धि/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

(iii) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

## 2. परीक्षा के केन्द्र :

परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला, अहमदाबाद, ऐजल, इलाहाबाद, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मद्रुरै, मुंबई, नागपुर, पणजी (गोवा), पटना, पोर्ट- ब्लेयर, रायपुर, रांची, सम्बलपुर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम।

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों का आवंटन “पहले आवेदन करो पहले आवंटन पाओ” पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदक को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें : उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## 3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता : उम्मीदवार या तो :--

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा हो, या
3. भूटान की प्रजा हो, या
4. भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या

5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन कर के आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो, पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।



(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति :

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म दो जुलाई 1997 से पहले न हुआ हो तथा पहली जुलाई 2000 के बाद न हुआ हो, पात्र हैं।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कॉलम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी-4 : उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा। चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है सब उससे वसूल किया जाएगा।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भौतिकी और गणित सहित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अधीन 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार जो एसएसबी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एसएसबी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/10 + 2 या समकक्ष प्रमाणपत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें विधिवत अनुप्रमाणित फोटोप्रति "महानिदेशालय, भर्ती, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066" को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों के मामले में "नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआई एण्ड आर अनुभाग, कमरा सं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011" को 22 दिसम्बर, 2016 तक भेजना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अन्य वे सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10 + 2 पास या समकक्ष प्रमाणपत्र एसएसबी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एसएसबी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय, जैसा भी मामला हो, इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। अपवाद की परिस्थितियों में



आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहरता हो।

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार जो 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार, जिन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी तक अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख 22 दिसम्बर, 2016 तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबंधित किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमिशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-4 : वे उम्मीदवार जो आईएनएसबी/पीएबीटी में पहले फेल हो चुके हैं, वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं।

(घ) शारीरिक मानक:

उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I) 2016 हेतु परिशिष्ट-II में दिए गए शारीरिक मानकों के दशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

वे उम्मीदवार जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, आवेदन करने की योग्यता नहीं रखते हैं।

4. शुल्क :

उम्मीदवारों को रु. 100/- (रुपए एक सौ मात्र) फीस के रूप में (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों/टिप्पणी 2 में उल्लिखित जे.सी.ओ./ एन.सी.ओ./ओ.आर. के बच्चों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या बीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

ध्यान दें-1 : जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्यदिवस को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। 'नकद भुगतान प्रणाली' का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक 28.01.2016 को रात्रि 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन-स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन-स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात् 29.01.2016 को 23.59 बजे तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

ध्यान दें-2 : उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त रहित आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

ध्यान दें-3 : एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

ध्यान दें-4 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरन्त अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

टिप्पणी-1 : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और टिप्पणी-2 में उल्लिखित उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।



टिप्पणी-2 : थल सेना में सेवारत/भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/गैर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों तथा भारतीय नौसेना/भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के अफसरों के बच्चों को निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी यदि वे मिलिट्री स्कूल (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल के नाम से जाना जाता था)/सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। (विशेष ध्यान दें : ऐसे सभी उम्मीदवारों को संबद्ध प्रिंसीपलों से शुल्क में छूट हेतु उनकी पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और एस.एस.बी. परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा एस. एस. बी. परीक्षण/साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा)।

5. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार [www.upsconline.nic.in](http://www.upsconline.nic.in) वेबसाइट सुविधा का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी-1 : आवेदकों को केवल एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थिति वश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आर आई डी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल उच्च आर आई डी (रजिस्ट्रेशन आई डी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आर आई डी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आर आई डी के लिए नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले ही सरकारी सेवा में हों, जिनमें सशस्त्र सेना बल के उम्मीदवार भी शामिल हैं और भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों अथवा निजी रोजगार में कार्यरत उम्मीदवारों को आयोग को सीधे ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

विशेष ध्यान दें--(क) जो व्यक्ति पहले से ही स्थायी या अस्थायी हैसियत से सरकारी सेवा में हों या आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर कार्य प्रभारित कर्मचारी या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं, (ख) सशस्त्र सेना बल में कार्यरत उम्मीदवार भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), और (ग) राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों को छात्रों को अपने कार्यालय/विभाग अध्यक्ष, कमांडिंग अधिकारी, संबद्ध कॉलेज/स्कूल के प्रिंसीपल, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवार नोट करें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता/संबद्ध प्राधिकारी से इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/बैठने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने संबंधी कोई पत्राचार प्राप्त होता है तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित ई-प्रवेश प्रमाणपत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-4 : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे भरे हुए हों, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृत के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियां और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा। यदि किसी बाद की तारीख को सत्यापन करते समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के जुलाई, 2016 में घोषित होने की संभावना है।

टिप्पणी-5 : जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें आयु और शैक्षिक योग्यता संबंधी अपने मूल प्रमाण-पत्र भर्ती निदेशालय, सेना मुख्यालय, वेस्ट ब्लाक-III, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 अथवा नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआईएंडआर अनुभाग, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल



प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाणपत्र लौटा दिए जाएंगे, जो उम्मीदवार पहले ही 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे सेवा चयन बोर्ड हेतु अपना 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाणपत्र या अंक सूची अवश्य लाएं।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है :

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है:

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या
- (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
- (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- (xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेज़र या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
- (xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्रों के साथ जारी अनुदेश का उल्लंघन करना, या
- (xiii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

वह अपने को दण्ड-अभियोजना का शिकार बनाने के अतिरिक्त

(क) आयोग की जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है। और/या

(ख) स्थाई रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये अपवर्जित किया जा सकता है :

- (1) आयोग द्वारा उनकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;
- (2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

(ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

- (i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

#### 6. आवेदन करने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन 29 जनवरी, 2016 रात्रि 11.59 बजे तक भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात् लिंक निरूपयोज्य होगा।

#### 7. यात्रा भत्ता :

किसी विशेष प्रकार के कमीशन अर्थात् स्थायी अथवा अल्पकालिक के लिए एसएसबी साक्षात्कार हेतु प्रथम बार उपस्थित होने वाले उम्मीदवार भारतीय सीमा के अंदर आरक्षण एवं स्लीपर प्रभागों सहित एसी-III टायर आने-जाने के रेल के किराए अथवा बस के किराए के हकदार होंगे। जो उम्मीदवार समान प्रकार के कमीशन के लिए पुनः आवेदन करते हैं, वे किसी परवर्ती अवसर के लिए यात्रा भत्ता के हकदार नहीं होंगे।



## 8. आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार:

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट [www.upsc.gov.in](http://www.upsc.gov.in) पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आर.आई.डी. तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व तक ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/ 011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

(iii) सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

किसी कोर्स में प्रवेश विभिन्न कोर्सों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर रहेगा। यह पात्रता की शर्तों के सत्यापन किए जाने पर आधारित होगा।

(iv) यदि उम्मीदवार को किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित ई-प्रवेश पत्र मिल जाए तो उसे आयोग को तुरंत सही ई-प्रवेश पत्र जारी करने के लिए नोटिस में लाना चाहिए। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी ई-प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(vi) उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vii) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आई डी मान्य और सक्रिय हो।

महत्वपूर्ण : आवेदन के सम्बन्ध में सभी पत्र-व्यवहार परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए:

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. रजिस्ट्रेशन आई डी (आर आई डी)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

विशेष ध्यान (1) : जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

विशेष ध्यान (2) : यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिए लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल; सेना को प्रथम वरीयता देने वाले



उम्मीदवारों के लिए—सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड (III), स्कंध-1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473 नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिये—नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ आई एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/23011282।

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3(ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110106, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7973, को सूचित कर देना चाहिए।

जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उम्मीदवारों को अपने एसएसबी केन्द्र और साक्षात्कार की तारीख के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर लॉग-ऑन करना चाहिए :-

[www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in)

[www.joinindiannavy.gov.in](http://www.joinindiannavy.gov.in)

[www.careerairforce.nic.in](http://www.careerairforce.nic.in)

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं वह अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से 20 दिन के पश्चात् सम्बन्धित सर्विस हेडक्वार्टर्स के निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें या वेबसाइट को देखें :-

सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—सेना मुख्यालय, ए. जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खण्ड-III, स्कंध-(I), आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473, या [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in)

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ.आई. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/या ईमेल: [officer-navy@nic.in](mailto:officer-navy@nic.in) or [www.joinindiannavy.gov.in](http://www.joinindiannavy.gov.in)

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवार के लिए—वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3 (ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110106, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7973/7646 या [www.careerairforce.nic.in](http://www.careerairforce.nic.in)

उम्मीदवार को भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु अह्वान-पत्र (कॉल लेटर) प्राप्त हुआ है। सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार सितम्बर 2016 से अक्टूबर, 2016 में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे।

योग्यताक्रम सूची कार्यभार ग्रहण अनुदेशों और चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य संगत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) का अवलोकन करें।

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग के स्वनिर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बुद्धिमत्ता परीक्षण तथा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना स्कंधों और भारतीय नौ सेना अकादमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायु सेना के उम्मीदवारों का कंप्यूटरीकृत पायलट सेलेक्शन सिस्टम (सीपीएसएस) एवं पायलट एटीट्यूड परीक्षा (जो संपूर्ण पी ए बी टेस्ट का रूप लेता है) तथा अधिकारी क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के मामले में लागू पीएबीटी सेवा चयन बोर्ड से अर्हता प्राप्त उन सभी उम्मीदवारों के लिए भी जिन्होंने वायु सेना एक वरीयता के रूप में दी है उनकी योग्यता और इच्छा के आधार पर किया जाएगा।



## दो चरणों की चयन प्रक्रिया

मनोवैज्ञानिक अभिरूचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया चयन केन्द्रों/वायुसेना चयन बोर्ड/नौसेना चयन बोर्ड में प्रारंभ कर दी गई है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन बोर्ड/नौसेना चयन बोर्ड पर पहुंचने से पहले दिन प्रथम चरण परीक्षण में रखा जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षणों के लिए प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया होगा। वे उम्मीदवार जो चरण-II उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें इन प्रत्येक में से (i) अपनी जन्मतिथि के समर्थन के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाणपत्र; और (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ-साथ 2 फोटो प्रति भी जमा करनी होंगी।

जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर वहां परीक्षण देंगे वे अपने ही जोखिम पर इन परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको किसी व्यक्ति की लापरवाही से या अन्यथा कोई चोट पहुंचती है उसके लिए वे सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे। उम्मीदवारों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना/नौ सेना अकादमी और वायुसेना के उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) अधिकारी क्षमता परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे, जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके स्वनिर्णय के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। वायु सेना के उम्मीदवारों के अतिरिक्त सेवा चयन बोर्ड अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को अपनी इच्छानुसार पात्रता और वायु सेना एक वरीयता के रूप में दी हो, पीएबीटी में अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी।

अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को इन शर्तों पर उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर एकल संयुक्त सूची में रखा जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की थल सेना, नौ सेना, वायु सेना में और भारतीय नौ सेना, अकादमी की 10+2 कैंडेट एंट्री स्कीम में प्रवेश के लिए अंतिम रूप से नियतन/चयन, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को देखते हुए उम्मीदवारों की पात्रता, शारीरिक स्वास्थ्य और योग्यता/सह-वरीयता के अनुसार होगा। वे उम्मीदवार जो एक से अधिक सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के पात्र हैं, उनके नियतन/चयन पर, उनके द्वारा दिए गए वरीयता-क्रम के संदर्भ में विचार किया जाएगा और किसी एक सेवा/पाठ्यक्रम में उनके अंतिम रूप से नियतन/चुन लिए जाने पर, उनके नाम पर शेष सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष ध्यान : वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का कंप्यूटरीकृत पायलट सेलेक्शन सिस्टम (सीपीएसएस) एवं पायलट एप्टीट्यूड परीक्षा (जो संपूर्ण पी ए बी टेस्ट का रूप लेता है) केवल एक बार किया जाता है। अतः उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायु सेना चयन बोर्ड के सामने बाद में होने वाले साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। जो उम्मीदवार पायलट एप्टीट्यूड के प्रथम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के वायु सेना विंग या जनरल ड्यूटी (पायलट) ब्रांच या नेवल एयर आर्म में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स में कंप्यूटरीकृत पायलट सेलेक्शन सिस्टम (सीपीएसएस) एवं पायलट एप्टीट्यूड परीक्षा (जो संपूर्ण पी ए बी टेस्ट का रूप लेता है) हो चुका है तो उन्हें इस परीक्षा के वायु सेना विंग के लिए तभी आवेदन करना चाहिए, अगर उन्होंने यह प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

## 10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैंडेट एंट्री स्कीम के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किंतु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

11. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबंधित उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।



12. (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण (ख) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक मानक से मार्गदर्शक संकेत और (ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण आदि की विस्तृत जानकारी के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है।

यू. के. तिवरी  
निदेशक (ए जी-II)

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना:

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :--

विषय	कोड	अवधि	अधिकतम अंक
गणित	01	2½ घंटे	300
सामान्य योग्यता परीक्षण	02	2½ घंटे	600
कुल			900
सेवा चयन बोर्ड टेस्ट/साक्षात्कार			900

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण के भाग-ख के प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किये जाएंगे।

3. प्रश्न-पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न-पत्र के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

5. परीक्षा के एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विविक्षा पर रहेगा।

6. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये केलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणकीय सारणियां प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः ये उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लानी चाहिए।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण :

प्रश्न-पत्र-I

गणित

(कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

1. बीज गणित :

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख। द-मारगन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। संमिश्र संख्याएं- आधार- भूत गुणधर्म, मापक, कोणांक, इकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली। दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा



हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण। ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रैखिक असमिका का हल। क्रमचय तथा संचय। द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

## 2. आव्यूह तथा सारणिक :

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग—दो या तीन अज्ञातों में रैखिक समीकरणों के तंत्र का कैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

## 3. त्रिकोणमिति :

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र। बहुल तथा अपवर्तक कोण। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अनुप्रयोग—ऊँचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

## 4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषिक ज्यामिति :

आयतीय कार्तीय निर्देशक पद्धति, दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण। एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण। परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार। एक शांकव की उत्केन्द्रता तथा अक्ष। त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी। दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात। समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण। गोले का समीकरण।

## 5. अवकल गणित :

वास्तविक मान फलन की अवधारणा—फलन का प्रांत, रेंज व ग्राफ। संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत-उदाहरण। फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया। एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज। द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा ह्रास फलन। उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

## 6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरण :

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिपरवलयिक फलन निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्र रेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण-अनुप्रयोग।

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना। अवकलन समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल। विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणों का हल-उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

## 7. सदिश बीजगणित :

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, अनुप्रयोग—बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

## 8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता :

सांख्यिकी: आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण, ग्राफीय निरूपण—आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन—माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन—निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

प्रायिकता: यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपवर्जित तथा निश्शेष घटनाएं—असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ, पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय—साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समाविष्ट पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर। द्विआधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।



## प्रश्न पत्र-II

सामान्य योग्यता परीक्षण

(कोड संख्या 02)

(अधिकतम अंक-600)

भाग (क) अंग्रेजी :

(अधिकतम अंक 200)

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके। पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा संबद्धता।

भाग (ख) सामान्य ज्ञान :

(अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामायिक विषय आयेंगे। इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र निम्न पाठ्य-विवरण पर आधारित होगा। उल्लिखित विषयों को सर्वांग पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीदवार के उत्तरों में विषयों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए।

खंड-क (भौतिकी) :

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चतुर्भुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां।

ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र, प्रकाश का ऋतुरेखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेज, मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म। पृथ्वी चुम्बक के रूप में स्थैतिक तथा धारा विद्युत। चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ। धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, वैद्युत शक्ति का माप। प्राथमिक और गौण सेल। एक्स-रे के उपयोग। निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धान्त : सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा फ्यूज।

खंड-ख (रसायन शास्त्र) :

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण धर्म, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, आक्सीकरण और अपचयन।

अम्ल, क्षारक और लवण।

कार्बन-भिन्न रूप

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच, स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

खंड-ग (सामान्य विज्ञान) :

जड़ और चेतन में अंतर।



जीव कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों का आधार।

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।

मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान।

सामान्य महामारियों और उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

खाद्य-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। खाद्य के अवयव। संतुलित आहार, सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां

खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि) :

भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियां और सामुदायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी।

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य।

महात्मा गांधी के मूल उपदेश

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव।

एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

खंड-ङ (भूगोल) :

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्भव, चट्टानों और उनका वर्गीकरण, अपक्षय —यांत्रिक और रासायनिक, भूचाल तथा ज्वालामुखी। महासागर धाराएं और ज्वार भाटे।

वायुमण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब।

भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और घर्षण।

जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र, भारत का क्षेत्रीय भूगोल—जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण। भारत के महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें।

खंड-च (सामयिक घटनाएं) :

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं।

महत्वपूर्ण व्यक्ति—भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खण्ड क, ख, ग, घ, ङ तथा च प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण :

सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं चरण-I चरण II । चरण II में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है जो चरण-I में सफल रहते हैं इसका विवरण निम्नानुसार है:

(क) चरण I के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमत्ता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षण चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन) \* विवरण परीक्षण (पीपी एवं डीटी) शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को ओआईआर परीक्षण तथा पीपी एवं डीटी में उनके संयुक्त रूप से कार्यनिष्पादन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा ।



(ख) चरण II के अंतर्गत साक्षात्कार ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क मनोविज्ञान परीक्षण तथा सम्मेलन कांफ्रेंस शामिल होता है। ये परीक्षण चरणबद्ध होते हैं। इन परीक्षणों का विवरण वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) पर मौजूद है।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन तीन विभिन्न आकलनकर्ताओं नामतः साक्षात्कार अधिकारी (आईओ) ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग अलग अंक वेटेज नहीं हैं। आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को अंकों का आबंटन सभी परीक्षणों में उनके समग्र कार्यनिष्पादन पर विचार करने के पश्चात ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त (कांफ्रेंस हेतु अंको का आबंटन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक तथा कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षण इस प्रकार तैयार किये हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारीसम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने / नहीं होने तथा प्रशिक्षित किए जाने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुशंसा की अथवा नहीं की जाती है।

### परिशिष्ट-II

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इस संबंध में मार्गदर्शक संकेत नीचे दिये गये हैं। बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनका अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अन्तिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड से अनुशंसा के बाद सैनिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा में शीघ्र निर्णय के लिए छोटी-मोटी कमियों/बीमारियों को दूर कर लें।

कुछ ऐसे दोष/बीमारियां नीचे दर्शाई गई हैं :--

- (क) कान का मैल
- (ख) डेवियेटिड नेजल सेप्टम
- (ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस
- (घ) अधिक भार/कम भार
- (ङ) छाती कम होना
- (च) बवासीर
- (छ) गाहनी कामेस्टिया
- (ज) टांसिल
- (झ) वेरिकोसिल

नोट : केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में मंजूरी प्रदान करने के लिए कमांडेंट चयन केन्द्र सक्षम प्राधिकरण होगा।

सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए प्रवेश पाने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी क्षति या संक्रामित रोग होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे, वे अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतर्रोगी चिकित्सा के भी पात्र होंगे, बशर्ते कि--

- (क) क्षति परीक्षण के दौरान हुई हो, अथवा

(ख) चयन बोर्ड द्वारा परीक्षण के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना अव्यवहारिक हो; अथवा



(ग) चिकित्सा बोर्ड उम्मीदवार को प्रेषण हेतु दाखिल करना अपेक्षित समझे।

नोट : वे विशेष सेवा के हकदार नहीं हैं।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। अकादमी में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं। चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय होता है, जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा। किन्तु अयोग्य/ अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। अपील चिकित्सा बोर्ड के दौरान अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा।

(क) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक सैन्य कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैहिक दोष या वजन की कमी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार ज्यादा वजन और मोटा नहीं होना चाहिए।

(ग) कद कम से कम 157 सेंमी. (वायु सेना के लिए 162.5 सेंमी.) का हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमाऊं के व्यक्तियों का 5 सेंमी. कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है। कद और वजन मानक नीचे दिए जाते हैं।

कद और वजन के मानक—थल सेना/वायु सेना के लिए

#### सारणी-I

कद सेंटीमीटरों में	वजन किलोग्राम में		
(बिना जूता)	16-17 वर्ष	17-18 वर्ष	18-19 वर्ष
1	2	3	4
152	42.5	44.0	45.0
155	43.5	45.3	47.0
157	45.0	47.0	48.0
160	46.5	48.0	49.0
162	48.0	50.0	51.0
165	50.0	52.0	53.0
167	51.0	53.0	54.0
170	52.5	55.0	56.0
173	54.5	57.0	58.0
175	56.0	59.0	60.0
178	58.0	61.0	62.0
180	60.0	63.0	64.5
183	62.5	65.0	66.5



## कद और वजन के मानक-नौसेना के लिए

## सारणी-II

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	16 वर्ष	18 वर्ष	20 वर्ष
152	44	45	46
155	45	46	47
157	46	47	49
160	47	48	50
162	48	50	52
165	50	52	53
168	52	53	55
170	53	55	57
173	55	57	59
175	57	59	61
178	59	61	62
180	61	63	64
183	63	65	67

व्यक्ति के संबंध में "तालिका I और तालिका II में दिए औसत वजन से 10% कम या ज्यादा होने पर उसे सामान्य वजन माना जाएगा।" किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-1 : ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित मानक तक हो सकता है कद में 2.5 सेंमी. की (नौ सेना के लिए 5 सेंमी.) छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-2 : वायु सेना में पायलट के रूप में विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई तथा बैठे हुए लंबाई की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगा :--

	न्यूनतम	अधिकतम
टांग की लंबाई	99.00 सेंमी.	120.00 सेंमी.
जांघ की लंबाई	--	64.00 सेंमी.
बैठे हुए लंबाई	81.50 सेंमी.	96.00 सेंमी.

(घ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से फुलाया हुआ सीना 81 सेंमी. से कम नहीं होना चाहिए। पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेंमी. होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्स-रे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।

(ङ) हड्डियों या जोड़ों में कोई अप विकास या उनकी कार्यप्रणाली में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए।



## मेरुदण्ड की स्थितियाँ

(च) मेरुदण्ड अथवा त्रिक-श्रेणिफलक-संधि संबंधी रोग या अभिघात का पूर्व चिकित्सीय इतिहास, अभिदृश्यक लक्षणों सहित या उनके बिना जो उम्मीदवार को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन सफलतापूर्वक जीने से रोक रहे हों के मामले में भारतीय वायु सेना में कमीशन नहीं दिया जाएगा। मेरुदण्ड अस्थिभंग/अन्तरा कशेरुका चक्रिश्च भ्रंश का इतिहास तथा इन स्थितियों के लिए किए गए शल्य चिकित्सकीय उपचार स्वीकार्य नहीं होंगे। चिकित्सा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित स्थितियाँ पाए जाने पर उम्मीदवार वायु सेना सेवा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे :--

- (i) मेरुदण्ड का कणिकालगुल्मीय रोग
- (ii) संधिशोथ संरूप/कशेरुकासन्धिग्रह
  - रुमेटॉइड सन्धिशोथ तथा संबद्ध विकार
  - बद्ध कशेरुकासन्धिशोथ
  - अस्थिसंधिशोथ, कशेरुकासंधिग्रह तथा अपविकसित संधि रोग
  - संधिहीन आभवात (यथा घूर्ण कफ की विक्षति, टेनिस कर्पूर, पुनरावर्ती कटिवेदना आदि)
  - एसएलई, पोलीमायोसाइटिस वैस्कुलाइटिस सहित विविध रोग
- (iii) कशेरुकाग्रसर्पण/कशेरुकासन्धिग्रह
- (iv) कशेरुकाओं का सम्पीड़न अस्थिभंग
- (v) शेयूरमैन रोग (कौमर कुब्जता)
- (vi) ग्रैव मेरुदण्ड की निर्बन्धित गतियों से संबद्ध होने पर ग्रैव अग्रकुब्जता की क्षति
- (vii) एक पार्श्वीय/द्विपार्श्वीय ग्रैव पर्शुका सहित प्रभाण्य तंत्रिका वैज्ञानिक या परिसंचरण कमी
- (viii) कॉब पद्धति द्वारा मापे जाने पर 15 डिग्री से अधिक पार्श्वकुब्जता
- (ix) डीजेनरेटिव डिस्क रोग
- (x) एक से अधिक स्तर पर शमोल पर्व की मौजूदगी
- (xi) शीर्षधर पश्चकपाल और शीर्षधर अक्षक विषमताएं
- (xii) ग्रैव, अभिपृष्ठ या कटि मेरुदण्ड में किसी भी स्तर पर अर्ध कशेरुका तथा/अथवा अपूर्ण रोध (संयुक्त) तथा ग्रैव, अभिपृष्ठ या कटि मेरुदण्ड में एक से अधिक स्तर पर पूर्ण कशेरुका रोध
- (xiii) सभी स्तरों पर एकपार्श्वीय त्रिकास्थि संयोजन अथवा कटि कशेरुका भवन (पूर्ण या अपूर्ण) तथा द्विपार्श्वीय अपूर्ण त्रिकास्थि संयोजन अथवा कटि कशेरुका भवन
- (xiv) विशेषज्ञ द्वारा विचार की गई कोई अन्य असामान्यता।

(छ) हल्का कार्बोफोस्फिस या लोडोसिस जहां विरूपता मुश्किल से दिखाई देती है जहां दर्द की या हरकत में रुकावट की शिकायत नहीं है, स्वीकृति में बाधा नहीं बनेगा।

(ज) दिखाई पड़ने वाले स्कोलियोसिस के या अन्य किसी तरह की असामान्यता या मेरुदण्ड की विरूपता का जो मामूली से अधिक हो—संदेह होने पर मेरुदण्ड का उपयुक्त एक्स-रे लिया जाना है और परीक्षार्थी को विशेषज्ञ की सलाह हेतु प्रस्तुत करना है।

(झ) एक्स-रे परीक्षा के बाद पाई गई निम्नलिखित अवस्थाएं थल सेना में प्रवेश हेतु अयोग्यता का कारण मानी जाएंगी :--

1. मेरुदण्ड की ग्रैन्यूलोमेट्स बीमारी
2. आर्थराइटिडीस/स्पोन्डिलोसिस
3. कावपद्धति से यथामापित स्कोलियोसिस जो 15 डिग्री से अधिक हो। (थल सेना के लिए 10 डिग्री)



4. मामूली से ज्यादा काइफोसिस/लोडॉसिस
5. स्पेण्डिलोसथेसिस/स्पेण्डिलसिस/स्पेण्डिलोलिसिस
6. एरनिएटिड न्यूक्लिअस, पलपोसस
7. कशेरुक का संपीडन विभंग
8. श्वैरमेन की बीमारी
9. प्रदर्शनीय तंत्रकीय या परिसंचारी अभाव के साथ ग्रेव पर्शुका
10. एक से अधिक स्तर पर श्मोले के नोड की उपस्थिति
11. शीर्षघरानुकपाल (अटलांटो-आक्सीपीटल) तथा अटलांटो अक्षीय असंगतियां
12. 'एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय अपूर्ण स्कारलाइजेशन'
13. पूर्णतः सेक्रीलाइज होने की स्थिति में एसवी 1 तथा एलवी 5 को छोड़ कर अन्य स्पाइना बाइफिडा
14. विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य अपसामान्यता।

(ज) उम्मीदवार मानसिक विकृति या दौरै पड़ने का पिछला रोगी नहीं होना चाहिए।

(ट) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके। उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 सें.मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके। कर्ण नासिका की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो। वायु सेना के लिए श्रव्यतामितिक परीक्षण किये जाएंगे। 250 एच. जैड, 8000 एच. जैड के बीच की आवर्तियों में श्रव्यतामितिक सुनने की कमी 20 डेसिबल से अधिक नहीं हो। वाणी में किसी प्रकार की हकलाहट नहीं होनी चाहिए।

(ठ) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब सामान्य हो।

(ड) जिगर या तिल्ली बड़ी हुई न हो, उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ढ) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा, ऐसे मामले में जहां हर्निया की शल्य-क्रिया की गई हो, पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले अंतिम चिकित्सीय परीक्षण के पहले कम से कम छः महीने बीत गए हों।

(ण) हाइड्रोसील, वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

(त) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असमानता मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।

(थ) अशक्तता लाने या आकृति बिगाड़ने वाले चर्म का ऐसा रोग होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(द) दृष्टि संबंधी मानक-दूर दृष्टि क्षमता (संशोधित) अच्छी आंख के लिए 6/6 एवं खराब आंख के लिए 6/9 होनी चाहिए। मायोपिया 2.5 डी तथा हायपरमेट्रोपिया 3.5 डी (एस्टिगमेटिज्म सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जानने के लिए कि आंख में कोई रोग तो नहीं है आंख की आंतरिक परीक्षा औपथलमेस्कोप से की जाएगी। उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वर्ण दृष्टि का मानक सी.पी. स्थल सेना के लिए सीपी III होगा। उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे या इसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी आने का रोग नहीं हुआ है।

जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि की तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केरीटोमी करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा उन्हें सभी तीनों सेवाओं से स्थाई रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने वर्तन दोष (रिफ्रेक्टिव एरर) को ठीक करवाने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, वे रक्षा सेवाओं के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

नौसेना उम्मीदवारों की दृष्टि मानक :

बिना चश्मे के असंशोधित 6/6, 6/9

चश्मे के साथ संशोधित 6/6, 6/6

निकट दृष्टि की सीमा -0.75



दूर दृष्टि की सीमा	+1.5
दूरबीन दृष्टि	111
कलर प्रिसेप्शन की सीमा	1

वायु सेना के लिए दृष्टि मानक :

प्रायः ऐनक पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं। न्यूनतम दूरस्थ दृष्टि 6/6 एक आंख में तथा 6/9 दूसरी आंख में, हाइपरमेट्रोपिया के लिए केवल 6/6 तक सही किए जाने योग्य। वर्ण दृष्टि दोष सीपी-I हाइपरमेट्रोपिया : + 2.0 डी एस पी एच प्रत्यक्ष निकट दृष्टिता-शून्य नेत्र अपवर्तनमानपीय निकटदृष्टिता : -0.5 किसी भी अनुमेय याम्योत्तम में

एस्टिग्मेटिज्म : +0.75 डीसीवाई एल

(+ 2.0 के अंदर डी-मैक्स)

मैड्डोक्स रोड परीक्षण

(i) 6 मीटर पर	—	एक्सोफोरिया -	6 प्रिज्म डी
		एसोफोरिया -	6 प्रिज्म डी
		हाइपर -	1 प्रिज्म डी
		हाइपो -	1 प्रिज्म डी
(ii) 33 सेमी. पर	—	एक्सोफोरिया -	16 प्रिज्म डी
		एसोफोरिया -	6 प्रिज्म डी
		हाइपर -	1 प्रिज्म डी
		हाइपो -	1 प्रिज्म डी

हस्त -- त्रिविमदर्शी--सभी बीएसवी ग्रेड्स

अभिसरण - 10 सें. मी. तक के लिए

दूर तथा निकट के लिए कवर परीक्षण

पार्श्वीय अपसरण/अभिसरण

शीघ्र तथा पूर्व उपलब्धि

सीटू में रेडियल केरेटोमी, प्रकाश अपवर्तन केरेटोमी/लेजर

अपवर्तन संबंधी दोषों को सही कराने हेतु की गई केरेटोमिल्यूसिस (पी आर के/लेसिक) शल्य चिकित्सा वायुसेना दायित्वों के लिए अनुमत नहीं हैं।

आई ओ एल रोप सहित या उसके बिना मोतियाबिन्दु की शल्य चिकित्सा कराने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित किया जाएगा।

द्विनेत्री दृष्टि--अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए (उत्तम आयाम तथा गहराई सहित संयोजन तथा स्टीरियोप्सिस)

जिन उम्मीदवारों की लेसिक शल्य चिकित्सा हुई है, उन्हें भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

(ध) यू.एस.जी. उदर जांच की जाएगी तथा किसी प्रकार की जन्मगत संरचनात्मक असामान्यता या उदर के अंगों का रोग पाए जाने पर सशस्त्र सेना से अस्वीकृत किया जा सकता है।

(न) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं।

उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए।

(प) वायुसेना के उम्मीदवारों के लिए रूटीन ईसीजी सामान्य सीमा में होने जरूरी हैं।



(फ) 'शारीरिक उपयुक्तता' प्रतिशत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नीचे दी गई क्रियाओं के दैनिक पालन के द्वारा वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें :

- (क) 15 मिनट में 2.5 कि.मी. की तेज दौड़
- (ख) उछल-कूद
- (ग) दण्ड-बैठक (प्रत्येक कम से कम बीस-बीस बार)
- (घ) ठोड़ी को ऊंचाई तक छूना (कम से कम आठ बार)
- (ङ) 3 से 4 मीटर रस्सी पर चढ़ना।

### परिशिष्ट-III

#### सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(क) इस आशय का प्रमाणपत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-प्रपत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह के कारण अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है, वह अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गए के अनुसार किसी कमीशन को स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से तत्काल सरकार को वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की है तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि पर ब्याज भी लगेगा जिसकी दर सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होंगी।

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, रहने तथा चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, कैडेट के माता-पिता या संरक्षक को अपना निजी खर्च वहन करना अपेक्षित होगा। सामान्यतः यह व्यय 3,000.00 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस व्यय को भी पूरी तरह या आंशिक रूप से वहन करने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसे कैडेटों के माता-पिता या संरक्षक जिनकी मासिक आय 21,000/- रुपए प्रति माह से कम है, के मामले में सरकार द्वारा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 1,000.00 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। जिन कैडेट्स के माता-पिता या संरक्षक की मासिक आय 21,000/- रुपए प्रति माह से अधिक है, वे वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। यदि एक से अधिक पुत्र/वार्ड (प्रतिपाल्य) एनडीए, आईएमए, ओटीए तथा नौसेना और वायु सेना की संगत प्रशिक्षण प्रतिस्थापना में साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो वे दोनों ही वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को अपने आगमन पर कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:--

(क) प्रतिमाह 3000.00 रुपए की दर से पांच माह का पॉकेट भत्ता	रुपये 15000.00
(ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मदों के लिए	रुपये 17865.00
(ग) सेना समूह बीमा निधि	रुपये 6400.00
(घ) प्रथम सत्र के दौरान आनुषंगिक व्यय	रुपये 7516 .00
योग	रुपये 46781.00



यदि उम्मीदवार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी मिल जाती है तो उपर्युक्त उल्लिखित राशि में से निम्नलिखित राशि वापिस लौटा दी जाएगी :--

(क) प्रति माह 400.00 रुपए की दर से पांच माह के लिए पॉकेट भत्ता (सरकारी वित्तीय सहायता के अनुरूप) रुपये 2,000.00

(ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मदों के लिए रुपये 13,935.00

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं:

(1) **परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति**- यह छात्रवृत्ति, पासिंग आउट पाठ्यक्रम के अंतर्गत अकादमिक क्षेत्र में समग्रतः प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट को प्रदान की जाती है। एकबारगी छात्रवृत्ति की राशि 5000/- रु. है।

(2) **कर्नल कैडिल फ्रेंक मेमोरियल छात्रवृत्ति** : यह 360 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) **कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति** : दो छात्रवृत्तियां उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतर स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति 37 रु. प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाईंग कॉलेज तथा भारतीय नौ सेना अकादमी, इज़ीमाला में जहां कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) **असम सरकार छात्रवृत्ति** : दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30 रु. प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) **उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियां** : दो छात्रवृत्तियां 30 रु. प्रति मास की तथा 400 रु. की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। जिन कैडेटों को ये छात्रवृत्तियां मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेगी।

(6) **केरल सरकार छात्रवृत्ति** : पूरे वर्ष के लिए 480 रु. की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा. र. अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी है और जो रा. र. अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं.लो.से.आ. की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ऐसा करते समय कैडेट के पिता/संरक्षक की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(7) **बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार** : यह 500 रुपये का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है, आवेदन पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) **उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां** : तीन छात्रवृत्तियां--एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक 80 रु. प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियां कैडेटों की योग्यता तथा आय के साधन के आधार पर दी जाएंगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी।

	राज्य सरकार	राशि	पात्रता
(9)	पश्चिम बंगाल प्रारंभिक एकमुश्त अनुदान प्रति सत्र छात्रवृत्ति *आय समूह सारणी रु. 5000/-, रु. 3,750/-, अथवा उसके माता-पिता पश्चिम बंगाल राज्य के स्थायी निम्न--9000/- रुपए प्रति माह तक	निम्न मध्य उच्च रु. 5000/- रु. 3,750/- रु. 2500/- रु. 1800/- रु. 1350/- रु. 900/-	(i) कैडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए और कैडेट और/अथवा उसके माता-पिता पश्चिम बंगाल राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए अथवा उनका स्थायी निवास स्थान पश्चिम बंगाल होना चाहिए। (ii) कैडेट को मैरिट पर प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति अथवा वजीफे के सिवाए भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं होता है।



	मध्य--9001/- रुपए से 18000/- प्रति माह तक उच्च--18000/- रुपए प्रति माह से अधिक		
(10)	गोवा	1000/- रुपए प्रति माह प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, (अधिकतम 24 माह अथवा कोर्स की अवधि के दौरान, जो भी कम हो) और 12000/- रुपए का एकबारगी वर्दी भत्ता।	(i) कैडेट के माता-पिता/ अभिभावक की आय की सीमा 15,000/- रुपए प्रति माह (1,80,000/- रुपए प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित की आय सीमा 37,500/- रुपए प्रति माह (4,50,000/-) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iii) वे किसी भी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति/निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त न कर रहे हों।
(11)	नागालैण्ड	1,00,000/- रुपए एकबारगी भुगतान	नागालैण्ड राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
(12)	मणिपुर	1,00,000/- रुपए एकबारगी भुगतान	मणिपुर राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
(13)	अरुणाचल प्रदेश	छात्रवृत्ति 1000/- रुपए प्रति माह एकबारगी वर्दी भत्ता 12,000/- रुपए	अरुणाचल प्रदेश राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
(14)	गुजरात	छात्रवृत्ति 6000/- रुपए प्रति वर्ष	गुजरात के सेवारत/भूतपूर्व सैनिक मूल/अधिवासी सैनिक (भूतपूर्व/सेवारत अधिकारी सहित) के आश्रित/अधिवासी को।
(15)	<b>उत्तराखंड</b> (क) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों हेतु 250/- रु. प्रतिमाह की जेब खर्च राशि ऐसे कैडेटों के पिता/संरक्षक को प्रदान की जाती है (पूर्व-सैनिक/विधवा के मामले में संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से)। (ख) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों के पिता/संरक्षक को उच्च शिक्षा निदेशालय, हलद्वानी के माध्यम से 50,000/- रु. का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।		
(16)	पंजाब	1,00,000/- रुपए एकबारगी भुगतान	पंजाब राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
(17)	राज्य सरकार सिक्किम	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए 1.5 लाख रु.	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए सिक्किम के सफल उम्मीदवारों हेतु पुरस्कार
(18)	उड़ान अधिकारी अनुज नांचल स्मारक छात्रवृत्ति- छठे सत्र में समग्रतः द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले वायु सेना कैडेट को 1500/- रु. (एकबारगी भुगतान)।		
(19)	पाइलट अधिकारी गुरमीत सिंह बेदी स्मारक छात्रवृत्ति - पाइलट अधिकारी गुरमीत सिंह बेदी स्मारक छात्रवृत्ति। छठे सत्र में पासिंग आउट के समय समग्रतः सर्वश्रेष्ठ वायु सेना कैडेट को 1500/- रु. (एकबारगी भुगतान)।		

(20) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति : हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40 रुपये प्रतिमास मिलेगी। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये प्रतिमास से कम होगी, जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(21) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति : तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स रु. 30 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में रु. 400 सज्जा भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय रु. 500 से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।



(22) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां- कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले कर्नाटक राज्य के कैडेटों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। छात्रवृत्ति की राशि 1000/- रु.(एक हजार रुपए) प्रतिमाह और वर्दी (आउटफिट) भत्ते की राशि प्रथम सत्र में 12000/- रु. होगी।

(23) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति : बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रु. 50/- प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः समयावधि के पूरे समय के वास्ते एक बार और रु. 650/- वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है। जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(24) फ्लाईंग आफिसर डीवी पिटू स्मारक छात्रवृत्ति : ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वरीयताक्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए 125/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। पात्र कैडेट प्रशिक्षण पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(25) महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के वार्डों को वित्तीय सहायता

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के जो वार्ड एनडीए में कैडेट के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में 50,000/- रुपए दिए जाएंगे।

कैडेटों के माता-पिता/संरक्षकों को अकादमी से प्राप्त प्रमाण-पत्र के साथ अपने आवेदन पत्र को संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्तियों पर लागू निबंधन और शर्तें कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे - 411023 से प्राप्त की जा सकती हैं।

(26) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हरियाणा के अधिवासी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता।

हरियाणा राज्य सरकार ने एनडीए/आईएमए/ओटीए तथा राष्ट्रीय स्तर की अन्य रक्षा अकादमियों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले हरियाणा राज्य के अधिवासी प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

(27) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के अधिवासी कैडेटों को प्रोत्साहन।

चंडीगढ़ प्रशासन ने उन कैडेटों को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु योजना प्रारंभ की है जो संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के निवासी हैं तथा जिन्होंने एनडीए में प्रवेश लिया है।

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी:--

(क) अंग्रेजी

(ख) गणित

(ग) विज्ञान

(घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सैकेंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सैकेंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा।

(घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाएं।

प्रशिक्षण :

6. तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 वर्ष के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है। पहले ढाई वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समान है। सफल होने पर कैडेटों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा बीएससी/ बीएससी (कम्प्यूटर)/बीए डिग्री प्रदान की जायेगी।

नौसेना अकादमी के लिए चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी, इज़ीमाला में 4 वर्ष की अवधि के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम को भारतीय नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने (पासिंग आउट) पर बी. टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।



7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में, नौसेना कैडेट, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला में और वायु सेना कैडेट, ए.एफ.ए. हैदराबाद जाएंगे।

8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कैडेटों को 'जेन्टलमैन कैडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन्फैन्ट्री के उप यूनियों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमैन कैडेटों को उनके शेप-वन (SHAPE-एक) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9. नौ सेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना का कार्यपालक शाखा के लिए चुना जाता है, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला में एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें उप लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

10. वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप से फ्लाईंग अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है। उनके बाद छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाहित कर दिया जाता है।

सेवा की शर्तें :

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक

(i) कैडेट प्रशिक्षण हेतु नियत वृत्तिका

जेन्टलमैन कैडेट, सेवा अकादमियों, अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, की पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान 21,000/- रु. प्रतिमाह (15,600/- रुपये पे बैंड के वेतन के रूप में तथा 5,400/- रुपये का ग्रेड पे) की वृत्तिका पाने के हकदार होंगे।

(ii) वेतन

(क) रैंक	पे बैंड (रु.)
लेफ्टिनेंट से मेजर	15,600—39,100/- (पे बैंड-3)
लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल	37,400—67,000/- (पे बैंड-4)
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी मान*	67,000/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)--79,000/-
एचएजी+मान	75,500/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)--80,000/-

(\*लेफ्टिनेंट जनरल की कुल संख्या के 1/3 पर लागू होगी)

वी सी ओ ए एस/सेना 80,000/- (नियत)

कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी)

सी ओ ए एस 90,000/- (नियत)

(ख) वेतन के अतिरिक्त ग्रेड पे भी निम्नानुसार दी जाएगी :--

लेफ्टिनेंट	5,400/- रु.
कैप्टन	6,100/- रु.
मेजर	6,600/- रु.
लेफ्टिनेंट कर्नल	8,000/- रु.
कर्नल	8,700/- रु.
ब्रिगेडियर	8,900/- रु.
मेजर जनरल	10,000/- रु.



(ग) लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक के रैंक के अधिकारियों को सेना सेवा वेतन (एमएसपी) के रूप में 6,000/- रुपये प्रति माह की एक नियत धनराशि भी देय है।

(iii) योग्यता वेतन तथा अनुदान

अधिकारियों की उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर रु. 6,000/-, 9,000/-, 15,000/- या 20,000/- रु. का एकमुश्त योग्यता अनुदान देय है। सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय हैं :

- (i) मास्टर उड़ान अनुदेशक--500/- रु. प्रतिमाह
- (ii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I--400/- रु. प्रतिमाह
- (iii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II--280/- रु. प्रतिमाह
- (iv) मास्टर ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक--400/- रु. प्रतिमाह
- (v) ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक--280/- रु. प्रतिमाह

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है:--

- (क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर 10,500/- रु.
- (ख) मेजर से कर्नल 14,000/- रु.
- (ग) कैप्टन 11,000/- रु.
- (घ) लेफ्टिनेंट 9,000/- रु.

इस समय एक अधिकारी वेतन के अलावा निम्नलिखित भत्ते प्राप्त करता है :

(क) मंहगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।

(ख) 400/- रु. प्रति माह की दर से किट रख-रखाव भत्ता।

(ग) तैनाती के क्षेत्र एवं रैंक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी 6,780/- रु. से 8,400/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता 4,200/- रु. से 5,200/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा 1,600/- रु. से 2,000/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे।

(घ) प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त अधिकारियों को 9,000 फीट और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को 1,060/- रु. प्रतिमाह से 11,200/- रु. प्रतिमाह तक की रेंज में हाई एल्टीट्यूड भत्ते के पात्र होंगे जो अधिकारी के रैंक और तैनाती के स्थान पर निर्भर करेगा।

(ङ) परिधान भत्ता : एक समय किट के लिए 14,000/- रु. की दर से आरंभिक भत्ता और प्रति तीन वर्षों के लिए 3,000/- रुपये।

(च) परिवहन भत्ता : अधिकारियों को ए-1/ए वर्ग के शहरों में परिवहन भत्ता 3,200/- रुपये + उस पर मंहगाई भत्ता प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर 1,600/- रुपये + उस पर मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।

टिप्पणी : रक्षा बलों के लिए निर्दिष्ट भत्तों के मामले में, इन भत्तों की दरों को 50% से आगे बढ़ाया गया है क्योंकि मंहगाई भत्ता 100% से ऊपर चला गया है।

12. (क) सेना सामूहिक बीमा राशि एक अनिवार्य सामूहिक योजना है जो कैडेटों, जिनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नौसेना और वायुसेना कैडेट शामिल हैं, द्वारा कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ करने की तारीख से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक तीन वर्ष के लिए एक बार में रु.6,400/- की अग्रिम एकमुश्त अप्रतिदेय राशि की अदायगी पर रु. 15 लाख के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। पदावनति के मामले में, ऐसा होते ही प्रत्येक पदावनति अवधि के लिए रु. 1160/- की अतिरिक्त बीमा राशि का भुगतान करना होगा। विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर



राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से बाहर कर दिया जाता है उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए बीमाकृत राशि के 50 प्रतिशत तक का लाभ दिया जाता है अर्थात् 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 7.5 लाख रु. जो कि 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 1.5 लाख तक अनुपातिक रूप से कम हो जाता है। प्रशिक्षण के प्रारंभिक वर्षों के दौरान 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के कारण बाहर किए जाने वाले कैडेटों को 50,000/- का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के कारण अशक्त ठहराए जाने पर बाहर किए गए कैडेटों को 1 लाख रु. का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) बीमा : भारतीय सैनिक अकादमी में वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे जेंटलमैन कैडेटों का नियमित अधिकारियों पर यथा लागू मुख्य एजीआई योजना के अनुसार पहली अक्टूबर, 2015 से 5000/- रु मासिक योगदान सहित 60 लाख रु. के लिए बीमा किया जाता है। विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर भारतीय सैनिक अकादमी से बाहर कर दिया जाता है। उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 25 लाख रु. के लिए बीमा किया जाएगा। जो 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 5 लाख रु. तक अनुपातिक रूप से कम हो जाता है और तथापि, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए 50,000/- रु. के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

### 13. प्रोन्नति के अवसर :

क्रम सं.	सेना	नौसेना	वायु सेना	मूल पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम संगणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
(क)	लेफ्टिनेंट	सब लेफ्टिनेंट	फ्लाईंग ऑफिसर	कमीशन प्राप्त होने पर
(ख)	कैप्टन	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट	02 वर्ष
(ग)	मेजर	लेफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वाड्रन लीडर	06 वर्ष
(घ)	लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर	13 वर्ष
(ङ)	कर्नल (चयन)	कैप्टन (चयन)	ग्रुप कैप्टन (चयन)	15 वर्ष
(च)	कर्नल (समयमान)	कैप्टन (समयमान)	ग्रुप कैप्टन (समयमान)	26 वर्ष
(छ)	ब्रिगेडियर	कोमोडोर	एअर कोमोडोर	चयन के आधार पर
(ज)	मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एअर वाइस मार्शल	चयन के आधार पर
(झ)	लेफ्टिनेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एअर मार्शल	चयन के आधार पर
(ञ)	जनरल	एडमिरल	एअर चीफ मार्शल	चयन के आधार पर

### 14. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेच्युटी अवार्ड समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

### 15. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी।



## गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 नवम्बर 2015

सं. डी.एक. 19/2014-कार्मिक-डी0ए0-आठ—एन0डी0आर0एफ मुख्यालय के पत्र संख्या 1-17018/Estt-I/733/ NDRF/2014/8069 दिनांक 17/07/2014/2013 और MHA नोटि दिनांक 16/09/2015 के तहत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के श्री नंदकिशोर कुमार प्रसाद (इरला-5162), द्वितीय कमान अधिकारी का एन0डी0आर0एफ बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर 05 वर्षों के लिए चयन हो जाने के फलस्वरूप अधिकारियों की सेवाएँ दिनांक 12/11/2015 (अप0) से महानिदेशक एन0डी0आर0एफ के निपटान (DISPOSAL) पर रहेंगी।

ए .वी .चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 30 नवम्बर 2015

सं. डी.एक. 02/2006-15-कार्मिक-डी0ए0-आठ—श्री जय प्रकाश साही (इरला-5429), द्वितीय कमान अधिकारी, 38 बटा0 के0रि0पु0बल का एस0पी0जी0, में Assistant Inspector General(AIG) के पद पर 06 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के फलस्वरूप उन्हें Cabinet Secretariat, GOI order No.A-12011/01/2015-SS दिनांक 25/06/2015 के अनुसार दिनांक 16/11/2015 (अप0) से कार्यमुक्त किया गया है। अतः उक्त अधिकारी की सेवाएँ दिनांक 16/11/2015 (अप0) से एस0पी0जी0 मुख्यालय के निपटान (disposal) पर रहेगी।

ए .वी .चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

## भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110124, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

सं.-314-जी.ई.1/13-2006—भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं/देहान्त हो चुका है: -

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम तथा पदनाम	सेवानिवृत्त की तिथि
1.	श्री सतीश लुम्बा, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (पूर्वी क्षेत्र), कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।	दिनांक 30.11.2015 (अपराहन)
2.	सुश्री गौरी करोल, निदेशक, इन्डस्ट्रियल पॉलिसी एवं प्रमोशन विभाग, कॉमर्स एवं इन्डस्ट्री मंत्रालय, नई दिल्ली – प्रतिनियुक्ति पर।	देहान्त दिनांक 29.11.2015

पुरुषोत्तम तिवारी  
प्रधान निदेशक (कार्मिक)

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

सं. ओई(ई एवं सी)ईआईवी/पी/15-16/241—

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्री राधाकृष्ण कुरुप एम	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2015 अपराह्न (अधिवर्षिता)



क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
2.	श्री विजयराघवन पी एस	वरिष्ठ लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, कोषिकोड	30.11.2015 अपराह्न (अधिवर्षिता)
3.	श्रीमती लीला बाई एल (सं. 2)	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2015 अपराह्न (अधिवर्षिता)
4.	श्रीमती मुत्तुलक्षि अम्माल आर	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2015 अपराह्न (अधिवर्षिता)
5.	श्री विजयन नायर के जी	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2015 अपराह्न (अधिवर्षिता)
6.	श्रीमती विजयाकुमारी वी आर	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2015 अपराह्न (अधिवर्षिता)

ह./— अपठनीय  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

सं. ए: 19012/544/2014—स्था—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री ओ.पी. जांगिड, अधिक्षक को भारतीय खान ब्यूरो, उदयपूर में दि 1.10.2014 (अपराह्न) से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एन. डहंगा  
प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता—700016, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

सं. 9959/SP/ए-32013/(20-एसओ)/डीपीसी/2015/19बी—राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित सहायक सर्वेक्षण अधिकारियों को पदोन्नति पर नियमित आधार पर सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर ग्रेड पे 5400 (पे बैंड-3) सहित, पे स्केल रु. 15,600—39,100 में उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, आगामी आदेशों तक नियुक्ति का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री हिमाद्री शेखर मल्लिक	25.08.2015 (अपराह्न)
2.	श्री पार्था रॉय	27.08.2015 (पूर्वाह्न)
3.	श्री सुल्तान सिंह	25.08.2015 (अपराह्न)

टी.आर. दास  
सहायक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

कोलकाता—700016, दिनांक 16 दिसम्बर 2015

सं. 9996/SP/ए-32013/प्रअ/डीपीसी/2014—15/19ए—विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर, महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निम्नलिखित सहायक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पदोन्नति पर प्रशासन अधिकारी (समूह—'ख'



राजपत्रित), के पद पर नियमित आधार पर पे बैंड- 2 में ग्रेड पे रु. 4600/- सहित वेतनमान रु. 9,300—34,800 में प्रत्येक के सामने दर्शाए गए तिथि से प्रभावी, इसी विभाग में आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	प्रशासन अधिकारी पदपर कार्यग्रहण करने की तिथि
1	श्रीमती राधा चौधुरी (अनुसूचित जाति)	27.03.2015 (पूर्वाह्न)
2	श्री बरुन सिन्हा	10.04.2015 (पूर्वाह्न)
3	श्री सी.आर. चक्रवर्ती	30.03.2015 (पूर्वाह्न)
4	श्री बिष्णुपदा दास	27.03.2015 (पूर्वाह्न)
5	श्री जे. एस. पाल	27.03.2015 (पूर्वाह्न)
6	श्री गौतम नंदी	27.03.2015 (पूर्वाह्न)
7	श्रीमती बी. सी. देशपांडे	27.03.2015 (पूर्वाह्न)
8	श्री मैकु लाल (अनुसूचित जाति)	27.03.2015 (पूर्वाह्न)
9	श्री जगन्नाथ मंडल (अनुसूचित जाति)	31.03.2015 (अपराह्न)
10	श्री जितेंद्र प्रसाद गोंड (अनुसूचित जनजाति)	01.05.2015 (पूर्वाह्न)

एस. दास रॉय  
उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

सं. 9997/SP/ए-32013/निदे. (का एवं प्र)/डीपीसी/2015-16/19ए—राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर डॉ. ए.एस. सेंट वडिवेल, संयुक्त निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) (समूह-‘क’), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पदोन्नति पर स्थानापन्न हैसियत पर इसी विभाग में निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) (समूह-‘क’) के पद पर पे बैंड-4 में ग्रेड पे रु. 8700/- सहित वेतनमान रु. 37,400-67,000 में दिनांक 27.05.2015 (अपराह्न) से प्रभावी, आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. दास रॉय  
उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

सं. 9998/SP/ए-32013/प्रअ/डीक्यूई/डीपीसी/2013-14/19ए--डीक्यूई - प्रअ- 13 के परीक्षा परिणामों के आधार पर और विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर, महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निम्नलिखित सहायक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पदोन्नति पर प्रशासन अधिकारी (समूह-‘ख’, राजपत्रित) के पद पर इसी विभाग में नियमित रूप से पे बैंड- 2 में ग्रेड पे रु. 4600/- सहित वेतनमान रु. 9,300--34,800 में प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	नाम	प्रशासन अधिकारी पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि
1	श्री वी. श्रीराम	30.03.2015 (पूर्वाह्न)
2	श्री एस.एस कामेश्वर	30.03.2015 (पूर्वाह्न)
3	श्री एम. नरसिंग राव (अनु.जाति.)	30.03.2015 (पूर्वाह्न)



क्र.सं.	नाम	प्रशासन अधिकारी पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि
4	श्री गिरिराज प्रसाद जैन	31.03.2015 (पूर्वाह्न)
5	श्री वी. स्वामी नाथन	30.03.2015 (पूर्वाह्न)
6	श्रीमती सी. सुजाता	30.03.2015 (पूर्वाह्न)
7	श्रीमती नीरजा प्रसाद	30.03.2015 (पूर्वाह्न)
8	श्री देबाशीष सेनगुप्ता	01.04.2015 (पूर्वाह्न)
9	श्री सुबल कुमार मंडल (अनु.जाति.)	31.03.2015 (पूर्वाह्न)
10	श्रीमती विद्या सुरेश कुमार	30.03.2015 (पूर्वाह्न)
11	श्री प्रसेजित साहा (अनु.जाति.)	26.03.2015 (पूर्वाह्न)
12	श्री पी. एन. बहादुरे (अनु.जाति.)	31.03.2015 (अपराह्न)
13	श्री प्रोनब चन्द्र खनरा (अनु.जाति.)	31.03.2015 (पूर्वाह्न)

एस. दास राँय  
उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

सं. 9999/SP/ए-32013/स.नि. (का एवं प्र)/डीपीसी/2014-15/19ए—राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित प्रशासन अधिकारी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पदोन्नति पर सहायक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) (समूह—‘क’) के पद पर नियमित आधार पर इसी विभाग में नियमानुसार पे बैंड— 3 में ग्रेड पे रु. 5400/— सहित वेतनमान रु. 15,600 – 39,100 में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अधिकारी का नाम	सहायक निदेशक (का. एवं प्रशा.) के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि
श्री शिव पाल (अनुसूचित जाति)	02.02.2015 (पूर्वाह्न)

एस. दास राँय  
उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

सं. 10000/SP/ए-32013/उनि. (का एवं प्र)/डीपीसी/2015-16/19ए—राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित सहायक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) (समूह—‘क’), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पदोन्नति पर नियमित आधार पर इसी विभाग में उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) (समूह—‘क’) के पद पर पे बैंड— 3 में ग्रेड पे रु. 6600 सहित वेतनमान रु. 15,600–39,100 में प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	उप निदेशक (का. एवं प्रशा.) पद पर कार्यारंभ करने की तिथि
1	कु. पी. शांति	26.05.2015 (पूर्वाह्न)
2	श्री एच. नारायणा	26.05.2015 (पूर्वाह्न)
3	श्री प्रणब कुमार दत्ता	30.04.2015 (अपराह्न)
4	श्री पुलोक कुमार मुखर्जी	29.04.2015 (अपराह्न)



क्र.सं.	अधिकारी का नाम	उप निदेशक (का. एवं प्रशा.) पद पर कार्यारंभ करने की तिथि
5	श्री बी.जी. रायलु	11.05.2015 (अपराह्न)
6	श्री मदन कुमार भारती	11.05.2015 (अपराह्न)

एस. दास रॉय  
उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय  
फरीदाबाद-121001, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

सं. ए-19025/60/2015-प्रशा.।—संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर श्री भागचंद नागौरा को वेतन बैंड-2 (रु 9300-34800) + ग्रेड पे रु 4600/- में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में दिनांक 24.11.2015 (पूर्वाह्न) से अस्थाई आधार पर, विपणन अधिकारी (ग्रुप- I) (सर्वे, ट्रेनिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एल. अनंत  
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र  
मुंबई-400085, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

सं. पीडी /7(23)/2015/भर्ती-IV/(एसओ/एफ)/14593—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजिनियरों ग्रेड 'ई' पे बैंड पीबी-3 रु. 15600 - 39100 + ग्रेड पे रु. 7600 को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजिनियर ग्रेड 'एफ' के पद पर पे बैंड पीबी-4 रु. 37400 - 67000 + ग्रेड पे रु. 8700 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में उनके नाम के आगे उल्लेखित कालम संख्या 3 में दर्शाये गए तिथि के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री अनिल पी. करंडे	01.07.2015
2	डॉ अनूप केलकर	01.07.2015
3	श्री सुरेंद्र बी	01.07.2015
4	श्री प्रकाश तुकाराम पोफलकर	01.07.2015
5	श्री आलोक कुमार सक्सेना	01.07.2015
6	श्री गौरव कुमार पाण्डेय	01.07.2015
7	श्री सब्यसाची मित्रा	01.07.2015
8	श्री मृदुल शर्मा	01.07.2015
9	डॉ बी. सुन्दर सहायनाथन	01.07.2015
10	श्री गोयल हुक्मी चंद	01.07.2015
11	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा	01.07.2015
12	श्री स्वामी शरण	01.07.2015
13	श्री विनय भारद्वाज	01.07.2015



क्र. सं.	अधिकारी का नाम	दिनांक
14	डॉ धीरेन्द्र कुमार झा	01.07.2015
15	डॉ कौस्तव भट्टाचार्या	01.07.2015
16	श्री धीरज जैन	01.07.2015
17	श्री मनप्रेष्टी बालाकृष्णन प्रेमदास	01.07.2015
18	श्री सौमित्र पाल	01.07.2015
19	श्री स. सुन्दर राजन	01.07.2015
20	श्री मुंगथ दामोदरन नायर	01.07.2015
21	श्री सुशील कुमार अरुण तिवारी	01.07.2015
22	डॉ रोहित शुक्ल	01.07.2015
23	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	01.07.2015
24	श्री पार्थ बनार्जी	01.07.2015
25	श्री रंडाले गुरुनाथ दिगंबर	01.07.2015
26	श्री मलमल गोपिनाथ राजेश	01.07.2015
27	श्रीमती मेनका सुखवानी	01.07.2015
28	डॉ श्रीमती संगीता धारा लेंका	01.07.2015
29	डॉ सुमन कुमार सिंह	01.07.2015
30	श्री अरुण कुमार	01.07.2015
31	श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय	01.07.2015
32	डॉ अजय कुमार मिश्र	01.07.2015
33	श्रीमती चित्रा सुब्रमणियन	01.07.2015
34	श्री उमेश विनायक देवकर	01.07.2015
35	श्रीमती श्वेता रॉय	01.07.2015
36	श्री सुरेश चन्द्र स्वर्णकार	01.07.2015
37	डॉ मनीष गोस्वामी	01.07.2015
38	श्रीमती अनीता राजीव पाटील	01.07.2015
39	डॉ विवेक नथुराम दबडे	01.07.2015
40	डॉ तम्मना श्रीरामा चंद्र मूर्ति	01.07.2015
41	श्री करिर वेंकट मणिकृष्ण	01.07.2015
42	डॉ सुवेन्दु मंडल	01.07.2015



क्र. सं.	अधिकारी का नाम	दिनांक
43	डॉ सुधीर सिंह	01.07.2015
44	डॉ जितेन्द्र कुमार	01.07.2015
45	श्रीमती अरुणा ज्योति कोरा	01.07.2015
46	श्री एस.के. खण्डेलवाल	01.07.2015
47	श्री चेन्न केशवुलु गुररम	01.07.2015
48	श्री विजय गुप्ता	01.07.2015
49	श्री गोविंदन के	01.07.2015
50	श्री कि. शिवकुमारन	01.07.2015
51	श्री मनीष कुमार	01.07.2015
52	श्री अंकुर दत्तात्रेय क्षीरसागर	01.07.2015
53	श्री प्रमोद कुमार सिंह	01.07.2015
54	डॉ सतीश रघुनाथ सावंत	01.07.2015
55	श्रीमती भारती अभय भालेराव	01.07.2015
56	श्री शिरीष दत्तोपंत डोगमाने	01.07.2015
57	श्री संत शरन	01.07.2015
58	श्री तरुण कुमार देवांगन	01.07.2015
59	श्री बिभु नारायण रथ	01.07.2015
60	श्री मीस्त्री भरतकुमार परभुभाई	01.07.2015
61	डॉ दीनानाथ यादव	09.07.2015
62	श्रीमती मंजुलता साहु	01.07.2015
63	डॉ अमित कुमार	01.07.2015
64	डॉ विपेन बतरा	01.07.2015
65	डॉ श्रीमती छवि अग्रवाल	01.07.2015
66	श्री योगेश सुरेश निरगुडे	01.07.2015
67	श्री अनुज कुमार कन्सल	01.07.2015
68	श्री सुमीत विष्णु प्रसाद	01.07.2015
69	श्री परिमल प्रमोद कुलकर्णी	01.07.2015
70	श्री रितेश कृष्णाजी बागुल	01.07.2015
71	श्री गुरुदत्त जगदिशचंद्र गोराडे	01.07.2015
72	श्री सुरेंद्र हरिहर मोघे	01.07.2015
73	डॉ गौरव मल्होत्रा	01.07.2015



क्र. सं.	अधिकारी का नाम	दिनांक
74	श्री इन्द्रनील बॅनर्जी	01.07.2015
75	श्री विजय कुमार	01.07.2015
76	श्री एम. टि. मंजुनाथ	01.07.2015
77	श्री मुरुगन आर.	01.07.2015
78	श्री राजू गणेशन	01.07.2015
79	श्री विनय कुमार मिश्रा	01.07.2015
80	श्री सुमित कुमार कोचर	01.07.2015
81	श्री पिल्लै जी. राजशेखरन	01.07.2015
82	श्री रोनल्ड फेलिक्स सीक्वेरा	01.07.2015
83	श्री कुमार राजा मच्चा	01.07.2015
84	श्री रविंद्र दत्तात्रय फुलसुंदर	01.07.2015
85	श्री चंद्रहास नारायणाराव कुलकर्णी	01.07.2015
86	श्री कमलेश कुमार वर्मा	01.07.2015
87	श्री सुकुमार लायेक	01.07.2015
88	डॉ श्रीमती शर्मिष्ठा दत्ता चौधरी	01.07.2015
89	डॉ श्रीमती सुमना सेनगुप्ता	01.07.2015
90	डॉ वैदेही शरण त्रिपाठी	01.07.2015
91	श्री पार्थ सारथि माइति	01.07.2015
92	श्री भूषण मुधोलकर	01.07.2015
93	श्री चिराग अरविंदभाई पटेल	01.07.2015
94	डॉ राकेश कुमार	01.07.2015
95	श्री भुवनेश्वर गेरा	01.07.2015
96	डॉ श्रीमती रीना जाना	01.07.2015
97	श्रीमती मिनल येशुराजा नाडार	01.07.2015
98	श्री प श्रीनिवासन	01.07.2015
99	डॉ आनंद रामन	01.07.2015
100	श्री अनिल जैन	01.07.2015
101	श्री गौतम वर्मा	01.07.2015
102	श्री थोरवे शैलेश मनाजी	01.07.2015
103	श्री धनंजय गजानन परुलेकर	01.07.2015
104	श्रीमती चन्द्रानी भट्टाचार्य	01.07.2015



क्र. सं.	अधिकारी का नाम	दिनांक
105	डॉ शंकर प्रसाद कोईरी	01.07.2015
106	डॉ श्रीमती विभा सक्सेना	01.07.2015
107	श्री चम्पा लाल प्रजापत	01.07.2015
108	डॉ श्रीमती देबजानी कर्मकार	01.07.2015
109	डॉ श्रीमती बबिता तिवारी	01.07.2015
110	श्री नागशेष्टी सटवाजी गायकवाड	01.07.2015
111	श्री राज कुमार	01.07.2015
112	श्रीमती मौसुमी सिंघा	01.07.2015
113	श्री रमेश गुप्ता	01.07.2015
114	श्री राजामोहन राजा	01.07.2015
115	श्रीमती पद्मा शशिकुमार	01.07.2015
116	डॉ राजेश कुमार	01.07.2015

एम. वी. श्रीधरन  
उप स्थापना अधिकारी

#### परमाणु ऊर्जा विभाग

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

सं. भर्ती/भापअकेसु/2(15)/2015/1590—प्रधान, नियोजन एवं समन्वयन प्रभाग, श्री एम.एन. षाजू सहायक परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को दिनांक 18 सितम्बर 2015 के पूर्वाह्न से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सुविधाएं, कल्पाक्कम में सहायक कार्मिक अधिकारी (पीबी-2 रु. 9,300—34,800 + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. सौन्दरराज  
प्रशासनिक अधिकारी—III

दिनांक 2 दिसम्बर 2015

सं. 26/2/2015—सीसीएस/16317—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाईयों में कार्यरत वरिष्ठ हिंदी अनुवादक (पीबी-2 रु. 9300—34800 + ग्रेड वेतन रु. 4600), ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दी गई तारीख से आगामी आदेश होने तक प्रभावी रूप में सहायक निदेशक (राजभाषा) (पीबी-3 रु. 15,600—39,100 + ग्रेड वेतन रु. 5,400) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	यूनिट	सहायक निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में पदोन्नति की तारीख
1.	श्री एस आई जबीउल्ला	भापासं, मणगुरु	19.09.2015 (पूर्वाह्न)
2.	डॉ के माधवी	आरएमपी, मैसूर	15.10.2015 (पूर्वाह्न)
3.	श्री मनोज कुमार शुक्ला	भापासं, बडौदा	07.11.2015 (पूर्वाह्न)

ए. सुकुमारन  
अवर सचिव



मुंबई—400001, दिनांक 16 दिसम्बर 2015

सं. 1/3/2015—सीसीएस/17148—राष्ट्रपति, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के प्रधान निजी सचिव (वेतन बैंड—3 15,600—39,100 + ग्रेड वेतन 6,600/— श्री राफेल जॉन पालामट्टम को दिनांक 23 अप्रैल 2015 की पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक उसी केन्द्र में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (वेतन बैंड—3 15,600—39,100 + ग्रेड वेतन 7,600/—) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. सुकुमारन  
अवर सचिव

-----  
क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई—400094, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/4805—निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री पी. रविन्द्र [कर्मचारी सं.—433], वरिष्ठ क्रय सहायक (वेतन बैंड—2 रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,200/—), आरएमपी, क्रभनि, मैसूर को दिनांक 26 नवम्बर 2015 के पूर्वाह्न से सहायक क्रय अधिकारी (वेतन बैंड—2 रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,800/—) के पद पर नियुक्त तथा उसी एकक में अगले आदेशों तक तैनात करते हैं।

एस. वाई कांबळे  
प्रशासन अधिकारी—III

कार्यालय महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली—110003, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

सं. ए—12025/04/2012—स्था—II.—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति वेतन बैंड—3, 15600—39100 रुपये तथा ग्रेड वेतन 6600/— रुपये के वेतनमान में निम्नलिखित चार अधिकारियों की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से कार्यालय महानिदेशक नागर विमानन में सहायक निदेशक (विनियम एवं सूचना) के पद पर करते हैं:—

क्रम सं	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	से की गई नियुक्ति
---------	-------------------------------	-------------------

1.	सतीश चन्द्र त्रिपाठी	15.06.2015 (पूर्वाह्न)
2.	अमित तेवतिया	08.07.2015 (पूर्वाह्न)
3.	आनंद कुमार	09.11.2015 (पूर्वाह्न)
4.	दीपक यादव	07.12.2015 (पूर्वाह्न)

2. सहायक निदेशक (विनियम एवं सूचना) के पद पर नियुक्ति होने पर उपर्युक्त अधिकारी यथा उल्लिखित अपनी नियुक्ति की तारीख से एक (01) वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे।

पवन मालवीय  
उपनिदेशक प्रशासन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

सं. आरओसी दिल्ली/560(5)/पब्लि. एफटीई/11599—कंपनी अधिनियम की धारा, 1956 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है की निम्न कम्पनियों का नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियाँ विघटित काट दी गई हैं:—

क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
1	U66000DL2009PTC189543	स्मार्ट वे इन्शुरन्स कंसलटेंट एंड डायरेक्ट सेल्लिंग प्राइवेट लिमिटेड
2	U74140DL2011PTC212457	कई ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U74120DL2008PTC176221	बुल्लंद पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
4	U64203DL2009PTC196002	जीउस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
5	U85100DL2013PTC254844	केआरटीआई वी केयर प्राइवेट लिमिटेड
6	U74999DL2011PTC214227	अराइज़ पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
7	U65992HR2006PTC036345	दीपाप्रभा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	U70109DL2006PTC152064	अलायन्स इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
9	U41000DL2009PTC194337	प्रभजोत प्योर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U80301HR2011PTC042043	सीजी अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
11	U51494HR2008PTC038279	के जे टेक्सोफैब प्राइवेट लिमिटेड
12	U24233DL2007PTC165801	इंस्टेंट मेडिकोस प्राइवेट लिमिटेड
13	U18101DL2005PTC135798	श्वेता गारमेंट एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड
14	U74999DL2006PTC147307	सिनेस्पाइट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
15	U22100DL2011PTC216671	सनराइज़ बुक्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U51101DL2007PTC159102	पोपली एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U52300DL2009PTC189592	एक्को गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U74140HR2014PTC052709	कंटेंटवाइंड मार्केटिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U74899DL2001PTC112985	विएफएम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U17121DL2008PTC175000	सबीना क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड
21	U55101DL2006PTC147923	जिंग होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U73100DL2007PTC171103	केएनएस रिसर्च आर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड
23	U74899DL1994PTC061900	वाक-ओवर फिनांज़ एन. लीज प्राइवेट लिमिटेड
24	U74210DL2005PTC134827	इंटीग्रेटेड बायोपिक्सल प्राइवेट लिमिटेड
25	U74140DL2008PTC184031	एमएस डीन&डॉयल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
26	U29253DL2010PTC207067	आरएस क्रैन्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U40300DL2012PTC231687	ईनर्जी विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
28	U74899DL1993PTC051812	वेदांत स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U74140DL2012PTC245646	आर्कटूरस् स्ट्रेटेजिक टैलेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
30	U17219DL2007PTC169040	विवेकानंद टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U15122DL2007PTC162115	पिकादिली प्लाइट किचन फूड्स&बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
32	U93091DL2006PTC149683	स्पेड कमोडिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
33	U31900HR2014PTC052106	स्टार्क हार्ड कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U29253DL2013PTC261442	ओसीआरएस पावर रेंटल प्राइवेट लिमिटेड
35	U45400DL2013PTC252597	जीओस्टि इंफ्रा सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
36	U74899DL1990PTC041655	मलबेरी एस्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
37	U74899DL1988PTC033167	अनुकम्पा चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
38	U74140DL2008PTC178752	एक्सेल लीगल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
39	U74900DL2010PTC204554	इंटेलिजेंट एक्सपैंड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U93000HR2012PTC046711	इरा लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
41	U51909DL2007PTC158840	फायर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
42	U74899DL1995PLC068582	रक्षिता फिनवेस्ट एंड लीजिंग लिमिटेड
43	U74900DL2013PTC252378	ऑथेन्टीक कार्बन क्रेडिट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
44	U33112DL1998PTC093944	अल्ट्रा बायोरेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड
45	U18101DL2004PTC127611	डी पि डी अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
46	U74899DL1989PTC038045	कोटसी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
47	U45400DL2009PTC192287	बीजी बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
48	U92190DL2012PTC242056	रिकॉल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
49	U26941DL1982PTC014617	अक्रोमिक्स केमिकल्स एंड कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U51101DL2007PTC167918	डीआरजेडी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
51	U74900DL1989PTC034996	महारुद्र होल्डिंग्स प्राइवेट लि.
52	U51900DL2009PTC188457	जेवि एरफोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
53	U74899DL2001PTC112105	एसएम कोलोनाइज़र प्राइवेट लिमिटेड
54	U74900HR2009PTC038965	जैन्सपेर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
55	U74120DL2011PTC220979	बी. जे. डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड
56	U74899DL1992PTC050535	मिटब्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
57	U74140HR2002PTC034841	ऐआर हालस्यम् कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
58	U72200DL2010PTC208354	एपीसेंटर गैमुट आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
59	U72200DL2008PTC184130	इमर्जिंग आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
60	U18101DL2005PTC136140	किरन गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
61	U70101DL2005PTC136141	युकेपि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
62	U34300DL2005PTC136139	केबी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U18109DL2013PTC253129	सिंह एन्सेम्बल प्राइवेट लिमिटेड
64	U80302HR2011PTC043142	स्टडीक्राफ्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
65	U18204DL2007PTC165721	जी.एम. वीवर्स प्राइवेट लिमिटेड
66	U15122DL2007PTC168443	एल सोल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
67	U72200DL2008PTC174375	वर्जिनएवन्यूज सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
68	U93000DL2013PTC250942	केरी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
69	U72300DL2008PTC179742	एयरनक्स्ट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
70	U74999DL2011PTC216516	टेक्नो रॉक इंफ्रा&इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
71	U55209DL2008PTC175733	हिलमैन स्पा&रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
72	U72300DL2006PTC154106	बीएमआर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
73	U74999DL2010PTC205879	अमिंडस बिज सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
74	U74899DL1993PLC054687	डायमंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड
75	U18101DL2002PTC114733	गुरुकन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
76	U74950DL2012FTC241871	लिजेंडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
77	U85300DL2013PTC258707	केया हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
78	U74120DL2008PTC177000	ओम एक्वीमैक प्राइवेट लिमिटेड
79	U74899DL1995PTC070244	स्काईहाई प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
80	U65992HR2008PTC037629	डी.पी.एस. चिट फण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
81	U15311DL2014PTC263297	वरदान प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
82	U51909DL2009PTC190867	मर्क्यूरैक्स कनेक्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
83	U45500DL2007PLC171213	वीआरएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
84	U74140DL2011PTC218578	कन्वर्जेंस एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड
85	U80900HR2013PTC048399	नुट्रोनिक्स एडुकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
86	U67120DL2005PTC137075	ब्लैक डॉग सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड
87	U74999DL2011PTC227160	अष्टविनायक सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
88	U92490DL2014PTC267011	यूनिवर्सल टैलेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
89	U15200DL2007PTC161949	एस.जे.एस. एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
90	U45300DL2007PTC171783	अंजू इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
91	U13200DL2008PTC173898	ए वन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
92	U22100DL2013PTC248357	यु&आई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
93	U45204DL2011PTC224295	बैज इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
94	U74140DL2011PTC213959	क्वान्टस्क्राइब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
95	U26933DL2008PTC181948	आम्बिएन्स कटिंग्स एवेरफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड
96	U45200DL2011PTC224441	टेक बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड
97	U74140HR2008PTC038319	इजी मनी सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
98	U15400DL2010PTC205950	अल रैय्यान फ्रोजेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
99	U74910DL2011PTC218202	एविड ड्रीम्स देव प्राइवेट लिमिटेड
100	U72900DL2011PTC215944	एप्लाइड कल्चर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
101	U74994DL2006PTC146813	सीता डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
102	U01403DL2009PTC196909	लिटिल माउंटेन फार्म्स-ओर्चार्डस प्राइवेट लिमिटेड
103	U45204DL2011PTC224198	शानतह कोंस्टेक प्राइवेट लिमिटेड
104	U74999DL2011PTC223568	पयूचर इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
105	U74140HR2010PTC040006	आईपीबी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
106	U74120DL1996PTC080249	टैक्सेज एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर्स (ई) प्राइवेट लिमिटेड
107	U22219DL2013PTC260576	इंक्लूसिव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
108	U51909DL2007PTC160280	अन्हल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
109	U45208DL2012PTC240398	अलकनंदा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
110	U51900DL2012PTC239527	ड्रीम्ज बाय प्राइवेट लिमिटेड
111	U74950DL2014PTC263542	जीएसबी वर्ल्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
112	U74899DL1974PTC007149	इम्पेक्स केमिकल्स एंड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
113	U24119DL2003PTC123010	बाघपत ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
114	U15311DL2009PTC188596	अमिस फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
115	U92100HR2006PTC036206	एल्फस्टोन स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
116	U52590DL2012PTC235081	लजोम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
117	U65910DL1996PTC082940	डीएनए सिक्थोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
118	U74140DL2008PTC185915	एस एस डेब्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
119	U25202DL2005PTC135761	शिवम पाली पैक प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
120	U18109DL2006PTC151568	आर&आर अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
121	U74140DL2011PTC219401	एचएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
122	U45203DL2005PTC143070	रैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
123	U51909DL2001PTC112266	शालीमार ट्रडेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
124	U72900DL2011PTC229071	टीबीएच इंफोएज प्राइवेट लिमिटेड
125	U72900DL2012PTC232679	ग्रीनोलिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
126	U21022DL2005PTC133652	एयुवि पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
127	U99999DL1990PLC039355	टेक्निक ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड
128	U74899DL1991PTC043425	एफएनएस बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
129	U93000DL2010PTC201429	ग्लाइडन फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
130	U01111DL2013PTC253481	ग्रोवेल आर्गेनिक&एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
131	U70100DL2012PTC236778	फ्लोरल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
132	U74990DL2014PTC267387	फिटनेस कोसचेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
133	U51909DL2005PTC135250	नारव इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
134	U51909DL2005PTC135243	दीपराज एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
135	U70101DL2005PTC138061	समर टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
136	U74920DL1997PTC089910	थर्ड आई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
137	U45200DL2007PTC171384	सनराइज प्रोपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
138	U93010DL2007PTC162578	डेनिम क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
139	U72200HR2012PTC044857	वैल्यू आईटेक प्राइवेट लिमिटेड
140	U51909DL2008PTC184549	एचडीसीसी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
141	U93000DL2012PTC232473	वीडीएस डिजायनों क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
142	U74899DL1991PTC044027	श्रीबीर फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
143	U74900DL2011PTC225903	जैमिनी बिज़नेस एंड ट्रेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
144	U74999DL2011FTC223044	डॉगएमएंग इ&सी इंडिया इ&सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
145	U64202DL2005PTC131978	परवाना इंकॉर्पोरेट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
146	U72200DL2010PTC202614	सेवन इंडियट्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
147	U10100HR2013SGC048177	हरयाणा कोल् कंपनी लिमिटेड
148	U51909HR2012PTC046471	खटटर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
149	U45400DL2011PTC224145	राज निशा इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
150	U24233DL2008ULT184137	नोवियो पोलिचेम प्राइवेट लिमिटेड
151	U93091DL2006PTC148495	माइंड ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
152	U74900DL2012PTC238370	स्टैण्डर्ड इक्वेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
153	U51216DL1998PTC093702	मार्सको ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
154	U70100DL2009PTC190200	प्रीत इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
155	U27101DL2010PTC207236	सिटीजन आयरन प्राइवेट लिमिटेड
156	U41000DL2011PLC214943	कोबेलको इको-सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
157	U72200DL2005PTC133104	गुलमोहर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
158	U74899DL1994PTC063225	अवि एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
159	U18101DL2003PTC121842	सतपाल ओम प्रकाश हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड
160	U51500DL2006PTC155521	जय अम्बिका फ्रेंचाइजेस प्राइवेट लिमिटेड
161	U74140DL2014PTC264624	सिवाना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
162	U74140DL2014PTC272075	309 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
163	U74900DL2008PTC181688	तिवारी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
164	U80903DL2000PTC104479	ब्रह्मा अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
165	U92410DL2009PTC186345	रॉयल फुटबॉल अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
166	U18101DL2003PTC118420	न्यू डिजाइन्स फैशंस प्राइवेट लिमिटेड
167	U63022DL1996PTC075915	रोवानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
168	U74899DL1982PTC013375	कपब्रोस इंडिया प्रा लि
169	U74140DL2011PTC216083	मेगस स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
170	U74899DL1985PTC020866	मुंजाल अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
171	U74140DL2009PTC186959	अल्बार्टोस विक्टर बिज़नेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
172	U45204DL2012PTC244176	एचएसबीके इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
173	U65191DL2008PTC177038	फोर एस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
174	U92490DL2010PTC209961	हम एन ड्रम म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड
175	U63022DL1999FTC100603	बालक शक्ति कोल्ड स्टोरेज प्रा लि
176	U17290DL2010PTC209419	मेस्ट्रो कोट्यूर प्राइवेट लिमिटेड
177	U52100DL2014PTC273518	वॉल्यूम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
178	U55101DL2010PTC207527	लुकजुरिएट हॉस्पिटलिटीस एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
179	U51909DL2012PTC246339	पी4एमआर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
180	U74120DL2008PTC185743	आई आर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
181	U74899DL1995PTC067999	विज़ार्ड कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड
182	U93000DL2010PTC200456	रेडबुल्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड
183	U85110DL2000ULL108015	लिवर केयर फाउंडेशन
184	U01111DL2002PTC117832	अलाइड एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
185	U74999DL2013PTC249167	जेट मेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
186	U45400DL2007PTC171147	क्लिकमैजिक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
187	U72200DL2010PTC207017	पिलपबाइट्स इन्फोमेडिया प्राइवेट लिमिटेड
188	U74140HR2012PTC048008	गोल्डफिश फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
189	U45200DL2009PTC194497	अपैक्स अलायन्स इन्फ्रासोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड
190	U74899DL1995PTC067427	सेमसन क्वायर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
191	U30008DL1998PTC093949	एस्सेलटे ऑफिस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
192	U64200DL2010PTC199031	पाइन मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
193	U93090DL2012PTC242988	ओरिएंटेशन ओपनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
194	U74899DL2001PTC110032	श्री गिरिराज नाम प्लेट्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
195	U80903DL2013PTC259223	आरएसएम कोचिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
196	U74899DL1990PTC042227	दरबारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
197	U72900DL2007PTC166329	एस-जेड सॉफ्टपावर प्राइवेट लिमिटेड
198	U74140DL2002PTC115494	एनवीरो फ्रेंडली मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
199	U70109DL2012PTC234350	ग्लोबलहोरिज़ोन स्पेसबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
200	U51909DL2013PTC255055	एसएटीन फूड-बेवरीज प्राइवेट लिमिटेड
201	U80301DL2011PTC213345	श्रेष्ठ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
202	U51397DL2002PTC115939	बर्कडेल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
203	U74899DL2000PTC103899	श्री तुलसी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
204	U72300DL2014PTC268471	सी सर्किल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
205	U74999DL2009PTC192980	इंडियन आफ़सेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
206	U45400DL2013PLC250798	युगांतर इंफ्राटेक एंड एनर्जी लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
207	U31200DL2006PTC156680	लार्ड सेंट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
208	U52590DL2013PTC261475	जिंजर इ-सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
209	U63000DL2011PTC225223	हार्दिक ट्रेवल्स एंड हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड
210	U70101DL2012PTC234619	प्रियस इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
211	U51909DL2010PTC211921	क्रूजो ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
212	U67110DL1996PTC075562	माधव क्रेडिट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
213	U74999DL2007PTC161980	आयुषी मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
214	U51909DL2011PTC218407	त्रिरत्न फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
215	U25202DL2006PTC145789	नॉएडा प्रिंट-पैक प्राइवेट लिमिटेड
216	U74996DL2006PTC153426	निवेयस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
217	U80903DL2010PTC197610	ब्रेंटवुडस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
218	U74999DL2015PTC277331	आईडीप्रेन्योर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
219	U74120DL2009PTC186534	निरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
220	U74899DL1968PTC004857	हाईको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
221	U51909DL2006PTC153243	विटेल एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
222	U74140DL2011PTC219322	कास्केडइन्स प्राइवेट लिमिटेड
223	U55101DL2011PTC219337	नेहारा होम्स प्राइवेट लिमिटेड
224	U31500DL2008PTC183609	कार्मिक इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
225	U99999DL1992PTC049288	मैक्सीमैक्स एजुकेशनल एंड वोकेशनल अकादमीएस प्राइवेट लिमिटेड
226	U52390DL2012PTC230769	रंगी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड
227	U52399DL2010PTC198345	आरा क्राफ्ट्स&क्रिएशन्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
228	U74899DL1987PTC028793	मल्टी लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
229	U93000HR2013PTC048774	एफफोर्ट्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
230	U92193DL1999PTC102883	मनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
231	U51909DL1996PTC080566	पियररे सुमेर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
232	U93000DL2008PTC185756	हिल्फे कंसल्टेंसी&ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
233	U45202DL1998PTC095381	एवीएचके इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
234	U64200DL2010PTC209221	काइजेन एक्सप्रेस कूरियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
235	U40300HR2012PTC046276	बीएलपी प्रोजेक्ट (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
236	U70102DL2013PTC258156	सेमसन टाउन प्लानर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
237	U70102DL2013PTC257817	फिकल बिल्डटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
238	U72900DL2006PTC146066	आईडिया विकेट इन्नोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड
239	U40106DL2011PTC214613	बीएलपी सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
240	U67200DL2012PTC236774	कोपियस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड
241	U70102DL2013PTC258119	अल्डेन बिल्डटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
242	U73100DL2011PTC223016	ब्रैनपूल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
243	U70102DL2013PTC257687	प्लेसिड बुइलडेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
244	U70102DL2013PTC254802	एनालॉक्स एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
245	U64201DL2005PTC137744	आस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
246	U93000DL2012PTC244114	न्यू मोबाइल केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
247	U72200DL2005PTC141993	चेतन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
248	U74899DL1994PTC060419	यूनाइटेड एल्ट्रोकोम्स प्राइवेट लिमिटेड
249	U22219DL2008PTC172244	काइज़र प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
250	U55101DL2006PTC154920	एमजेआर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
251	U18109DL2012PTC241376	एबीएस अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
252	U74140DL2012PTC245252	टीम टॉयसंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
253	U72200DL2001PTC111657	टेक्ससोको टेक्नोलॉजीज प्रा लि
254	U28994DL2008PTC177566	एकेजी डक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
255	U74900DL2012PTC230985	सावरिया सेठ सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
256	U40101DL2008PTC185288	सोहम हाइड्रोपावर प्राइवेट लिमिटेड
257	U45200DL2007PTC169672	आर.एस.एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
258	U80903DL2012PTC244088	आदर्श एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
259	U51900DL2009PTC191775	ए. के. गर्ग शुगर ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
260	U74140DL2005PTC140438	कनराज टेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
261	U74899DL1995PTC073772	बसगितराम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
262	U74140DL2010PTC205161	गेनवेल लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
263	U74899DL1995PLC065361	ए एस एल ग्राफिक्स लिमिटेड
264	U15411DL2012PTC239672	अल फोरनो पिज़्ज़ा प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
265	U27106DL1983PLC016179	बलराम स्टील उद्योग लिमिटेड
266	U74140DL2006PTC144424	मैग्नेम मेडिको लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
267	U63030DL2015PTC277283	लोकल ऑनलाइन ट्रेवल फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
268	U74899DL1993PLC056100	जगतजीत स्पिरिट्स एंड वाइन लिमिटेड
269	U74899DL1982PTC013754	वेपर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
270	U74899DL1995PTC065355	कमेलिओन डायर प्राइवेट लिमिटेड
271	U70200DL2008PTC175285	काल ब्रो डेवलपर्स-इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
272	U45200DL2007PTC171293	मेवात इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
273	U52390DL2009PTC189067	ओएसपीएस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
274	U70200DL2013PLC256443	संस्कृति इन्फ्राकॉर्प लिमिटेड
275	U74140HR2012PTC045125	एसएनपी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
276	U74140DL2013PTC248695	कामरेड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
277	U25202DL2001PTC110414	ए.के. नेमप्लेट्स प्रा. लि.
278	U70101DL2012PTC238012	पनम रियलिटी-इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
279	U51909DL2006PTC154956	इमान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
280	U80904DL2012PTC243271	प्राइम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड
281	U27310DL2008PTC175953	वेद साई एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
282	U72900HR2013PTC050373	वीआरएलआई टेक प्राइवेट लिमिटेड
283	U74140DL2007PTC169279	कार्मिक एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
284	U45400DL2007PTC165284	सुखशांति प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
285	U40109DL2007PLC162077	स्कोपिक पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
286	U51909DL1984PLC018984	शकुन ओवरसीज लिमिटेड
287	U74999DL2007PTC159670	श्री कृष्णा होम फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड
288	U32109DL1997PTC087876	भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
289	U70200DL2013PTC262586	आधारशिला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
290	U45201DL2005PTC137650	क्रॉस कंट्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
291	U24100DL2009PTC187403	मरयम फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड
292	U45204DL2010PTC210918	आरआर रियल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
293	U74999DL2010PTC203029	पीडी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
294	U51909HR2007PTC037412	गुरसिमर मार्केटिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
295	U72900DL2012PTC237762	फेदेर कंप्यूटिंग लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
296	U72220DL2000PTC107010	नॉलेजक्रॉप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
297	U17200DL2012PTC230259	जैसुमि टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
298	U18101DL1983PTC016762	बैनिश टेक्सटाइल एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
299	U18101DL2005PTC133551	एच के हैण्डलूमस प्राइवेट लिमिटेड
300	U25199HR1987PTC028993	सरस्वती रबर वर्क्स प्रा. लि.
301	U72900HR2011PTC043451	एथोसवे इ सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
302	U80900DL2009PTC189248	ईश इंस्टिट्यूट ऑफ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
303	U72900DL2004PTC124703	सिक्स सिग्मा आउटसोर्सिंग प्रैक्टिसेज प्राइवेट लिमिटेड
304	U74120DL2013PTC260697	फ्यूल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
305	U22212DL2004PTC127628	मैटिन्स प्रिंट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
306	U74910DL1986PTC023273	एफएनएस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
307	U22300DL2011PTC223173	सास ब्रेकिंग न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड
308	U74999DL2005PTC135126	सनमून पेपर कन्वर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
309	U74999DL2012PTC239971	अनिका मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
310	U45400HR2012PTC047292	जीएफडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
311	U26100DL2007PTC168680	बीआरएस गिलास कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
312	U16009DL2007PTC163922	महर्षि एरोमेटिक्स टोबैको प्राइवेट लिमिटेड
313	U40300DL2007PTC159878	एक्शन पावरहाउस प्राइवेट लिमिटेड
314	U80904HR2012PTC046830	इलाजच टीचिंग एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
315	U70109DL2006PTC155479	अंकित इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
316	U17291DL2010PTC208254	अमानत क्रिएटिव लिविंग प्राइवेट लिमिटेड
317	U70102DL2013PTC262141	नारायणी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
318	U74900DL2012PTC230327	पी फोर कंसल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
319	U80302DL2011PTC222963	सीएल हायर एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
320	U52190DL2011PTC225635	मेक्सपर्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
321	U22100DL2009PTC190800	ओर्गानो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
322	U70102DL2008PTC180088	एसजीआई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
323	U70102DL2013PTC262031	अव्युक्त देवकोन प्राइवेट लिमिटेड
324	U74120DL2008PTC186096	स्विफ्ट इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
325	U24239HR2004PTC035376	डू टेक रेमेडीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
326	U52399DL2012PTC236884	अमोदा इ-कॉमर्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
327	U15132DL2010PTC207789	बेत्तिअह इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
328	U45400DL2009PTC189730	इंटरमॉडल बिल्डिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
329	U24232DL2009PTC193721	कॉन्कर रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
330	U52100DL2013PTC260078	शोप्रेक्सो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
331	U74140DL2010PTC207275	एम.पी. प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
332	U27200DL2009PTC190057	एवीएस बाचिक स्टोन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
333	U72300DL2007PTC168607	मोबियो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
334	U80900DL2008PTC174497	सीआईई कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट & टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
335	U74140DL2008PTC174913	एसजीआई कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
336	U65923DL1996PTC082227	अदतिया फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
337	U70200HR2012PTC046468	अड्रॉइट डीएसजीएन-बीएलडी प्राइवेट लिमिटेड
338	U72200HR2011PTC042788	एनएक्सजीएक्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
339	U18204HR2007PTC037119	एचबीएम अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
340	U34100DL2009PTC187011	बिड ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड
341	U92100DL2009PTC187024	रे एंटरटैनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
342	U40107DL2010PTC198560	मेट्रो वैली पावर प्राइवेट लिमिटेड
343	U17234DL1996PTC079020	फ्रीडम फोम्स प्राइवेट लिमिटेड
344	U74140DL2014PTC267054	ए आर पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड
345	U51420DL2013PTC258009	आर संस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
346	U70102DL2012PTC238998	ऋग्वेद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
347	U11100DL2012PTC235875	इम्प्रेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
348	U51229DL2003PTC123697	जे एम सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
349	U74140DL2013PTC261776	एलेक्ट्रोस्टीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
350	U51909DL2011PTC226851	होराइजन मेडिट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
351	U74899DL1994PTC063211	शार्क लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
352	U65100DL2012PTC234523	मारवाह फाइनेंसियल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
353	U24239DL2002PTC116588	अनि वेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
354	U15122DL2011PTC214999	तुलिप सीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
355	U51900DL2009PTC190156	वेक्स & एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
356	U45400DL2007PTC167440	केडीआई डेवलपर्स&इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
357	U51909DL2005PTC135228	केपीएम पेपर कन्वर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
358	U17299DL2009PTC192335	पानाचे गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
359	U74899DL1991PTC046663	टेम्प्रेचर कंट्रोल इंजीनियर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
360	U63000HR2011PTC043899	ओम कैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
361	U45200DL2006PTC155476	अंकित सिटी प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड
362	U70109DL2006PTC155480	अंकित इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
363	U40101DL2006PTC154872	अंकित पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड
364	U18109DL2006PTC154874	अंकित टेक्सफ़ाब प्राइवेट लिमिटेड
365	U14220DL2007PTC165599	एमजी कोल् माइंस प्राइवेट लिमिटेड
366	U45200DL2006PTC155477	अंकित टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड
367	U18109DL2009PTC197373	एम्पेक्स फैशंस प्राइवेट लिमिटेड
368	U74899DL1989PTC038713	नन्दय एस्टेट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
369	U72900DL2013PLC248786	टेक स्मेल्टर लिमिटेड
370	U72200DL2011PTC214312	स्टिच टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
371	U19122DL2012PTC232227	कैप फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
372	U31300DL1985PTC021395	टॉपकॉन पावर केबल्स प्राइवेट लि.
373	U74900HR2011PTC043595	फूड मंडी वेब प्राइवेट लिमिटेड
374	U74120HR1999PTC034383	सिगुप्ता कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
375	U51909DL2010PTC200447	श्याम अवतार मर्चन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
376	U63040DL2004PTC125753	बेल्ला इंडिया टूरिज्म एंड ट्रेडलिंगर्स प्राइवेट लिमिटेड
377	U67120DL1997PTC089167	सीमेरन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
378	U01400HR2010PTC041363	इंडियन लाइवस्टॉक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
379	U18101DL2008PTC179336	शीलसागर गारमेंट एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड
380	U74999HR2000PTC034455	शरावत कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
381	U45200DL2008PTC180804	डैनीकोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
382	U74140DL2010PTC198326	आनंद बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
383	U74999HR2014PTC052377	बुलवर्क सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
384	U70101DL1986PTC025788	पुष्पा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
385	U45203DL1983PTC015581	स्पीड फ्लो कॉन्टिनेंटल प्राइवेट लिमिटेड
386	U72300HR2014PTC052330	क्वेसटीनो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
387	U63040DL2009PTC188613	केटी लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
388	U72200DL2008PTC172157	राइजिंग इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
389	U63020DL2012PTC233691	दीपभूमि कूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
390	U51397DL2010PTC202672	सेकैंट हॉस्पिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
391	U24240DL2014PTC266086	दोआब एमेनिटीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
392	U74140DL2013PTC254672	बाबा दूधनाथ कम्युनिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
393	U74140DL2013PTC254665	बीडीसीएस ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड
394	U15139DL2009PTC189077	बी.आर.डी. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
395	U51909DL2011PTC220111	इन्नोवेटिवेयर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
396	U74140DL2008PTC177102	रियल टेक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड
397	U80302DL2010PTC197647	ब्रेंटवुड्स स्कूलज प्राइवेट लिमिटेड
398	U15512DL2013PTC262544	ब्रांड इम्पेरियम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
399	U74999DL2009PTC190629	मोजो91 क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
400	U31909DL2003PTC121007	ऐ.के.जी. इलेक्ट्रिक एंड स्विचगियर्स प्राइवेट लिमिटेड
401	U29253DL2009PTC191990	जय लक्ष्मी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
402	U01403DL2013PTC258196	बर्नार्ड अग्रि प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
403	U18109DL2009PTC191367	कात्यायनी बेबीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
404	U74999HR2009PTC039283	पी.आर.जी.. इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
405	U74899DL1994PTC058234	किस्तुरसंस बुडलाम प्राइवेट लिमिटेड
406	U01111DL1999PTC101052	रणधीर एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
407	U24100DL2010PTC207084	अरोरा पोलीकोल प्राइवेट लिमिटेड
408	U15419DL2006PTC156897	काकाजी नमकीनवाला प्राइवेट लिमिटेड
409	U65929DL1996PTC078904	के.के. करगोमेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
410	U27106DL2011PTC218439	कूप फ्यूचर मार्केटिंग एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
411	U64200DL2007PTC166907	शिर्डी श्री साईं टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
412	U63010DL2008PTC184301	मेटकोन लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
413	U74140DL2002PTC115795	कॉर्पोरेट एज रिसोर्सज प्राइवेट लिमिटेड
414	U74899DL1994PTC061041	कमकोन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
415	U74996DL2006PTC150644	देव वर्षा बायो —डीजल एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड
416	U63000DL2010PTC208974	स्मिर्ती लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
417	U45200DL2011PTC218891	आईएसटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
418	U29256DL2003PTC121636	फाइन हैंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
419	U55101HR2014PTC053588	नूर महल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
420	U80300DL2008PTC183389	रीबर्थ मोटिवेशनल अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
421	U45200DL2008PTC183549	पारस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
422	U29268DL2009PTC186845	नेक्सस टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
423	U15410HR2011PTC043381	नीरो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
424	U74899DL1982PTC013722	लइलाक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
425	U51109DL2010PTC210549	मोनू भाई चूड़ी वाला प्राइवेट लिमिटेड
426	U60200DL2010PTC211504	स्टार बस लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
427	U45400DL2012PTC239618	क्यूबाटिक होम्स प्राइवेट लिमिटेड
428	U21020DL2011PTC221001	पॉवरस्टिक लेबल्स प्राइवेट लिमिटेड
429	U24231DL2006PTC144405	सिंघल बायोटेक एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
430	U80904DL2014PTC263739	मूक्स मेंटर प्राइवेट लिमिटेड
431	U80900DL2014PTC263788	ब्रेंटवुड्स टूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
432	U80904DL2014PTC263736	मूक्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
433	U72300DL2007PTC167351	इप्रो वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
434	U74899DL1982PTC013721	मेज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
435	U72100DL2014PTC266092	एबीडी बिज़नेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
436	U24233DL1999PTC100824	वैदिक क्लिनिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
437	U63090DL2009PTC193483	एसजीई लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
438	U15532DL2011PTC212435	कोर्स ब्रेवरी प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	सीआईएन	कंपनी नाम
439	U65921DL1992PTC049554	सस्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
440	U72900DL2012PTC245229	डी वन डिजिटल इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड
441	U45400DL2007PTC162745	यजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
442	U72300DL2010PTC199685	केकेके फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
443	U52590DL2012PTC236173	प्रोकेयर फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड

देबाशीष बंदोपाध्याय  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

ग्वालियर—474009, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

सं. आरओसी—जी/यूएस 560/2015/3781—कंपनी अधिनियम की धारा, 1956 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है की निम्न कम्पनियों का नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियां विघटित काट दी गई हैं :—

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
1	U02423MP2005PTC018078	जेपीजी लाईफ केयर प्रायवेट लिमिटेड
2	U52590MP2011PTC025951	रेवाश्री नेटवर्क मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
3	U55101MP2010PTC024889	भवानी हॉस्पिटलिटी एजुकेशन एन्ड रिसर्च प्रायवेट लिमिटेड
4	U52599MP2013PTC029847	जुबली ट्रेएग्जिम प्रायवेट लिमिटेड
5	U33112MP2005PTC017789	बायो स्पेक्ट्रा फोरमुलेशनस प्रायवेट लिमिटेड
6	U28910MP1980PTC001705	लक्ष्मी मेटल पावडर कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
7	U01403MP2009PTC021823	अर्थवा ग्रीन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
8	U74999MP2014PTC032965	सगनकयंत्र विवरधन टेक्नोलॉजी प्रायवेट लिमिटेड
9	U45202MP2006PTC019156	बुन्देला बन्धु कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
10	U93090MP2014PTC033084	आदिनाथ मेटरमनी प्रायवेट लिमिटेड
11	U28910MP2014PTC032204	आदिनाथ ट्रेएग्जिम एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड
12	U65921MP1995PLC009228	माता पार्वती लीजिंग एन्ड फायनेन्स लिमिटेड
13	U45201MP2008PTC020886	श्रेयस इन्फ्राटेक प्रायवेट लिमिटेड
14	U70101MP2011PTC027099	एसके (एक्रूड) हाउसिंग प्रोजेक्टस प्रायवेट लिमिटेड
15	U45303MP2014PTC032975	सक्सेना इंजीटेक सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
16	U45200MP2011PTC026677	जॉय बिल्डटेक सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड



क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
17	U72200MP2013PTC031110	प्रीवाइडिंग आई टी सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड
18	U34300MP2001PLC014901	अकाल प्रीसीजन कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड
19	U70101MP2010PTC024154	पोरवाल रियल एस्टेट प्रायवेट लिमिटेड
20	U55101MP1999PTC013531	डिंग डोग होटल्स प्रायवेट लिमिटेड
21	U80904MP2014PTC032075	ड्रीमचेसिंग एडुकेयर प्रायवेट लिमिटेड
22	U74120MP2014PTC032067	रोहितास हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड
23	U70101MP2013PTC030116	मग देवकॉन प्रायवेट लिमिटेड
24	U85110MP2010PTC023688	बीएसएल हॉस्पिटल्स प्रायवेट लिमिटेड
25	U80302MP2011PTC026527	आरएसडी एजुकेयर कॉन्सेप्ट मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
26	U24100MP2008PTC021141	नवकार आर्गनिक्स प्रायवेट लिमिटेड
27	U45201MP2009PTC022614	अम्बिका श्री कन्सल्टेशन्स एन्ड सप्लायर्स प्रायवेट लिमिटेड
28	U60231MP2009PTC022651	श्री मां शारदा अम्बिका कैरियर सर्विस प्रायवेट लिमिटेड
29	U72200MP2010PTC024339	कैरान इन्फोटेक प्रायवेट लिमिटेड
30	U72100MP2012PTC029093	निजारत मोबाईल मीडिया प्रायवेट लिमिटेड

हरिहर साहू  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

सं. क.र./प०.ब०./एफटीई/560/2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 34 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :—

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
1	U65923WB2012PLC177907	एमएलए फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	U52190WB2012PTC175420	कोटिस्तन डीलट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
3	U51909WB2009PTC139315	धारा विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
4	U51909WB2009PTC139284	बसेरा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U24233WB2009PTC138554	स्टार बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
6	U45200WB2012PTC177839	एमएलए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
7	U51909WB2011PTC170756	रेडिसन एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
8	U51909WB2011PTC170755	केएस ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड



क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
9	U51909WB2011PTC170754	फास्टवेल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
10	U72200WB2012PTC181091	टेककेयर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
11	U72300WB2012PTC186870	विज्यूलार्इजेसन आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U15419WB1999PTC090330	अरोमेटिक कॉन्फेक्सनरी प्राइवेट लिमिटेड
13	U74140WB2010PTC150437	सुविधा माईक्रासर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
14	U01400WB2009PTC138515	रीगल एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
15	U70102WB2012PTC172476	इनेश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U45400WB2007PTC114750	सम्पूर्ण प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
17	U45400WB2007PTC114771	वसन्त विहार बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
18	U51109WB1995PTC069542	समर्थ ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U74140WB2011PTC170294	प्रीफर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U45400WB2011PTC170296	सुल्तानिया कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
21	U01400WB2009PTC138494	ऋषिकेश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड
22	U40101WB2011PLC159894	अथा पावर लिमिटेड
23	U27109WB1996PTC081990	नेचर क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U72200WB2012PTC175297	मेगापिक्स कॉम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
25	U52190WB2012PTC177195	नील सिमाना कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
26	U51909WB2012PTC175301	ओवरश्योर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
27	U52190WB2012PTC177216	प्रियाकृत बर्टर प्राइवेट लिमिटेड
28	U51909WB2011PTC167163	रीथम एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
29	U51909WB2012PTC175306	सर्वलोक विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
30	U51909WB2012PTC173798	व्यूमोर टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड
31	U74140WB1996PTC077791	इन्साइट टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
32	U70109WB2012PTC173796	टॉपपलो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U51909WB2012PTC175298	न्यूएवर सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U72200WB2012PTC180637	ब्रेनकेयर इन्फोजेन प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधरी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल



## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 14th December 2015

No F.20/2015-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Ravindra Maithani, an Officer of Uttarakhand Higher Judicial Service and District & Sessions Judge, Almora as Secretary General, Supreme Court of India, on deputation basis, with effect from the afternoon of 11th December, 2015, until further orders.

M. V. RAMESH  
Registrar (Admn-I)

No. F.20/2015-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to repatriate Shri V-S-R Avadhani, an Officer belonging to Judicial Service of High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana and Andhra Pradesh, who is on deputation to this Registry as Secretary General, to his parent cadre with effect from the afternoon of 11th December, 2015 and is accordingly, relieved of his duties in this Registry with effect from afternoon of 11th December, 2015.

M. V. RAMESH  
Registrar (Admn-I)

The 16th December 2015

No. F.20/2015-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint (i) Dr. K. Arul, District Judge from Puducherry Judicial Service and (ii) Shri Pawan Dev Kotwal, an Officer of Jammu and Kashmir Higher Judicial Service as Registrars, Supreme Court of India on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the forenoon of 14th December, 2015.

M. V. RAMESH  
Registrar (Admn-I)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 2nd January, 2016

## RULES

No. B/59501/137/Rtg.NDA Entry/2805/D(AG)—The rules for a Competitive Examination National Defence Academy & Naval Academy Examination (I), 2016 to be held by Union Public Service Commission on 17th April, 2016, for admission to the Army, Navy and Air Force wings of the NDA for the 137th Course, and for the 99th Indian Naval Academy Course (INAC) commencing from 2nd January, 2017 are published.

The candidates Joining Indian Naval Academy would undergo 4 years B. Tech Course and would be given an opportunity to join Executive and Technical Branches of the Navy subject to availability of vacancies.

The date of holding the examination as mentioned above is liable to be changed at the discretion of the Commission.

The approximate number of vacancies to be filled on the results of this examination will be as under :—

National Defence Academy	:	320 (208 for Army, 42 for Navy and 70 for Air Force)
Naval Academy (10+2 Cadet Entry Scheme)	:	55
Total	:	375

Vacancies are provisional and may be changed depending on the availability of training capacity of National Defence Academy and Indian Naval Academy.

N.B. (i) A candidate is required to specify clearly in the Online Application Form the Services for which he wishes to be considered in the order of his preference [1 to 4]. He is also advised to indicate as many preferences as he wishes to opt so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointments.

(ii) Candidates should note that they will be considered for appointment to those services only for which they express their preferences and for no other service(s). No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

(iii) Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination.



## 2. CENTRES OF EXAMINATION:

The Examination will be held at the following Centres :

Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Allahabad, Bengaluru, Bareilly, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Cuttack, Dehradun, Delhi, Dharwad, Dispur, Gangtok, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mumbai, Nagpur, Panaji (Goa), Patna, Port Blair, Raipur, Ranchi, Sambalpur, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram, Tirupati, Udaipur and Vishakhapatnam.

Applicants should note that there will be a ceiling on the number of candidates allotted to each of the centres except Chennai, Dispur, Kolkata and Nagpur. Allotment of Centres will be on the first-apply-first-allot basis and once the capacity of a particular centre is attained, the same will be frozen. Applicants, who cannot get a centre of their choice due to ceiling, will be required to choose a Centre from the remaining ones. Applicants are, thus, advised that they may apply early so that they could get a Centre of their choice.

N.B. : Notwithstanding the aforesaid provision, Commission reserve the right to change the Centres at their discretion if the situation demands.

Candidates admitted to the examination will be informed of the time table and place or places of examination. Candidates should note that no request for change of centre will be granted.

## 3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY :

(a) Nationality : A candidate must either be :

- (i) a citizen of India, or
- (ii) a subject of Bhutan, or
- (iii) a subject of Nepal, or
- (iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status :

Only unmarried male candidates born not earlier than 02nd July, 1997 and not later than 1st July, 2000 are eligible.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificates. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted. The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

NOTE 1 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate available or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2 : Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at any subsequent examination on any ground whatsoever.

NOTE 3 : The candidates should exercise due care while entering their date of birth in the respective column of the Online Application Form for the Examination. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent Examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

NOTE 4 : Candidates must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application though successful at this or any subsequent Examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

(c) Educational Qualifications :

(i) For Army Wing of National Defence Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination conducted by a State Education Board or a University.

(ii) For Air Force and Naval Wings of National Defence Academy and for the 10+2 Cadet Entry Scheme at the Indian Naval Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent with Physics and Mathematics conducted by a State Education Board or a University.



Candidates who are appearing in the 12th Class under the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination can also apply for this examination.

Such candidates who qualify the SSB interview but could not produce Matriculation/10+2 or equivalent certificate in original at the time of SSB interview should forward duly self attested Photocopies to 'Directorate General of Recruiting, Army HQ, West Block.III, R.K. Puram, New Delhi-110066' and for Naval Academy candidates to 'Naval Headquarters, DMPR, OI&R Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhavan, New Delhi-110011' by 22nd December, 2016 failing which their candidature will be cancelled. All other candidates who have produced their Matriculation and 10+2 pass or equivalent certificates in original at the time of attending the SSB interview and have got the same verified by the SSB authorities are not required to submit the same to Army HQ or Naval HQ as the case may be. Certificates in original issued by the Principals of the Institutions are also acceptable in cases where Boards/Universities have not yet issued certificates. Certified true copies/photostate copies of such certificates will not be accepted.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE 1 : Candidates appearing in the 11th class exam are not eligible for this examination.

NOTE 2 : Those candidates who have yet to qualify in the 12th class or equivalent examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the 12th class or equivalent examination by the prescribed date (i.e. 22nd December, 2016) and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of Board/University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

NOTE 3 : Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of Commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE 4 : Those candidates who have failed INSB/PABT earlier are not eligible for Air Force.

(d) Physical Standards :

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2016 as per guidelines given in Appendix-II.

(e) A candidate who has resigned or withdrawn on disciplinary grounds from any of the training academies of Armed Forces is not eligible to apply.

#### 4. FEE

Candidates (excepting SC/ST candidates/Sons of JCOs/NCOs/ORs specified in Note 2 below who are exempted from payment of fee) are required to pay a fee of Rs. 100/- (Rupees one hundred only) either by depositing the money in any Branch of SBI by cash, or by using net banking facility of State Bank of India/State Bank of Bikaner & Jaipur/State Bank of Hyderabad/State Bank of Mysore/State Bank of Patiala/State Bank of Travancore or by using Visa/Master Credit/Debit Card.

N.B. 1 : Applicants who opt for "Pay by Cash" mode, should print the system generated Pay-in-slip during Part-II registration and deposit the fee at the counter of SBI Branch on the next working day only. "Pay by Cash" mode option will be deactivated at 23.59 hours of 28.01.2016 i.e. one day before the closing date; however, applicants who have generated their Pay-in-slip before it is de-activated may pay at the counter of SBI Branch during banking hours on the closing date. Such applicants who are unable to pay by cash on the closing date i.e. during banking hours at SBI Branch, for reason whatsoever, even if holding a valid Pay-in-Slip, will have no other offline option but to opt for online Debit/Credit Card or Internet Banking Payment mode on the closing date i.e. till 23-59 hours of 29.01.2016.

N.B. 2 : Candidates should note that payment of examination fee can be made only through the modes prescribed above. Payment of fee through any other mode is neither valid nor acceptable. Applications submitted without the prescribed fee/mode (unless remission of fee is claimed) shall be summarily rejected.

N.B. 3 : Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

N.B. 4 : For the applicants in whose case payments details have not been received from the bank, they will be treated as fictitious payment cases and their applications will be rejected in the first instance. A list of all such applicants shall be made available on the Commission's website within two weeks after the last day of submission of online application. The applicants shall be required to submit the proof of their fee payment within 10 days from the date of such communication either by hand or by speed post to the Commission. On receipt of documentary proof, genuine fee payment cases will be considered and their applications will be revived, if they are otherwise eligible.

NOTE-1 : Candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and those specified in Note 2 below are not required to pay any fee. No fee exemption is, however, available to OBC candidates and they are required to pay the full prescribed fee.

NOTE-2 : The sons of serving/ex-Junior Commissioned Officers/Non-Commissioned Officers/Other Ranks of Army and equivalent ranks in the Indian Navy/Indian Air Force are also not required to pay the prescribed fee if they are studying in Military School (formerly known as King George's School)/Sainik School run by Sainik Schools Society.



[N.B. : A certificate of eligibility for fee exemption is required to be obtained by all such candidates from the Principals concerned individually and produced for verification at the time of SSB Test/Interview by the candidates who are declared qualified for the SSB Test/Interview.]

**5. HOW TO APPLY:**

Candidates are required to apply Online by using the website [www.upsconline.nic.in](http://www.upsconline.nic.in) Detailed instructions for filling up online applications are available on the above-mentioned website.

NOTE-1 : The applicants are advised to submit only single application; however if due to any unavoidable situation, if he submits another/multiple applications, then he must ensure that application with the higher RID is complete in all respects like applicants' details, examination centre, photograph, signature, fee etc. The applicants who are submitting multiple applications should note that only the applications with higher RID (Registration ID) shall be entertained by the Commission and fee paid against one RID shall not be adjusted against any other RID.

NOTE-2 : All candidates whether already in Government Service including candidates serving in the Armed Forces, Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy, Cadets of Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School, Dehradun), Students of Military Schools (formerly known as King George's Schools) and Sainik Schools run by Sainik Schools Society, Government owned industrial undertakings or other similar organizations or in private employment should apply online direct to the Commission.

N.B. (a) Persons already in Government Service, whether in permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises; (b) Candidates serving in the Armed Forces, Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy; and (c) Cadets of Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School, Dehra Dun), Students of Military Schools formerly known as King George's Schools and Sainik Schools run by Sainik Schools Society are required to inform their Head of Office/Department, Commanding Officer, Principals of College/School concerned, as the case may be, in writing that they have applied for this examination.

Candidates should note that in case a communication is received by the Commission from their employer/authority concerned withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidatures will be liable to be cancelled.

NOTE-3 : WHILE FILLING IN THE APPLICATION FORM, THE CANDIDATE SHOULD CAREFULLY DECIDE ABOUT HIS CHOICE FOR THE CENTRE FOR THE EXAMINATION.

IF ANY CANDIDATE APPEARS AT A CENTRE OTHER THAN THE ONE INDICATED BY THE COMMISSION IN HIS E-ADMISSION CERTIFICATE, THE PAPERS OF SUCH A CANDIDATE WILL NOT BE VALUED AND HIS CANDIDATURE WILL BE LIABLE TO CANCELLATION.

NOTE-4 : APPLICATIONS WITHOUT THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED AS IN PARA 4 ABOVE) OR INCOMPLETE APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED. NO REPRESENTATION OR CORRESPONDENCE REGARDING SUCH REJECTION SHALL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. CANDIDATES ARE NOT REQUIRED TO SUBMIT ALONGWITH THEIR APPLICATIONS ANY CERTIFICATE IN SUPPORT OF THEIR CLAIMS REGARDING AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS, SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES/OTHER BACKWARD CLASSES AND FEE REMISSION ETC. THEY SHOULD THEREFORE, ENSURE THAT THEY FULFIL ALL THE ELIGIBILITY CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION. THEIR ADMISSION TO THE EXAMINATION WILL ALSO THEREFORE BE PURELY PROVISIONAL. IF ON VERIFICATION AT ANY LATER DATE IT IS FOUND THAT THEY DO NOT FULFIL ALL ELIGIBILITY CONDITIONS, THEIR CANDIDATURE WILL BE CANCELLED. THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION IS LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF JULY, 2016.

NOTE 5: CANDIDATES WHO HAVE PASSED WRITTEN TEST ARE NOT REQUIRED TO SUBMIT THEIR ORIGINAL CERTIFICATE OF AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION EITHER TO DIRECTORATE GENERAL OF RECRUITING, ARMY HQ, WEST BLOCK-III, RK PURAM, NEW DELHI-110066 OR TO NAVAL HEADQUARTERS, DMPR, OI&R SECTION, 'C' WING, SENA BHAWAN, NEW DELHI-110011.

ALL CANDIDATES CALLED FOR INTERVIEW MUST CARRY THEIR ORIGINAL MATRICULATION CERTIFICATE OR EQUIVALENT EXAMINATION CERTIFICATE TO THE SERVICES SELECTION BOARD (SSB). ORIGINALS WILL HAVE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATES WHO QUALIFY AT THE SSB INTERVIEW SOON AFTER THE INTERVIEW. THE ORIGINALS WILL BE RETURNED AFTER VERIFICATION. THOSE CANDIDATES WHO HAVE ALREADY PASSED 10+2 EXAMINATION MUST CARRY THEIR ORIGINAL 10+2 PASS CERTIFICATE OR MARKS SHEET FOR THE SSB INTERVIEW. IF ANY OF THEIR CLAIMS IS FOUND TO BE INCORRECT THEY MAY RENDER THEMSELVES LIABLE TO DISCIPLINARY ACTION BY THE COMMISSION IN TERMS OF THE FOLLOWING PROVISIONS :

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or



- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during the examination, or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) harassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or
- (xi) being in possession of or using mobile phone, pager bluetooth or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination, or
- (xii) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xiii) attempting to commit or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable
  - (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate and/or
  - (b) to be debarred either permanently or for a specified period
    - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
    - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
  - (c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

#### 6. LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS :

The Online Applications can be filled upto 29th January, 2016 till 11.59 PM after which the link will be disabled.

#### 7. TRAVELLING ALLOWANCE:

Candidates appearing for SSB interview for the first time for a particular type of Commission i.e. Permanent or Short Service, shall be entitled for AC III Tier to and fro railway fare or bus fare including reservation cum sleeper charges within the Indian limits. Candidates who apply again for the same type of Commission will not be entitled to travelling allowance on any subsequent occasion.

#### 8. CORRESPONDENCE WITH THE COMMISSION/ ARMY/NAVAL/AIR HEADQUARTERS:

The Commission will not enter into any correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases :

- (i) The eligible candidates shall be issued an e-Admit Card three weeks before the commencement of the examination. The e-Admit Card will be made available in the UPSC website [www.upsc.gov.in] for being downloaded by candidates. No Admit Card will be sent by post. For downloading the e-Admit Card the candidate must have his vital parameters like RID & Date of Birth or Roll No. (if received) & date of birth or name, father's name & Date of Birth available with him.
- (ii) If a candidate does not receive his e-Admit Card or any other communication regarding his candidature for the examination one week before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission. Information in this regard can also be obtained from the Facilitation Counter located in the Commission's Office either in person or over Phone Nos. 011-23385271/011-23381125/011-23098543. In case no communication is received in the Commission's Office from the candidate regarding non-receipt of his e-Admit Card at least one week before the examination, he himself will be solely responsible for non-receipt of his e-Admit Card.
- (iii) No candidate will ordinarily be allowed to take the examination unless he holds a certificate of admission for the examination. On receipt of e-Admit Card, check it carefully and bring discrepancies/errors, if any, to the notice of the UPSC immediately. The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the Application Form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions.



(iv) If a candidate receives an e-Admit Card in respect of some other candidate on account of processing error, it should be notified to the Commission with a request to issue the correct e-Admit Card. Candidates may note that they will not be allowed to take the examination on the strength of an e-Admit Card issued in respect of another candidate.

(v) The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final.

(vi) Candidates should note that the name in the e-Admit Card in some cases, may be abbreviated due to technical reasons.

(vii) Candidates must ensure that their e.mail Ids given in their online applications are valid and active.

**IMPORTANT :** All Communications to the Commission should invariably contain the following particulars.

1. Name and year of the examination.
2. Registration ID (RID).
3. Roll Number (if received).
4. Name of candidate (in full and in block letters).
5. Postal Address as given in the application.

N.B. (i) : Communications not containing the above particulars may not be attended to.

N.B. (ii) : If a letter/communication is received from a candidate after an examination has been held and it does not give his full name and roll number, it will be ignored and no action will be taken thereon. Candidates recommended by the Commission for interview by the Services Selection Board who have changed their addresses subsequent to the submission of their applications for the examination should immediately after announcement of the result of the written part of the examination notify the changed address also to :—

For candidates with Army as first choice—Army Headquarters, A.G's Branch, RTG (NDA Entry), West Block-III, Wing-1, R. K. Puram, New Delhi-110066, Phone No. 26175473.

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice— Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, OI&R Section, R. No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011, Phone No. 23010097/23011282.

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110106, Phone No. 23010231 Extn. 7973.

**FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTER FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.**

**AFTER HAVING CLEARED THE WRITTEN EXAMINATION THE CANDIDATES SHOULD LOG ON TO THE FOLLOWING WEBSITES FOR THEIR SSB CENTRE & DATE OF INTERVIEW :-**

[www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in)

[www.joinindiannavy.gov.in](http://www.joinindiannavy.gov.in)

[www.careerairforce.nic.in](http://www.careerairforce.nic.in)

Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board should address enquiries or requests, if any, relating to their interview or visit website of respective service headquarters after 20 days from the announcement of written results as follows :—

For candidates with Army as first choice—Army Headquarters, AG's Branch, RTG (NDA Entry), West Block-III, Wing-1, R.K. Puram, New Delhi – 110 066, Phone No. 26175473 or [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in)

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, O.I. & R. Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhavan, New Delhi-110011, Phone No. 23010097/ Email : [officer-navy@nic.in](mailto:officer-navy@nic.in) or [www.joinindiannavy.gov.in](http://www.joinindiannavy.gov.in)

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110106, Phone No. 23010231 Extn. 7973/7646 or [www.careerairforce.nic.in](http://www.careerairforce.nic.in)

Candidates are required to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in exceptional circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army Headquarters will be the sole deciding authority. Such requests should be addressed to the Administrative Officer of the Selection Centre from where the call letter for interview has been received. No action will be taken on letters received by Army/Navy/Air HQs. SSB interview for the candidates qualified in the written examination will be held during the months of September 2016 to October 2016 or as suitable to Recruiting Directorate. For all queries regarding Merit list, joining instructions and any other relevant information regarding selection process, please visit our website [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in).



**9. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES :**

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission at their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for Intelligence and Personality Test where candidates for the Army/Navy wings of the NDA and 10+2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy will be assessed on Officers Potentiality and those for the Air Force in Computerised Pilot Selection System (CPSS) and Pilot Aptitude Test (which forms the whole PAB Test) and for Officers Potentiality. PABT applicable to candidates with Air Force as First choice would also be conducted for all SSB qualified candidates with one of the choice as Air Force subject to their eligibility and if they are so willing.

**TWO-STAGE SELECTION PROCEDURE**

Two-stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and Intelligence Test has been introduced at Selection Centres/Air Force Selection Boards/Naval Selection Boards. All the candidates will be put to stage-one test on first day of reporting at Selection Centres/Air Force Selection Boards/Naval Selection Boards. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests. Those candidates who qualify stage II will be required to submit the Original Certificates along with one photocopy each of : (i) Original Matriculation pass certificate or equivalent in support of date of birth, (ii) Original 10+2 pass certificate or equivalent in support of educational qualification.

Candidates who appear before the Services Selection Board and undergo the test there, will do so at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Parents or guardians of the candidates will be required to sign a certificate to this effect.

To be acceptable, candidates for the Army/Navy/Naval Academy and Air Force should secure the minimum qualifying marks separately in (i) Written examination as fixed by the Commission at their discretion and (ii) Officer Potentiality Test as fixed by the Services Selection Board at their discretion. Over and above candidates for the Air Force, and all the SSB qualified candidates as per their willingness, eligibility and preference for Air Force, should separately qualify the PABT.

Subject to these conditions the qualified candidates will then be placed in a single combined list on the basis of total marks secured by them in the Written Examination and the Services Selection Board Tests. The final allocation/selection for admission to the Army, Navy, Air Force of the National Defence Academy and 10+2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy will be made upto the number of vacancies available subject to eligibility, medical fitness and merit-cum-preference of the candidates. The candidates who are eligible to be admitted to multiple Services/Courses will be considered for allocation/selection with reference to their order or preferences and in the event of their final allocation/ selection to one Service/Course, they will not be considered for admission to other remaining Services/Courses.

**N.B.: EVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE IS GIVEN COMPUTERISED PILOT SELECTION SYSTEM (CPSS) AND PILOT APTITUDE TEST (WHICH FORMS THE WHOLE PAB TEST) ONLY ONCE. THE GRADE SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL THEREFORE HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELECTION BOARD. A CANDIDATE WHO FAILS IN THE FIRST PILOT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR ARM.**

Candidates who have been given the Computerised Pilot Selection System (CPSS) and Pilot Aptitude Test (which forms the whole PAB Test) for any previous N.D.A. course should submit their application for this examination for the Air Force Wing only if they have been notified as having qualified in the Pilot Aptitude Test.

The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success in the examination confers no right of admission to the Academy. A candidate must satisfy the appointing authority that he is suitable in all respects for admission to the Academy.

**10. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE :**

Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, or to the 10 + 2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy but were removed therefrom for lack of officer-like qualities or on disciplinary grounds will not be admitted to the Academy.

Candidates who were previously withdrawn from the National Defence Academy or Indian Naval Academy on medical grounds or left the above Academy voluntarily are however, eligible for admission to the Academy provided they satisfy the medical and other prescribed conditions.



11. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

12. The details regarding (a) the scheme and syllabus of the examination, (b) Physical standards for admission to the National Defence Academy and Naval Academy and (c) Brief particulars of the service etc., for candidates joining the National Defence Academy and Naval Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

U. K. TIWARI  
Director (AG-II)

#### APPENDIX-I

(The Scheme and Syllabus of Examination)

##### A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :—

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Mathematics	01	2½ Hours	300
General Ability Test	02	2½ Hours	600
Total			900
SSB Test/Interview :			900

2. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. THE QUESTION PAPERS (TEST BOOKLETS) OF MATHEMATICS AND PART “B” OF GENERAL ABILITY TEST WILL BE SET BILINGUALLY IN HINDI AS WELL AS ENGLISH.

3. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

6. The candidates are not permitted to use calculator or Mathematical or logarithmic table for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall.

##### B. SYLLABUS OF THE EXAMINATION

###### PAPER-I

###### MATHEMATICS

(Code No. 01)

(Maximum Marks-300)

##### 1. ALGEBRA

Concept of set, operations on sets, Venn diagrams. De Morgan laws, Cartesian product, relation, equivalence relation.

Representation of real numbers on a line. Complex numbers—basic properties, modulus, argument, cube roots of unity. Binary system of numbers. Conversion of a number in decimal system to binary system and vice-versa. Arithmetic, Geometric and Harmonic progressions. Quadratic equations with real coefficients. Solution of linear inequations of two variables by graphs. Permutation and Combination. Binomial theorem and its applications. Logarithms and their applications.

##### 2. MATRICES AND DETERMINANTS :

Types of matrices, operations on matrices. Determinant of a matrix, basic properties of determinants. Adjoint and inverse of a square matrix, Applications-Solution of a system of linear equations in two or three unknowns by Cramer's rule and by Matrix Method.

##### 3. TRIGONOMETRY :



Angles and their measures in degrees and in radians. Trigonometrical ratios. Trigonometric identities Sum and difference formulae. Multiple and Sub-multiple angles. Inverse trigonometric functions. Applications-Height and distance, properties of triangles.

#### 4. ANALYTICAL GEOMETRY OF TWO AND THREE DIMENSIONS :

Rectangular Cartesian Coordinate system. Distance formula. Equation of a line in various forms. Angle between two lines. Distance of a point from a line. Equation of a circle in standard and in general form. Standard forms of parabola, ellipse and hyperbola. Eccentricity and axis of a conic. Point in a three dimensional space, distance between two points. Direction Cosines and direction ratios. Equation two points. Direction Cosines and direction ratios. Equation of a plane and a line in various forms. Angle between two lines and angle between two planes. Equation of a sphere.

#### 5. DIFFERENTIAL CALCULUS :

Concept of a real valued function—domain, range and graph of a function. Composite functions, one to one, onto and inverse functions. Notion of limit, Standard limits—examples. Continuity of functions—examples, algebraic operations on continuous functions. Derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative—applications. Derivatives of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect to another function, derivative of a composite function. Second order derivatives. Increasing and decreasing functions. Application of derivatives in problems of maxima and minima.

#### 6. INTEGRAL CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS :

Integration as inverse of differentiation, integration by substitution and by parts, standard integrals involving algebraic expressions, trigonometric, exponential and hyperbolic functions. Evaluation of definite integrals—determination of areas of plane regions bounded by curves—applications.

Definition of order and degree of a differential equation, formation of a differential equation by examples. General and particular solution of a differential equations, solution of first order and first degree differential equations of various types—examples. Application in problems of growth and decay.

#### 7. VECTOR ALGEBRA :

Vectors in two and three dimensions, magnitude and direction of a vector. Unit and null vectors, addition of vectors, scalar multiplication of a vector, scalar product or dot product of two vectors. Vector product or cross product of two vectors. Applications—work done by a force and moment of a force and in geometrical problems.

#### 8. STATISTICS AND PROBABILITY :

Statistics : Classification of data, Frequency distribution, cumulative frequency distribution—examples. Graphical representation—Histogram, Pie Chart, frequency polygon—examples. Measures of Central tendency—Mean, median and mode. Variance and standard deviation—determination and comparison. Correlation and regression.

Probability : Random experiment, outcomes and associated sample space, events, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events. Union and Intersection of events. Complementary, elementary and composite events. Definition of probability—classical and statistical—examples. Elementary theorems on probability—simple problems. Conditional probability, Bayes' theorem—simple problems. Random variable as function on a sample space. Binomial distribution, examples of random experiments giving rise to Binominal distribution.

### PAPER-II

#### GENERAL ABILITY TEST

(Code No. 02)

(Maximum Marks—600)

#### Part 'A'—ENGLISH

(Maximum Marks—200)

The question paper in English will be designed to test the candidate's understanding of English and workman like use of words. The syllabus covers various aspects like : Grammar and usage, vocabulary, comprehension and cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in English.

#### Part 'B'—GENERAL KNOWLEDGE

(Maximum Marks—400)

The question paper on General Knowledge will broadly cover the subjects : Physics, Chemistry, General Science, Social Studies, Geography and Current Events.

The syllabus given below is designed to indicate the scope of these subjects included in this paper. The topics mentioned are not to be regarded as exhaustive and questions on topics of similar nature not specifically mentioned in the syllabus may also be asked. Candidate's answers are expected to show their knowledge and intelligent understanding of the subject.



### Section 'A' (Physics)

Physical Properties and States of Matter, Mass, Weight, Volume, Density and Specific Gravity, Principle of Archimedes, Pressure Barometer.

Motion of objects, Velocity and Acceleration, Newton's Laws of Motion, Force and Momentum, Parallelogram of Forces, Stability and Equilibrium of bodies, Gravitation, elementary ideas of work, Power and Energy.

Effects of Heat, Measurement of Temperature and Heat, change of State and Latent Heat, Modes of transference of Heat.

Sound waves and their properties, Simple musical instruments.

Rectilinear propagation of Light, Reflection and refraction. Spherical mirrors and Lenses, Human Eye.

Natural and Artificial Magnets, Properties of a Magnet, Earth as a Magnet.

Static and Current Electricity, conductors and Non-conductors, Ohm's Law, Simple Electrical Circuits, Heating, Lighting and Magnetic effects of Current, Measurement of Electrical Power, Primary and Secondary Cells, Use of X-Rays.

General Principles in the working of the following:

Simple Pendulum, Simple Pulleys, Siphon, Levers, Balloon, Pumps, Hydrometer, Pressure Cooker, Thermos Flask, Gramophone, Telegraphs, Telephone, Periscope, Telescope, Microscope, Mariner's Compass; Lightening Conductors, Safety Fuses.

### Section 'B' (Chemistry)

Physical and Chemical changes. Elements, Mixtures and Compounds, Symbols, Formulae and simple Chemical Equations, Law of Chemical Combination (excluding problems). Properties of Air and Water.

Preparation and Properties of Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbondioxide, Oxidation and Reduction.

Acids, bases and salts.

Carbon—different forms.

Fertilizers—Natural and Artificial.

Material used in the preparation of substances like Soap, Glass, Ink, Paper, Cement, Paints, Safety Matches and Gun-Powder

Elementary ideas about the structure of Atom, Atomic Equivalent and Molecular Weights, Valency.

### Section 'C' (General Science)

Difference between the living and non-living.

Basis of Life—Cells, Protoplasms and Tissues.

Growth and Reproduction in Plants and Animals.

Elementary knowledge of Human Body and its important organs.

Common Epidemics, their causes and prevention.

Food—Source of Energy for man. Constituents of food, Balanced Diet.

The Solar System—Meteors and Comets, Eclipses.

Achievements of Eminent Scientists.

### Section 'D' (History, Freedom Movement etc.)

A broad survey of Indian History, with emphasis on Culture and Civilisation.

Freedom Movement in India.

Elementary study of Indian Constitution and Administration.

Elementary knowledge of Five Year Plans of India.



Panchayati Raj, Co-operatives and Community Development.

Bhoodan, Sarvodaya, National Integration and Welfare State, Basic Teachings of Mahatma Gandhi.

Forces shaping the modern world; Renaissance, Exploration and Discovery; War of American Independence. French Revolution, Industrial Revolution and Russian Revolution. Impact of Science and Technology on Society. Concept of one World, United Nations, Panchsheel, Democracy, Socialism and Communism. Role of India in the present world.

#### Section 'E' (Geography)

The Earth, its shape and size. Latitudes and Longitudes, Concept of time. International Date Line. Movements of Earth and their effects.

Origin of Earth. Rocks and their classification; Weathering—Mechanical and Chemical, Earthquakes and Volcanoes.

Ocean Currents and Tides.

Atmosphere and its composition; Temperature and Atmospheric Pressure, Planetary Winds, Cyclones and Anti-cyclones; Humidity; Condensation and Precipitation; Types of Climate, Major Natural regions of the World.

Regional Geography of India—Climate, Natural vegetation. Mineral and Power resources; location and distribution of agricultural and Industrial activities.

Important Sea ports and main sea, land and air routes of India. Main items of Imports and Exports of India.

#### Section 'F' (Current Events)

Knowledge of Important events that have happened in India in the recent years.

Current important world events.

Prominent personalities—both Indian and International including those connected with cultural activities and sports.

#### NOTE :

Out of maximum marks assigned to part 'B' of this paper, questions on Sections 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F' will carry approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20% and 10% weightages respectively.

#### Intelligence and Personality Test

The SSB procedure consists of two stage Selection process - stage I and stage II. Only those candidates who clear the stage I are permitted to appear for stage II. The details are :

(a) Stage I comprises of Officer Intelligence Rating (OIR) tests are Picture Perception \* Description Test (PP&DT). The candidates will be shortlisted based on combination of performance in OIR Test and PP&DT.

(b) Stage II Comprises of Interview, Group Testing Officer Tasks, Psychology Tests and the Conference. These tests are conducted over 4 days. The details of these tests are given on the website [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in).

The personality of a candidate is assessed by three different assessors viz. The Interviewing Officer (IO), Group Testing Officer (GTO) and the Psychologist. There are no separate weighage for each test. The mks are allotted by assessors only after taking into consideration the performance of the candidate holistically in all the test. In addition, marks for Conference are also allotted based on the initial performance of the Candidate in the three techniques and decision of the Board. All these have equal weightage.

The various tests of IO, GTO and Psych are designed to bring out the presence/absence of Officer Like Qualities and their trainability in a candidate. Accordingly candidates are Recommended or Not Recommended at the SSB.

#### APPENDIX-II

#### GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY.



NOTE : CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY AND MENTALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARDS. THE GUIDELINES FOR THE SAME ARE GIVEN BELOW.

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE THEREFORE ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

Candidates are also advised to rectify minor defects/ailments in order to speed up finalisation of medical examination conducted at the Military Hospital after being recommended at the SSB.

Few of such commonly found defects/ailments are listed below :

- (a) Wax (Ears)
- (b) Deviated Nasal Septum
- (c) Hydrocele/Phimosis
- (d) Overweight/Underweight
- (e) Under Sized Chest
- (f) Piles
- (g) Gynaecomastia
- (h) Tonsillitis
- (i) Varicocele

NOTE : Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e. from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/back (dorsal) side of hand/Permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred from further selection. Tribes with tattoo marks on the face or body as per their existing custom and traditions will be permitted on a case to case basis. Comdt Selection Centre will be competent auth for clearing such cases.

Civilian candidates appearing for all types of commission in the Armed Forces will be entitled to out-patients treatment from service sources at public expense for injuries sustained or diseases contracted during the course of their examination by the Selection Board. They will also be entitled to in-patient treatment at public expense in the Officer's ward of a hospital provided—

- (a) the injury is sustained during the tests or,
- (b) the disease is contracted during the course of the examination by selection board and there is no suitable accommodation in local civil hospital or it is impracticable to remove the patient to the civil hospital; or,
- (c) the medical board requires the candidate's admission for observation.

NOTE : They are not entitled to special nursing.

A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the academy who are declared fit by the Medical Board. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, the candidates declared unfit will be intimated by the President of the Medical Board and the procedure for request for an Appeal Medical Board will also be intimated to the candidate.

Candidates declared unfit during Appeal Medical Board will be intimated about the provision of Review Medical Board.

- (a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of Military duties.
- (b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or under weight. The Candidate should not be over weight or obese.
- (c) The minimum acceptable height is 157 cms (162.5 cms. for Air Force). For Gorkhas and individuals belonging to hills of North-Eastern regions of India, Garhwal and Kumaon, the minimum acceptable heights will be 5 cms. less. In case of candidates from Lakshadweep the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms. Height and weight standards are given below :



HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR  
ARMY/AIR FORCE

TABLE-I

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	16-17 years	17-18 years	18-19 years
1	2	3	4
152	42.5	44.0	45.0
155	43.5	45.3	47.0
157	45.0	47.0	48.0
160	46.5	48.0	49.0
162	48.0	50.0	51.0
165	50.0	52.0	53.0
167	51.0	53.0	54.0
170	52.5	55.0	56.0
173	54.5	57.0	58.0
175	56.0	59.0	60.0
178	58.0	61.0	62.0
180	60.0	63.0	64.5
183	62.5	65.0	66.5

HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR NAVY

TABLE-II

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	16 years	18 years	20 years
1	2	3	4
152	44	45	46
155	45	46	47
157	46	47	49
160	47	48	50
162	48	50	52
165	50	52	53
168	52	53	55
170	53	55	57
173	55	57	59
175	57	59	61
178	59	61	62
180	61	63	64
183	63	65	67



“Individual’s weight is considered normal if it is within  $\pm 10\%$  departure from average weight given in the table I and II”. However, in individuals with heavy bones and broad build as well as individuals with thin build but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

NOTE 1 : Height relaxable upto 2.5 cm. (5 cm. for Navy) may be allowed where the Medical Board certifies that the candidate is likely to grow and come up to the required standard on completion of his training.

NOTE 2 : To meet special requirement as a pilot in the Air Force the acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height will be as under :

	Minimum	Maximum
Leg Length	99.00 cms.	120.00 cms.
Thigh Length	—	64.00 cms.
Sitting Height	81.50 cms.	96.00 cms.

(d) Chest should be well developed. Fully expanded chest should not be less than 81 cms. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-Ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.

(e) There should be no maldevelopment or impairment of function of the bones or joint.

#### Spinal Conditions

(f) Past medical history of diseases or injury of the spine or sacro iliac joints, either with or without objective signs which have prevented the candidate from successfully following a physically active life, is a cause for rejection for commissioning in IAF. History of spinal fracture/prolapsed intervertebral disc and surgical treatment for these conditions will entail rejection. The following conditions detected radiologically during medical exam will disqualify a candidate for Air Force service :

- (i) Granulomatous disease of spine
- (ii) Arthritides/spondylosis
  - Rheumatoid arthritis and allied disorders
  - Ankylosing spondylitis
  - Osteoarthritis, spondylosis and degenerative joint disease
  - Non articular rheumatism (e.g. lesions of the rotator cuff, tennis elbow, recurrent lumbago etc.)
  - Miscellaneous disorders including SLE, , polymyositis, vasculitis.
- (iii) Spondylolisthesis/spondylolysis.
- (v) Compression fracture of vertebrae.
- (v) Scheuerman's disease (Adolescent kyphosis)
- (vi) Loss of cervical lordosis when associated with clinically restricted movements of cervical spine.
- (vii) Unilateral/Bilateral cervical ribs with demonstrable neurological or circulatory deficit.
- (viii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's method.
- (ix) Degenerative Disc. Disease.
- (x) Presence of schmorl's nodes at more than one level.
- (xi) Atlanto-occipital and atlantoaxial anomalies.
- (xii) Hemi vertebrae and/or incomplete block (fused) vertebrae at any level in cervical, dorsal or lumbar spine and complete block (fused) vertebrae at more than one level in cervical or dorsal spine.
- (xiii) Unilateral Sacralisation or lumbarisation (Complete or incomplete) at all levels and bilateral incomplete sacralisation or lumbarisation.
- (xiv) Any other abnormality if so considered by the specialist.

(g) Mild Kyphosis or Lordosis where deformity is barely noticeable and there is no pain or restriction of movement will not preclude acceptance.



(h) In case of noticeable Scoliosis or suspicion of any other abnormality or spinal deformity, more than mild, appropriate X-rays of the spine are to be taken and the Examinee referred for specialist's advice.

(i) The following conditions detected on X-ray examination will be disqualifying for entry to Armed Forces :

- (i) Granulomatous disease of spine.
- (ii) Arthritides/spondylosis
- (iii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's Method (10 degree for Army).
- (iv) More than mild Kyphosis/Lordosis
- (v) Spondylolisthesis/Spondylosis/Spondylolysis
- (vi) Herniated nucleus pulposus.
- (vii) Compression fracture of Vertebra.
- (viii) Sacralisation Disease
- (ix) Cervical ribs with demonstrable neurological or Circulatory deficit.
- (x) Presence of Schmorl's node at more than one level.
- (xi) Atlanto-occipital and atlanto-axial anomalies.
- (xii) Incomplete Sacralisation Unilateral or Bilateral
- (xiii) Spina Bifida other than SV 1 and LV 5 if completely Sacralised
- (xiv) Any other abnormality, if so considered by specialist.

(j) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.

(k) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms. in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat. Audiometric test will be done for AF. Audiometric hearing loss should not be greater than 20 db in frequencies between 250 and 8000 Hz. There is no impediment of speech.

(l) There should be no signs of functional or organic disease of the heart and blood vessels. Blood pressure should be normal.

(m) There should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.

(n) Un-operated hernias will make a candidate unfit. In case of Hernia which has been operated, a minimum of 6 months must have passed prior to final medical examination before commencement of the course.

(o) There should be no hydrocele, varicocele or piles.

(p) Urine examination will be done and any abnormality if detected will be a cause for rejection.

(q) Any disease of skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.

(r) Visual standards:- The distance vision (corrected) should be 6/6 in better eye and 6/9 in worse eye. Myopia should not be more than 2.5 D and hypermetropia not more than 3.5 D including Astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of ophthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard will be (CP-III) for Army. A candidate should be able to recognise red and green colours. Candidates will be required to give certificates that neither he nor any member of his family has suffered from congenital night blindness. Candidates who have undergone or have the evidence of having undergone Radial Keratotomy, to improve the visual acuity will be permanently rejected for all the Services. Candidates who have undergone Laser Surgery for correction of refractive error are also not acceptable to defence services.

Vision standard for Naval candidates

Uncorrected without glass	6/6, 6/9
Corrected with glass	6/6, 6/6
Limits of Myopia	-0.75
Limits of Hypermetropia	+1.5
Binocular vision	III
Limits of colour preception	I



### Visual Standards for Air Force

Candidates who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force, Minimum distant vision 6/6 in one eye and 6/9 in other, correctable to 6/6 only for Hypermetropia. Colour vision CP-I Hypermetropia : +2.0 D Sph Manifest Myopia : Nil Retinoscopic Myopia : 0.5 in any Meridian permitted Astigmatism : + 0.75 D Cyl (within + 2.0 D.Max) Maddox Rod Test

- (i) at 6 meters    Exo-6 prism D  
                          Eso-6 prism D  
                          Hyper-1 prism D  
                          Hypo-1 prism D
- (ii) at 33 cms     Exo-16 prism D  
                          Eso-6 prism D  
                          Hyper-1 prism D  
                          Hypo-1 prism D

Hand held Stereoscope—All of BSV grades Convergence—Up to 10 cm Cover test for distant and near—Lateral divergence/convergence recovery rapid and complete Radial Keratotomy, Photo Refractive Keratotomy/laser in Situ, Keratomileusis (PRK/LASIK) surgeries for correction of refractive errors are not permitted for any Air Force duties. Candidates having undergone cataract surgery with or without IOL implants will also be declared unfit.

Binocular vision must possess good binocular vision (fusion and stereopsis with good amplitude and depth).

Candidates who have undergone LASIK surgery are not considered fit for permanent commission in flying branch in IAF.

(s) USG abdomen examination will be carried out and any congenital structural anomaly or disease of the abdominal organs will be a cause for rejection in Armed Forces.

(t) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoea.

(u) Routine ECG for Air Force candidates must be within normal limits.

(v) Physical conditioning : Prospective candidates are advised to keep themselves in good physical condition, by following the undermentioned routine :—

- (a) Running 2.4 km in 15 minutes
- (b) Skipping
- (c) Pushups and sit ups (minimum 20 each)
- (d) Chin ups (minimum 08)
- (e) Rope climbing 3.4 metres.

### APPENDIX-III

#### (BRIEF PARTICULARS OF THE SERVICE ETC.)

1. Before a candidate joins the Academy, the parent or guardian will be required to sign :—

(a) A certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if, on account of his dismissal or discharge or withdrawal from National Defence Academy for knowingly furnishing false particulars or suppressing material information in his application for admission to the said National Defence Academy or in the event of his being dismissed or discharged or withdrawn on disciplinary grounds from the said, National Defence Academy or for any reason not beyond the control of the cadet, he does not complete the prescribed period of training, or he, the cadet, does not accept a Commission if offered as conventated above, then the Guarantors and the cadet shall jointly and severally be liable to pay forthwith to Government in cash sums as the Government shall fix but not exceeding such expenses as shall have been incurred by the Government on account of the Cadet on his training and all the money received by the Cadets as pay and allowance from the Government together with interest on the said money calculated at the rate in force for Government loans.

2. The cost of training including accommodation, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets, will, however, be required to meet their pocket and other private expenses.



Normally these expenses are not likely to exceed Rs. 3000.00 p.m. If in any case a cadet's parents or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance of Rs. 1000.00 p.m. for the period of training may be granted by the Government whose parents income is less than Rs. 21,000/- per month. Cadet whose parent's or guardian's income exceeds Rs. 21,000/- per month will not be liable for the assistance. If more than one son/ward simultaneously undergoing training at NDA, IMA, OTA and corresponding training establishment in the Navy and Air Force, then BOTH would be eligible for the financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having financial assistance from the Government should immediately after his son/ward having been finally selected for training at the National Defence Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will forward the application with his recommendation to the Commandant, National Defence Academy, Khadakwasla, Pune-411023.

3. Candidates finally selected for training at the Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant, National Defence Academy, on their arrival there :—

(a) Pocket allowance for five months @ Rs. 3000.00 per month.	Rs. 15000.00
(b) For items of clothing and equipment	Rs. 17865.00
(c) Army Group Insurance Fund	Rs. 6400.00
(d) Incidental Expenditure during 1st Semester	Rs. 7516.00
Total	Rs. 46781.00

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the candidates in the event of financial aid being sanctioned to them :—

(a) Pocket allowance for five months at Rs. 400.00 per month (Corresponding to Govt. Financial Assistance)	Rs. 2000.00
(b) For items of clothing and equip- ment approximately	Rs. 13935.00

4. The following Scholarships/Financial Assistance are tenable at the National Defence Academy.

(1) PARASHURAM BHAI PATWARDHAN SCHOLARSHIP—This Scholarship is granted to cadets overall first in Academics of Passing out Course. One time scholarship amount is Rs. 5000/-.

(2) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and awarded to a MARATHA cadet who should be the son of an ex-serviceman. The scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

(3) KAUR SINGH MEMORIAL SCHOLARSHIP—Two scholarships are awarded to cadets who obtain the highest position amongst candidates from BIHAR. The value of each scholarship is Rs. 37.00 per mensem tenable for a maximum period of 4 years during the training at the National Defence Academy, Khadakwasla and thereafter at the Indian Military Academy, Dehra Dun and the Air Force Flying College; and Indian Naval Academy, Ezhimala where the cadets may be sent for training on completion of their training at the National Defence Academy. The scholarship will, however, be continued subject to maintaining good progress at the above institution.

(4) ASSAM GOVERNMENT SCHOLARSHIP—Two scholarships will be awarded to the cadets from ASSAM. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per mensem and is tenable for the duration of a cadet's stay at the National Defence Academy. The scholarships will be awarded to the two best cadets from ASSAM without any reference to the income of their parents. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(5) UTTAR PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—Two scholarships each of the value of Rs. 30.00 per month and an outfit stipend of Rs. 400.00 are awarded to two cadets who belong to UTTAR PRADESH on merit-cum-means basis and are tenable for a period of three years subject to satisfactory performance by the cadets at National Defence Academy. Cadets who are granted these Scholarships are not entitled to any other financial assistance from Government.

(6) KERALA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—One merit scholarship of the value of Rs. 480/- per annum for the entire period of training at NDA, will be awarded by the State Government of Kerala to a Cadet who is domiciled resident of the State of KERALA and who secures the first position in the All India UPSC Entrance Examination to NDA irrespective of the fact whether he has passed out from RIMC or from any of the Sainik Schools in India. The financial position of a Cadet's father/guardian is not taken into consideration.

(7) BIHARI LAL MANDAKINI PRIZE—This is cash prize of Rs. 500.00 available for the best BENGALI boy in each Course of the Academy. Application Forms are available with the Commandant, National Defence Academy.



(8) ORISSA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—These scholarships, one for the Army, one for the Navy and the other for the Air Force of the value of Rs. 80.00 each per month will be awarded by the Government of Orissa to the cadets who are permanent residents of the State of ORISSA. Two of these scholarships will be awarded on the basis of merit-cum-means of the cadets whose parent's or guardian's income does not exceed Rs. 5,000/- per annum and the other one will be given to the best cadet irrespective of his parent's or guardian's income.

S.No.	State Government	Amount	Eligibility
(9)	West Bengal *Income Initial Lump sum grant Scholarship per semester  Table Income group Low - up to Rs. 9000/-pm Middle - Rs. 9001/- to Rs. 18000/-pm High - Above 18000/-pm	Low    Middle    High 5000/-    3750/-    2500/- 1800/-    1350/-    900/-	(i) The cadet must be Indian Citizen and the cdt and/or his of/or permanently domiciled in the State of West Bengal. (ii) The Cadet is not in receipt of any other financial assistance/grant from the Govt. of India and/or the State Government or any other authority excepting scholarship or stipend received on merit.
(10)	Goa Rs. 1000/- per month during the period of training (subject to a maximum of 24 months or duration of the course whichever is less) & one time outfit allowance of Rs. 12,000/-		(i) The income limit of the cadet's parent/guardian shall not exceed Rs. 15,000/- pm (Rs. 1,80,000/- per annum). (ii) The income limit of those belonging to SC/ST/OBC should not exceed Rs. 37,500/- per month (Rs. 4,50,000/- per annum). (iii) He should not be receiving financial assistance/freeship from any other source.
(11)	Nagaland	Rs. 1,00,000/- one time payment	Should be domicile of Nagaland State.
(12)	Manipur	Rs. 1,00,000/- one time payment	Should be domicile of Manipur State.
(13)	Arunachal Pradesh	Scholarship Rs.1,000/- pm One time outfit Allowance Rs. 12,000/-	Should be domicile of Arunachal Pradesh State.
(14)	Gujarat	Scholarship Rs. 6,000/- per annum	To the ward of Serving/Ex-servicemen (incl Ex/Serving Officer) of Native/Domicile of Gujarat.
(15)	<u>Uttarakhand</u> Pocket Money Rs. 250/- pm for NDA Cadets of Uttarakhand domicile is paid to father/guardian of cadets (Ex-Servicemen/Widow, through respective Zilla Sainik Kalyan Officers.) Cash Award of Rs. 50,000/- for NDA Cadets of Uttarakhand domicile is paid to father/guardian of cadets through Directorate of Higher Education, Haldwani.		
(16)	Punjab	Rs. 1,00,000/-(one time payment)	Should be domicile of Punjab State.
(17)	State Govt. Sikkim	Rs.1.5 lakhs for all Offrs entry schemes	Award for successful candidates of Sikkim for all Officers' entry schemes.
(18)	<u>Fg Officer Anuj Nanchal Memorial Scholarship.</u> Rs. 1500/- (One time payment) – Second best all round Air Force cadet of VI term		
(19)	<u>Pilot Officer Gurmeet Singh Bedi Memorial Scholarship.</u> Pilot Officer Gurmeet Singh Bedi Memorial Scholarship. Rs. 1500/- (One time payment). Best all round Air Force cadet at the time of Passing Out of VI term.		

(20) HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIP—Four scholarships will be awarded to cadets from HIMACHAL PRADESH. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per month during the first two years of training and Rs. 48.00 per month during the third year of training. These scholarships will be available to those cadets whose parent's income is below Rs. 500.00 per month. No cadet in receipt of financial assistance from the Government will be eligible for this scholarship.

(21) TAMIL NADU GOVERNMENT SCHOLARSHIP—The Government of Tamil Nadu has instituted at NDA one scholarship per course of the value of Rs. 30/- per month plus an outfit allowance of Rs. 400/- (one only during the entire period of cadet's training) to be awarded to a cadet belonging to the State of TAMIL NADU whose parent's/guardian's monthly income does not exceed Rs. 500/-. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.



(22) KARNATAKA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—The Govt. of Karnataka has awarded scholarships to cadets from Karnataka State who join the National Defence Academy. The value of the scholarship shall be Rs. 1000/- (Rupees One thousand) per month and outfit allowance of Rs. 12000/- in first term.

(23) ALBERT EKKA SCHOLARSHIP—The Government of Bihar has instituted at NDA 25 Merit Scholarships at Rs. 50/- per month for entire period of six terms at the NDA and Rs. 650/- one time towards clothing and equipment. The cadet awarded the above merit scholarship would not be eligible for any other scholarship or financial assistance from the Government. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(24) FG OFFICER DV PINTOO MEMORIAL SCHOLARSHIP—Gp Capt. M Vashishta has instituted 3 scholarships of Rs. 125/- each per month at NDA for one term to be awarded to the first three cadets in the order of merit on completion of their first semester till end of second term. The cadets in receipt of Govt. Financial Assistance will not be eligible for the above scholarships. The application for eligible cadets can be made to the Commandant, NDA on arrival.

(25) FINANCIAL ASSISTANCE TO WARDS OF EX-SERVICEMEN—MAHARASHTRA STATE

The wards of Maharashtrian ex-service officers/men who are undergoing training as cadets at NDA will be given Rs. 50,000/- as one time incentive.

The parents/guardians of the wards should submit their applications to their respective Zilla Sainik Welfare Office alongwith the certificates obtained from the Academy. Terms and conditions governing these scholarships are obtainable from the Commandant, National Defence Academy, Khadakwasla, Pune – 411 023.

(26) AWARD OF FINANCIAL ASSISTANCE TO CANDIDATES OF HARYANA DOMICILE UNDER TRAINING AT NDA.

The Haryana State Govt. has declared a cash award of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh) to every individual who successfully completes the training at NDA/IMA/OTA and other Defence Academies of National Status and domicile of State of Haryana.

(27) INCENTIVE GRANT TO CADETS DOMICILE OF UT, CHANDIGARH UNDER TRAINING AT NDA.

Chandigarh Administration has introduced the scheme for grant of one time incentive of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh) to the cadets who are resident of UT, Chandigarh and joined NDA .

5. Immediately after the selected candidates join the Academy, a preliminary examination will be held in the following subjects :

- (a) English;
- (b) Mathematics;
- (c) Science;
- (d) Hindi.

The standard of the examination in the subjects at (a), (b) and (c) will not be higher than that of the Higher Secondary Examination of an Indian University or Board of Higher Secondary Education. The paper in the subject at (d) is intended to test the standard attained by the candidate in Hindi at the time of joining the Academy.

Candidates are, therefore, advised not to neglect their studies after the competitive examination.

TRAINING

6. The selected candidates for the three services, viz., Army, Navy and Air Force are given preliminary training both academic and physical for a period of 3 years at the National Defence Academy which is an Inter-Service Institution. The training during the first two and half years is common to the cadets of three wings. The cadets on passing out will be awarded B.Sc./B. Sc. (Computer)/B.A. degree from Jawaharlal Nehru University, Delhi.

The selected candidates of the Naval Academy will be given preliminary training both academic and physical, for a period of 04 years at Indian Naval Academy, Ezhimala. The cadets of 10+2 Cadet Entry Scheme will be awarded a B. Tech Degree on successful completion of training.

7. On passing out from the National Defence Academy, Army Cadets go to the Indian Military Academy, Dehra Dun, Naval Cadets to Indian Naval Academy, Ezhimala and Air Force cadets to AFA, HYDERABAD.

8. At the I.M.A. Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of one year aimed at turning officer capable of leading infantry Sub-units. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt subject to being medically fit in "SHAPE" one.

9. The Naval cadets are selected for the Executive Branch of the Navy, on passing out from the National Defence Academy and are given further training at Indian Naval Academy, Ezhimala for a period of one year on successful completion of which they are promoted to the rank of Sub Lieutenants.



10. Air Force Cadets receive flying training for a period of 1½ years. However, at the end of 1 year of training they are given provisional Commission in the rank of Flying Officer. After successful completion of further training of six months they are absorbed as permanent commissioned officers on probation for a period of one year.

#### TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

##### 11. Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

##### (i) Fixed Stipend for Cadet Training

Gentlemen cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at IMA and OTA shall be entitled to stipend of Rs. 21,000/- p.m. (Rs. 15,600/- as pay in Pay Band plus Grade Pay of Rs. 5,400/-).

##### (ii) Pay

(a) Rank	Pay Band (Rs.)
Lt to Maj	15,600—39,100/- (PB-3)
Lt Col to Maj Gen	37,400—67,000/- (PB-4)
Lt Gen HAG Scale	67,000/-(annual increment @3% --79,000/-
HAG+ Scale*	75,500/-(annual increment @3% 80,000/-

(\*Admissible to 1/3rd of total strength of Lt Gens)

VCOAS/Army Cdr/Lt Gen (NFSG)	80,000/- (fixed)
COAS	90,000/- (fixed)

(b) In addition to pay, Grade Pay will also be given as under :—

Lt	Rs. 5,400/-
Capt	Rs. 6,100/-
Major	Rs. 6,600/-
Lt Col	Rs. 8,000/-
Col	Rs. 8,700/-
Brig	Rs. 8,900/-
Maj Gen	Rs. 10,000/-

(c) A Fixed sum of Rs. 6,000/- p.m. is also payable as Military Service Pay (MSP) to the officers from the rank of Lt to Brig.

##### (iii) QUALIFICATION PAY AND GRANT

Officers possessing certain prescribed Qualification are entitled to lumpsum Qualification Grant of Rs. 6,000/-, 9,000/-, 15,000/- or 20,000/- based on the qualification held by them.

The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification Pay, based on the Qualification held by them, as under :—

- (i) Master Aviation Instructor—Rs. 500/- p.m.
- (ii) Senior Aviation Instructor Class I—Rs. 400/- p.m.
- (iii) Senior Aviation Instructor Class II—Rs. 280/- p.m.
- (iv) Aviators holding Master Green Card—Rs. 400/- p.m.
- (v) Aviators holding Green Card Rs. 280/- p.m.

The Army Aviators (Pilots) serving in the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance as under :—

(a) Brig & above	Rs. 10,500/-
(b) Maj to Col	Rs. 14,000/-
(c) Capt	Rs. 11,000/-
(d) Lt	Rs. 9,000/-

##### (iv) Allowances

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances :

(a) Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowance of Rs. 400/- p.m.

(c) Depending upon rank and area of posting, officer posted to Field Areas will be eligible for compensatory Highly Active Field Area Allowance at the rate of Rs. 6,780/- to Rs. 8,400/- p.m., Compensatory Field Area Allowance at the rate of Rs. 4,200/- to Rs. 5,200/- p.m. and Compensatory Modified Field Area Allowance at the rate of Rs. 1,600/- to Rs. 2,000/- p.m.



(d) In addition to the Compensatory Field Areas Allowance, officers posted to areas situated at a height of 9000 ft. and above are entitled for High Altitude Allowance in the range of Rs. 1,060/- p.m. to Rs. 11,200/- p.m. depending upon rank of the officer and place of posting.

(e) Uniform allowance : Initial allowance for one time kit @ Rs. 14,000/- and Rs. 3,000/- for every three years.

(f) Transport allowance : Transport @ Rs. 3,200/- + DA thereon p.m. in A-1/A class Cities and Rs. 1,600/- + DA thereon p.m. at other places shall be admissible to officers.

Note : In the case of allowances specific to Defence Forces, the rates of these allowances have been further enhanced by 50% as Dearness Allowance has gone up by 100%.

12. (a) Army Group Insurance Fund is a compulsory contributory group scheme, which provides insurance cover for Rs. 15 Lac on payment of one time non refundable premium of Rs. 6400/- for 3 years paid in advance in lump sum by the cadets including Naval and Air Force Cadets of NDA from the date of joining for Pre-commission training till completion of training at NDA. In case of relegation, an additional premium of Rs. 1160/- per relegated term will be paid immediately on occurrence. For those who are medically boarded out of NDA on account of Disability, the cover provided is 50 per cent of the insured amount for 100 per cent disability i.e. Rs.7.5 lac for 100 per cent disability which is proportionately reduced to Rs.1.5 lakh for 20 per cent disability. Cadets being boarded out with less than 20 per cent disability during initial years of training will be given an ex-gratia grant of Rs. 50,000/- and Rs. 1 lac for cadet invalidated out with less than 20 per cent disability during last year of training. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefits and ex-gratia. In addition, a cadet withdrawn on disciplinary grounds or as undesirable or voluntarily leaves the Academy will also not be eligible for disability benefits and ex-gratia.

(b) At IMA when in receipt of stipend, the Gentlemen Cadets are provided insurance cover of Rs. 60 lac with a monthly contribution of Rs. 5,000/- w.e.f. 01 October, 2015 as per main AGI scheme as applicable to regular officers. Those who are medically boarded out of IMA on account of disability, the cover provided is Rs. 25 Lac for 100 per cent disability which is proportionately reduced to Rs. 5 lac for 20 per cent and an ex-gratia grant of Rs. 50,000/- for less than 20 per cent disability. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre enrolment origin will not qualify for disability benefits and ex-gratia. In addition, a cadet withdrawn on disciplinary grounds or as undesirable or voluntarily leaves the Academy will also not be eligible for disability benefits and ex-gratia.

### 13. PROMOTIONAL AVENUES :

S.No	Army	Navy	Air Force	Minimum Reckonable Commissioned Service required for Substantive Promotion
1.	2.	3.	4.	5.
(a)	Lieutenant	Sub Lieutenant	Flying Officer	On Commission
(b)	Captain	Lieutenant	Flight Lieutenant	02 Years
(c)	Major	Lt. Commander	Squadron	06 years
(d)	Lieutenant Colonel	Commander	Wing Commander	13 years
(e)	Colonel(Selection)	Captain (Selection)	Group Captain (Selection)	15 years
(f)	Colonel (Time Scale)	Captain (Time Scale)	Group Captain (Time Scale)	26 years
(g)	Brigadier	Commodore	Air Commodore	On Selection
(h)	Major General	Rear Admiral	Air Vice Marshal	On Selection
(i)	Lieutenant General	Vice Admiral	Air Marshal	On Selection
(j)	General	Admiral	Air Chief Marshal	On Selection

### 14. RETIREMENT BENEFITS

Pension, gratuity and casualty pensionary award will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

### 15. LEAVE

Leave will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.



## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi, the 27th November 2015

No. D.I.19/2014-Pers-DA-8—Consequent on his selection for deputation to NDRF Bn as Second-in-Command for a period of five years vide NDRF HQr letter No.1-17018/Estt-I/733/NDRF/2014/2013 dated 08/09/2015 and approval accorded by MHA vide their noting dated 16/09/2015, services of Shri Nand Kishore Kumar Prasad, 2IC (IRLA-5162) of 99 Bn RAF is placed at the disposal of DG NDRF w.e.f. 12/11/2015(AN).

ABHAY VIR CHAUHAN  
DIG (Pers)

—————  
The 30th November 2015

No. D.I.02/2006-2015- Pers-DA-8—Consequent on his selection for appointment to the post of Assistant Inspector General (AIG) in Special Protection Group (SPG) on deputation basis in the Pay Band-3 Rs. 15600—39100/- with Grade Pay Rs. 7600/- for a period of six years vide Cabinet Secretariat, GOI order No.A-12011/01/2015-SS dated 25/06/2015, services in respect of Shri Jai Prakash Shahi, 2IC(IRLA-5429) of 38 Bn CRPF is placed at the disposal of SPG with effect from 16/11/2015(AN).

ABHAY VIR CHAUHAN  
DIG (Pers)

## INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

## OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110124, the 15th December 2015

No. 5869 - GE-I/13-2006 (Vol.- II)—The following IA&AS officers have retired on superannuation from Government service/expired from the date shown against their names :

Sl. No.	Name of the officer and Designation	Date of Retirement
1.	Shri Satish Loomba, Additional Comptroller & Auditor General (Eastern Region), O/o Comptroller & Auditor General of India, New Delhi	30.11.2015 (AN)
2.	Ms. Gauri Karol, Director, D/o Industrial Policy & Promotion, M/o Commerce & Industry, New Delhi—On deputation	Expired on 29.11.2015

PURUSHOTTAM TIWARY  
Principal Director (P)

## OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&amp;E)

Thiruvananthapuram-695001, the 14th December 2015

No. OE(E&amp;C)EIV/P/15-16/241—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1	Sri. Radhakrishna Kurup M	Senior Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2015AN (Superannuation)
2	Sri. Vijayaraghavan P S	Senior Accounts Officer, Branch Office, Kozhikode	30.11.2015AN (Superannuation)



Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
3	Smt. Leela Bai L (No.2)	Senior Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2015AN (Superannuation)
4	Smt. Muthulakshmi Ammal R	Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2015AN (Superannuation)
5	Sri. Vijayan Nair K G	Assistant Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2015AN (Superannuation)
6	Smt. Vijayakumari V R	Assistant Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2015AN (Superannuation)

Sd/- ILLEGIBLE  
Deputy Accountant General (Admn)

MINISTRY OF MINES  
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 1st December 2015

No.A-19012/544/2014-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri O.P. Jangid, Superintendent, is promoted to the post of Assistant Administrative Officer in Indian Bureau of Mines, Udaipur, w.e.f 1.10.2014 (A.N.).

NOEL DAHANGA  
Administrative Officer  
For Controller General

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 15th December 2015

No. 9959/SP/A-32013/(20-SO)/DPC/2015/19B—On the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to approve the appointment of the following Assistant Survey Officers to the post of Survey Officer on promotion in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100 with the Grade Pay of Rs. 5,400 (PB-3) on regular basis with effect from the date mentioned against their names, until further orders :

Sl. No.	Name of the officer	Date of promotion to the post of Survey Officer
1.	Shri Himadri Sheakhar Mallick	25.08.2015 (A/N)
2.	Shri Partha Roy	27.08.2015 (F/N)
3.	Shri Sultan Singh	25.08.2015 (A/N)

T. R. DAS  
Assistant Director (P&A)  
for Director General, GSI

The 16th December 2015

No. 9996/SP/A-32013/AO/DPC/2014-15/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India, is pleased to appoint the following Assistants, Geological Survey of India to the post of Administrative Officer (Group “B”, Gazetted) on promotion as regular basis in PB-2 in the pay scale of Rs.9,300—34,800 with Grade Pay of Rs. 4600/- in the same Department with effect from the date as shown against each until further orders :

Sl. No	Name of Officer	Date of Joining in the post of Administrative Officer
1	Smt. Radha Chowdhury (SC)	27.03.2015(F/N)



Sl. No	Name of Officer	Date of Joining in the post of Administrative Officer
2	Shri Barun Sinha	10.04.2015(F/N)
3	Shri C. R. Chakraborty	30.03.2015(F/N)
4	Shri Bishnupada Das	27.03.2015(F/N)
5	Shri J. S. Pal	27.03.2015(F/N)
6	Shri Goutam Nandy	27.03.2015(F/N)
7	Smt. B. C. Deshpande	27.03.2015(F/N)
8	Shri Maiku Lal(SC)	27.03.2015(F/N)
9	Shri Jagannath Mondal(SC)	31.03.2015(A/N)
10	Shri Jitendra Prasad Gond(ST)	01.05.2015(F/N)

S. DAS ROY  
Deputy Director (P&A)  
for Director General, GSI.

No. 9997/SP/A-32013/Dir(P&A)/DPC/2015-16/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Dr. A. S. Senthil Vadivel, Joint Director(P&A) (Group “A”), Geological Survey of India on promotion to the post of Director(P&A) (Group “A”) on officiating capacity in PB - 4 in the pay scale of Rs. 37,400—67,000 with Grade Pay of Rs. 8700/- in the same Department with effect from 27.05.2015 (AN) until further orders.

S. DAS ROY  
Deputy Director (P&A)  
for Director General, GSI.

No. 9998/SP/A-32013/AO/DQE/DPC/2013-14/19A—Based on the results of DQE-AO-13 and the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India, is pleased to appoint the following Assistants, Geological Survey of India to the post of Administrative Officer (Group “B”, Gazetted) on promotion as regular basis in PB-2 in the pay scale of Rs.9,300—34,800 with Grade Pay of Rs. 4600/- in the same Department with effect from the date as shown against each until further orders :

Sl. No.	Name	Date of Joining in the post of Administrative Officer
1.	Shri V. Sriram	30.03.2015(F/N)
2.	Shri S. S. Kameshwar	30.03.2015(F/N)
3.	Shri M. Narsing Rao(SC)	30.03.2015(F/N)
4.	Shri Giriraj Prasad Jain	31.03.2015(F/N)
5.	Shri V. Swami Nathan	30.03.2015(F/N)
6.	Smt. C. Sujatha	30.03.2015(F/N)
7.	Smt. Neerja Prasad	30.03.2015(F/N)
8.	Shri Debasish Sengupta	01.04.2015(F/N)
9.	Shri Subal Kumar Mondal(SC)	31.03.2015(F/N)
10.	Smt. Vidya Suresh Kumar	30.03.2015(F/N)
11.	Shri Prasenjit Saha(SC)	26.03.2015(F/N)



Sl. No.	Name	Date of Joining in the post of Administrative Officer
12.	Shri P. N. Bahadure(SC)	31.03.2015(A/N)
13.	Shri Pronab Chandra Khanra(SC)	31.03.2015(F/N)

S. DAS ROY  
Deputy Director (P&A)  
for Director General, GSI.

No. 9999/SP/A-32013/AD(P&A)/DPC/2014-15/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Administrative Officer, Geological Survey of India to the post of Assistant Director (Personnel & Administration) (Group “A”) on promotion as regular basis on pay according to rules in the pay band PB-3 of Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay of Rs. 5400/- in the same Department with effect from the date as shown against his name until further orders :

Name of Officer	Date of Joining in the post of Assistant Director(P&A)
Shri Sheo Pal(SC)	02.02.2015(F/N)

S. DAS ROY  
Deputy Director (P&A)  
for Director General, GSI.

No. 10000/SP/A-32013/DD(P&A)/DPC/2015-16/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Assistant Directors(P&A) (Group “A”), Geological Survey of India to the post of Deputy Director(P&A) (Group “A”) on promotion on regular basis in PB - 3 in the pay scale of Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay of Rs. 6600/- in the same Department with effect from the date as shown against each until further orders :

Sl. No.	Name of Officer	Date of Joining in the post of Deputy Director(P&A)
1	Miss P. Santhi	26.05.2015(F/N)
2	Shri H. Narayana	26.05.2015(F/N)
3	Shri Pranab Kumar Datta	30.04.2015(A/N)
4	Shri Pulok Kumar Mukherjee	29.04.2015(A/N)
5	Shri B. G. Rayalu	11.05.2015(A/N)
6	Shri Madan Kumar Bharti	11.05.2015(A/N)

S. DAS ROY  
Deputy Director (P&A)  
for Director General, GSI.

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad-121001, the 2nd December 2015

No.A-19025/60/2015-A.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri Bhagchand Nagaura has been appointed as Marketing Officer (Group-I) (Survey, Training & Quality Control) in the Pay Band-2 (Rs.9300—34800) + Grade Pay of Rs. 4600/- on temporary basis in the Directorate of Marketing & Inspection, Regional Office, Mumbai with effect from 24<sup>th</sup> November, 2015(Forenoon).

L. ANANTH  
Under Secretary



## BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai – 85, the 14th December 2015

No. PD/7(23)/2015-R-IV(SO/F)/14593—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in pay band PB-3 ₹ 15600—39100 + Grade pay ₹ 7600 of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/ Engineer Grade 'F' in the pay band PB-4 ₹ 37400—67000 + Grade Pay ₹ 8700 in the same Research Centre with effect from the forenoon of date mentioned in column no. 3 in an officiating capacity, until further orders:—

S.NO.	NAME OF THE OFFICER	DATE
1.	SHRI ANIL P. KARANDE	01.07.2015
2.	DR. ANOOP KELKAR	01.07.2015
3.	SHRI BOMMISSETTY SURENDRA	01.07.2015
4.	SHRI PRAKASH TUKARAM POPHALKAR	01.07.2015
5.	SHRI ALOK KUMAR SAXENA	01.07.2015
6.	SHRI GAURAV KUMAR PANDEY	01.07.2015
7.	SHRI SABYASACHI MITRA	01.07.2015
8.	SHRI MRADUL SHARMA	01.07.2015
9.	DR. B. SUNDER SAHAYANATHAN	01.07.2015
10.	SHRI GOYAL HUKMI CHAND	01.07.2015
11.	SHRI RAVINDRA KUMAR SHARMA	01.07.2015
12.	SHRI SWAMY SHARAN	01.07.2015
13.	SHRI VINAY BHARDWAJ	01.07.2015
14.	DR. DHIRENDRA KUMAR JHA	01.07.2015
15.	DR. KAUSTAVA BHATTACHARYYA	01.07.2015
16.	SHRI DHEERAJ JAIN	01.07.2015
17.	SHRI MANAPPETTY BALAKRISHNAN PREMADAS	01.07.2015
18.	SHRI SAUMITRA PAL	01.07.2015
19.	SHRI S. SUNDAR RAJAN	01.07.2015
20.	SHRI MUNGATH DAMODARAN NAIR	01.07.2015
21.	SHRI SUSHIL KUMAR ARUN TIWARI	01.07.2015
22.	DR. ROHIT SHUKLA	01.07.2015
23.	DR. SURENDER KUMAR SHARMA	01.07.2015
24.	SHRI PARTHA BANERJEE	01.07.2015
25.	SHRI RANDALE GURUNATH DIGAMBAR	01.07.2015
26.	SHRI MALAMAL GOPINATH RAJESH	01.07.2015
27.	SMT. MENKA SUKHWANI	01.07.2015
28.	DR. SMT SANGITA DHARA LENKA	01.07.2015
29.	DR. SUMAN KUMAR SINGH	01.07.2015
30.	SHRI ARUN KUMAR	01.07.2015



S.NO.	NAME OF THE OFFICER	DATE
31	SHRI KRISHAN KUMAR PANDEY	01.07.2015
32	DR. AJAY KUMAR MISHRA	01.07.2015
33	SMT CHITRA SUBRAMANIAN	01.07.2015
34	SHRI UMESH VINAYAK DEOKAR	01.07.2015
35	SMT SHWETA ROY	01.07.2015
36	SHRI SURESH CHANDRA SWARNKAR	01.07.2015
37	DR. MANISH GOSWAMI	01.07.2015
38	SMT. ANEETA RAJEEV PATIL	01.07.2015
39	DR. VIVEK NATHURAM DABADE	01.07.2015
40	DR. TAMMANA SREE RAMA CHANDRA MURTHY	01.07.2015
41	SHRI KARRI VENKATA MANI KRISHNA	01.07.2015
42	DR. SUVENDU MONDAL	01.07.2015
43	DR. SUDHIR SINGH	01.07.2015
44	DR. JITENDRA KUMAR	01.07.2015
45	SMT. ARUNA JYOTHI KORA	01.07.2015
46	SHRI S. K. KHANDELWAL	01.07.2015
47	SHRI CHENNA KESHAVULU GURRAM	01.07.2015
48	SHRI VIJAY GUPTA	01.07.2015
49	SHRI KRISHNAN GOVINDAN	01.07.2015
50	SHRI KRISHNAN SIVAKUMARAN	01.07.2015
51	SHRI MANISH KUMAR	01.07.2015
52	SHRI ANKUR DATTATREYA KSHIRSAGAR	01.07.2015
53	SHRI PRAMOD KUMAR SINGH	01.07.2015
54	DR. SATISH RAGHUNATH SAWANT	01.07.2015
55	SMT BHARTI ABHAY BHALERAO	01.07.2015
56	SHRI SHIRISH DATTOPANT DOGMANE	01.07.2015
57	SHRI SANT SHARAN	01.07.2015
58	SHRI TARUN KUMAR DEWANGAN	01.07.2015
59	SHRI BIBHU NARAYAN RATH	01.07.2015
60	SHRI MISTRY BHARATKUMAR PARBHUBHAI	01.07.2015
61	DR. DINANATH YADAV	09.07.2015
62	SMT. MANJULATA SAHU	01.07.2015
63	DR. AMIT KUMAR	01.07.2015



S.NO.	NAME OF THE OFFICER	DATE
64	DR. VIPEN BATRA	01.07.2015
65	DR. SMT CHHAVI AGARWAL	01.07.2015
66	SHRI YOGESH SURESH NIRGUDE	01.07.2015
67	SHRI ANUJ KUMAR KANSAL	01.07.2015
68	SHRI SUMIT VISHNU PRASAD	01.07.2015
69	SHRI PARIMAL PRAMOD KULKARNI	01.07.2015
70	SHRI RITESH KRISHNAJI BAGUL	01.07.2015
71	SHRI GURUDATTA JAGADISHCHANDRA GORADE	01.07.2015
72	SHRI SURENDRA HARIHAR MOGHE	01.07.2015
73	DR. GAURAV MALHOTRA	01.07.2015
74	SHRI INDRANIL BANERJEE	01.07.2015
75	SHRI VIJAY KUMAR	01.07.2015
76	SHRI M.T. MANJUNATHA	01.07.2015
77	SHRI MURUGAN R.	01.07.2015
78	SHRI RAJU GANESAN	01.07.2015
79	SHRI VINAY KUMAR MISRA	01.07.2015
80	SHRI SUMIT KUMAR KOCHAR	01.07.2015
81	SHRI PILLAI G. RAJASEKHARANA	01.07.2015
82	SHRI RONALD FELIX SEQUEIRA	01.07.2015
83	SHRI KUMAR RAJA MACHA	01.07.2015
84	SHRI RAVINDRA DATTATRAY PHULSUNDAR	01.07.2015
85	SHRI CHANDRAHAS NARAYANA RAO KULKARNI	01.07.2015
86	SHIR KAMLESH KUMAR VERMA	01.07.2015
87	SHRI SUKUMAR LAYEK	01.07.2015
88	DR. SMT SHARMISTHA DUTTA CHOUDHURY	01.07.2015
89	DR. SMT SUMANA SENGUPTA	01.07.2015
90	DR. VAIDEHI SHARAN TRIPATHI	01.07.2015
91	SHRI PARTHA SARATHI MAITY	01.07.2015
92	SHRI BHUSHAN MUDHOLKAR	01.07.2015
93	SHRI CHIRAG ARVINDBHAI PATEL	01.07.2015
94	DR. RAKESH KUMAR	01.07.2015
95	SHRI BHUVANESHWAR GERA	01.07.2015
96	DR. SMT RINA JANA	01.07.2015
97	SMT. MINAL YESURAJA NADAR	01.07.2015



S.NO.	NAME OF THE OFFICER	DATE
98	SHRI P. SRINIVASAN	01.07.2015
99	DR. ANAND RAMAN	01.07.2015
100	SHRI ANIL JAIN	01.07.2015
101	SHRI GAUTAM VERMA	01.07.2015
102	SHRI THROVE SHAILESH MANAJI	01.07.2015
103	SHRI DHANANJAY GAJANAN PARULEKAR	01.07.2015
104	SMT CHANDRANI BHATTACHARYA	01.07.2015
105	DR. SHANKAR PRASAD KOIRY	01.07.2015
106	DR. SMT VIBHA SAXENA	01.07.2015
107	SHRI CHAMPA LAL PRAJAPAT	01.07.2015
108	DR. SMT DEBJANI KARMAKAR	01.07.2015
109	DR. SMT BABITA TIWARI	01.07.2015
110	SHRI NAGASHETTY SETVAJI GAIKWAD	01.07.2015
111	SHRI RAJ KUMAR	01.07.2015
112	SMT. MOUSUMI SINGHA	01.07.2015
113	SHRI RAMESH GUPTA	01.07.2015
114	SHRI RAJAMOHAN RAJA	01.07.2015
115	SMT. PADMA SASI KUMAR	01.07.2015
116	DR. RAJESH KUMAR	01.07.2015

M. V. SREEDHARAN  
Dy. Establishment Officer

---

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Kalpakkam-603102, the 1st December 2015

No. BARCF/Rectt/2(15)/2015/1590—Head, Planning & Co-ordination Division, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai appoints Shri M. N. Shaju, Assistant, Department of Atomic Energy, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,800/- in Bhabha Atomic Research Centre Facilities, Kalpakkam with effect from the forenoon of 18.09.2015 on regular basis until further orders.

P. SOUNDARAJ  
Administrative Officer-III

---

Mumbai-400001, the 16th December 2015

No.1/3/2015-CCS/17148—The President is pleased to appoint Shri Raphel John Palamattam, Principal Private Secretary (PB-3 ₹ 15,600—39,100 + Grade Pay ₹ 6,600) of Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as Senior Principal Private Secretary (PB-3 ₹ 15,600—39,100+Grade Pay ₹ 7,600) in the same centre with effect from the forenoon of April 23, 2015 until further orders.

A. SUKUMARAN  
Under Secretary



Mumbai-400001, the 2nd December 2015

No. 26/2/2015-CCS/16317— The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Senior Hindi Translator (PB-2 ₹.9300—34800 with GP ₹. 4600) to the grade of Assistant Director (OL) (PB-3 ₹.15600—39100 with GP ₹. 5400), in the units of the Department of Atomic Energy w.e.f. the dates given alongside until further orders.

Sl. No.	Name	Unit	Date of promotion to the grade of Assistant Director (OL)
1.	Shri S.I. Jabiullah	HWP, Manuguru	19.09.2015 (F.N.)
2.	Dr. K. Madhavi	RMP, Mysore	15.10.2015 (F.N.)
3.	Shri Manoj Kumar Shukla	HWP, Baroda	07.11.2015 (F.N.)

A. SUKUMARAN  
Under Secretary

#### DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 7th December 2015

No. DPS/07011/Rectt./4805—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri P.Ravindra (Emp. 433), Sr.Purchase Assistant (Pay Band -2 ₹ 9300—34800 + Grade Pay ₹ 4200) RMP, DPS, Mysore as Assistant Purchase Officer (Pay Band -2 ₹ 9300-34800 + Grade Pay ₹ 4800), in the same unit with effect from the forenoon of 26<sup>th</sup> November, 2015, until further orders.

S. Y. KAMBLE  
Administrative Officer-III

#### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

#### DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 10th December 2015

No. A-12025/04/2012-E.II—On the basis of recommendations of the Union Public Service Commission (UPSC), the President is pleased to appoint the following four officers to the post of Assistant Director (Regulation & Information) in PB-3, Rs. 15600—39100 + GP of Rs. 6600/- in the Office of Director General of Civil Aviation with effect from the date mentioned against their name :—

Sl. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Appointed w.e.f.
1	Satish Chandra Tripathi	15.06.2015 (Forenoon)
2	Amit Teotia	08.07.2015 (Forenoon)
3	Anand Kumar	09.11.2015 (Forenoon)
4	Deepak Yadav	07.12.2015 (Forenoon)

2. On their appointment to the post of Assistant Director (Regulation & Information), the above mentioned officers will be on probation for a period of One (01) year from the date of their appointment as mentioned above.

PAVAN MALVIYA  
Deputy Director of Administration



MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of Companies Act 1956 and of the following companies

New Delhi, the 14th December 2015

No. ROC Delhi/560(5)/Publ.FTE/11599—Notice is hereby given under sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been stuck off from the register and the said companies are dissolved :—

S N	CIN	COMPANY NAME
1	U66000DL2009PTC189543	SMART WAY INSURANCE CONSULTANT AND DIRECT SELLING PRIVATE LIMITED
2	U74140DL2011PTC212457	KAI TRADERS PRIVATE LIMITED
3	U74120DL2008PTC176221	BULLAND PACKAGING PRIVATE LIMITED
4	U64203DL2009PTC196002	ZEUS TELECOM PRIVATE LIMITED
5	U85100DL2013PTC254844	KRTI WE CARE PRIVATE LIMITED
6	U74999DL2011PTC214227	ARISE PACKAGING PRIVATE LIMITED
7	U65992HR2006PTC036345	DEEPAPRABHA CHITS PRIVATE LIMITED
8	U70109DL2006PTC152064	ALLIANCE INFRACON PRIVATE LIMITED.
9	U41000DL2009PTC194337	PRABHJOT PURE DRINKS PRIVATE LIMITED
10	U80301HR2011PTC042043	CG ACADEMY PRIVATE LIMITED
11	U51494HR2008PTC038279	K J TEXOFAB PRIVATE LIMITED
12	U24233DL2007PTC165801	INSTANT MEDICOS PRIVATE LIMITED
13	U18101DL2005PTC135798	SHWETA GARMENT ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
14	U74999DL2006PTC147307	CINESPRITE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
15	U22100DL2011PTC216671	SUNRISE BOOKS PRIVATE LIMITED
16	U51101DL2007PTC159102	POPLI ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
17	U52300DL2009PTC189592	AKKO GARMENTS PRIVATE LIMITED
18	U74140HR2014PTC052709	CONTENTWINED MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
19	U74899DL2001PTC112985	VFM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
20	U17121DL2008PTC175000	SABINA CREATION PRIVATE LIMITED
21	U55101DL2006PTC147923	ZING HOTELS PRIVATE LIMITED
22	U73100DL2007PTC171103	KNS RESEARCH ORGANISATION PRIVATE LIMITED
23	U74899DL1994PTC061900	WALK-OVER FINANZ N' LEASE PRIVATE LIMITED
24	U74210DL2005PTC134827	INTEGRATED BIOPIXL PRIVATE LIMITED
25	U74140DL2008PTC184031	MS DEAN & DOYLE CONSULTING PRIVATE LIMITED
26	U29253DL2010PTC207067	RS CRANES PRIVATE LIMITED
27	U40300DL2012PTC231687	IENERGY WIND POWER PRIVATE LIMITED
28	U74899DL1993PTC051812	VEDANT STEELS PRIVATE LIMITED
29	U74140DL2012PTC245646	ARCTURUS STRATEGIC TALENT MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
30	U17219DL2007PTC169040	VIVEKANAND TEXTILES PRIVATE LIMITED



S N	CIN	COMPANY NAME
31	U15122DL2007PTC162115	PICCADILY FLIGHT KITCHEN FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
32	U93091DL2006PTC149683	SPADE COMMODITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
33	U31900HR2014PTC052106	STARK HI CONSTRUCTION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
34	U29253DL2013PTC261442	OCRS POWER RENTAL PRIVATE LIMITED
35	U45400DL2013PTC252597	GEOSTEE INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
36	U74899DL1990PTC041655	MULBERRY ESTATE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
37	U74899DL1988PTC033167	ANUCUMPA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
38	U74140DL2008PTC178752	EXCEL LEGAL SERVICES PRIVATE LIMITED
39	U74900DL2010PTC204554	INTELEGENT EXPAND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
40	U93000HR2012PTC046711	IRA LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
41	U51909DL2007PTC158840	FIRE DISTRIBUTION INDIA PRIVATE LIMITED
42	U74899DL1995PLC068582	RAKSHITA FINVEST AND LEASING LIMITED
43	U74900DL2013PTC252378	AUTHENTIQUE CARBON CREDIT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
44	U33112DL1998PTC093944	ULTRA BIOREMEDIES PRIVATE LIMITED
45	U18101DL2004PTC127611	D P D APPARELS PRIVATE LIMITED
46	U74899DL1989PTC038045	COTCI EXPORTS PRIVATE LIMITED
47	U45400DL2009PTC192287	BG BUILDWELL PRIVATE LIMITED
48	U92190DL2012PTC242056	RECALL ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
49	U26941DL1982PTC014617	ACROMIX CHEMICALS AND COATINGS PRIVATE LIMITED
50	U51101DL2007PTC167918	DRJD MARKETING PRIVATE LIMITED
51	U74900DL1989PTC034996	MAHARUDRA HOLDINGS PRIVATE LTD
52	U51900DL2009PTC188457	JV AIRFONE INDIA PRIVATE LIMITED
53	U74899DL2001PTC112105	SM COLONISERS PRIVATE LIMITED
54	U74900HR2009PTC038965	JANSFER CONSULTING PRIVATE LIMITED
55	U74120DL2011PTC220979	B.J. DIAMONDS PRIVATE LIMITED
56	U74899DL1992PTC050535	MITBRO BUILDERS PRIVATE LIMITED
57	U74140HR2002PTC034841	A R HALASYAM CONSULTING PRIVATE LIMITED
58	U72200DL2010PTC208354	EPICENTRE GAMUT OUTSOURCING PRIVATE LIMITED
59	U72200DL2008PTC184130	EMERGING IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
60	U18101DL2005PTC136140	KIRAN GARMENTS PRIVATE LIMITED
61	U70101DL2005PTC136141	UKP BUILDERS PRIVATE LIMITED
62	U34300DL2005PTC136139	KB AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
63	U18109DL2013PTC253129	SINGH ENSEMBLE PRIVATE LIMITED
64	U80302HR2011PTC043142	STUDYCRAFT EDUCATION PRIVATE LIMITED
65	U18204DL2007PTC165721	G.M WEAVERS PRIVATE LIMITED
66	U15122DL2007PTC168443	EL SOL FOODS PRIVATE LIMITED
67	U72200DL2008PTC174375	VIRGINAVENUES SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
68	U93000DL2013PTC250942	KERRI ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED



S N	CIN	COMPANY NAME
69	U72300DL2008PTC179742	AIRNXT NETWORKS PRIVATE LIMITED
70	U74999DL2011PTC216516	TECHNO ROCK INFRA & ENGINEERING PRIVATE LIMITED
71	U55209DL2008PTC175733	HILMAN SPA & RESORTS PRIVATE LIMITED
72	U72300DL2006PTC154106	BMR SOFTECH PRIVATE LIMITED
73	U74999DL2010PTC205879	AMINDS BIZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
74	U74899DL1993PLC054687	DIAMOND MEDICAL DEVICES LIMITED
75	U18101DL2002PTC114733	GURUKAN EXPORTS PRIVATE LIMITED
76	U74950DL2012FTC241871	LIGENTIA INDIA PRIVATE LIMITED
77	U85300DL2013PTC258707	KEYA HERBALS PRIVATE LIMITED
78	U74120DL2008PTC177000	OM EQUIMAC PRIVATE LIMITED
79	U74899DL1995PTC070244	SKYHIGH PROPERTIES PRIVATE LIMITED
80	U65992HR2008PTC037629	D. P. S. CHIT FUND COMPANY PRIVATE LIMITED
81	U15311DL2014PTC263297	VARADAN PRODUCTS PRIVATE LIMITED
82	U51909DL2009PTC190867	MERCUREX CONNECT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
83	U45500DL2007PLC171213	VRL INFRASTRUCTURE LIMITED
84	U74140DL2011PTC218578	CONVERGENCE ADVISORS PRIVATE LIMITED
85	U80900HR2013PTC048399	NEUTRONIC EDUCATORS PRIVATE LIMITED
86	U67120DL2005PTC137075	BLACK DOG SECURITY PRIVATE LIMITED
87	U74999DL2011PTC227160	ASHTAVINAYAK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
88	U92490DL2014PTC267011	UNIVERSAL TALENT COMPANY PRIVATE LIMITED
89	U15200DL2007PTC161949	S.J.S. AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
90	U45300DL2007PTC171783	ANJU INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
91	U13200DL2008PTC173898	A ONE MINING PRIVATE LIMITED
92	U22100DL2013PTC248357	U&I MEDIA PRIVATE LIMITED
93	U45204DL2011PTC224295	BADGE INFRATECH PRIVATE LIMITED
94	U74140DL2011PTC213959	QUANTASCRIBE MEDICAL TRANSCRIPTION SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
95	U26933DL2008PTC181948	AAMBIANCE COATINGS EVERFRESH PRIVATE LIMITED
96	U45200DL2011PTC224441	TECH BUILDCON PRIVATE LIMITED
97	U74140HR2008PTC038319	EASY MONEY SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
98	U15400DL2010PTC205950	AL RAYYAN FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED
99	U74910DL2011PTC218202	AVID DREAMS DEV PRIVATE LIMITED
100	U72900DL2011PTC215944	APPLIED CULTURE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
101	U74994DL2006PTC146813	SITA DESIGNS PRIVATE LIMITED
102	U01403DL2009PTC196909	LITTLE MOUNTAIN FARMS & ORCHARDS PRIVATE LIMITED
103	U45204DL2011PTC224198	SHANTAH CONSTECH PRIVATE LIMITED
104	U74999DL2011PTC223568	FUTURE INFOCOM PRIVATE LIMITED
105	U74140HR2010PTC040006	IPB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED



S N	CIN	COMPANY NAME
106	U74120DL1996PTC080249	TAXES AND CORPORATE ADVISORS (I) PRIVATE LIMITED
107	U22219DL2013PTC260576	INCLUSIVE MEDIA PRIVATE LIMITED
108	U51909DL2007PTC160280	ANHAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
109	U45208DL2012PTC240398	ALAKNANDA INFRATECH PRIVATE LIMITED
110	U51900DL2012PTC239527	DREAMZ BUY PRIVATE LIMITED
111	U74950DL2014PTC263542	GSB WORLD TRAVELS PRIVATE LIMITED
112	U74899DL1974PTC007149	IMPEX CHEMICALS AND AGENCIES PRIVATE LIMITED
113	U24119DL2003PTC123010	BAGHPAT ORGANICS PRIVATE LIMITED
114	U15311DL2009PTC188596	AMIS FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
115	U92100HR2006PTC036206	ELFSTONE STUDIOS PRIVATE LIMITED
116	U52590DL2012PTC235081	LAZOME TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
117	U65910DL1996PTC082940	DNA SECURITIES PRIVATE LIMITED
118	U74140DL2008PTC185915	S S DEBT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
119	U25202DL2005PTC135761	SHIVAM POLY PACK PRIVATE LIMITED
120	U18109DL2006PTC151568	R & R APPARELS PRIVATE LIMITED
121	U74140DL2011PTC219401	HS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
122	U45203DL2005PTC143070	RANK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
123	U51909DL2001PTC112266	SHALIMAR TRADEXIM PRIVATE LIMITED
124	U72900DL2011PTC229071	TBH INFOEDGE PRIVATE LIMITED
125	U72900DL2012PTC232679	GREENOLIVES INFOTECH PRIVATE LIMITED
126	U21022DL2005PTC133652	AUV PACKAGING PRIVATE LIMITED
127	U99999DL1990PLC039355	TECHNIC AUTOMOBILES LIMITED
128	U74899DL1991PTC043425	FNS BUILDERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
129	U93000DL2010PTC201429	GLADDEN FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
130	U01111DL2013PTC253481	GROWEL ORGANIC & AGRICULTURE PRIVATE LIMITED
131	U70100DL2012PTC236778	FLORAL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
132	U74990DL2014PTC267387	FITNESS QUOTIENT INDIA PRIVATE LIMITED
133	U51909DL2005PTC135250	NARAV IMPEX PRIVATE LIMITED
134	U51909DL2005PTC135243	DEEPRAJ EXIM PRIVATE LIMITED
135	U70101DL2005PTC138061	SAMAR TECH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
136	U74920DL1997PTC089910	THIRD EYE SERVICES PRIVATE LIMITED
137	U45200DL2007PTC171384	SUNRISE PROPMART PRIVATE LIMITED
138	U93010DL2007PTC162578	DENIM CLOTHING PRIVATE LIMITED
139	U72200HR2012PTC044857	VALUE ITECH PRIVATE LIMITED
140	U51909DL2008PTC184549	HDCC ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
141	U93000DL2012PTC232473	VDS DZYNOCRAFT PRIVATE LIMITED
142	U74899DL1991PTC044027	SRIBIR FUELS PRIVATE LIMITED
143	U74900DL2011PTC225903	GEMINI BUSINESS AND TRADE SERVICES PRIVATE LIMITED



S N	CIN	COMPANY NAME
144	U74999DL2011FTC223044	DONGMYEONG E&C INDIA PRIVATE LIMITED
145	U64202DL2005PTC131978	PARWANA ECONTENT WORKS PRIVATE LIMITED
146	U72200DL2010PTC202614	SEVEN IDIOTS MEDIA PRIVATE LIMITED
147	U10100HR2013SGC048177	HARYANA COAL COMPANY LIMITED
148	U51909HR2012PTC046471	KHATTER CHEMICALS AND FERTILISERS PRIVATE LIMITED
149	U45400DL2011PTC224145	RAJ NISHA INFRACON PRIVATE LIMITED
150	U24233DL2008ULT184137	NOUVEAU POLYCHEM PRIVATE LIMITED
151	U93091DL2006PTC148495	MIND TRAINERS PRIVATE LIMITED.
152	U74900DL2012PTC238370	STANDARD EQUATION SERVICES PRIVATE LIMITED
153	U51216DL1998PTC093702	MARSCO OVERSEAS PRIVATE LIMITED
154	U70100DL2009PTC190200	PREET INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
155	U27101DL2010PTC207236	CITIZEN IRON PRIVATE LIMITED
156	U41000DL2011PLC214943	KOBELCO ECO-SOLUTIONS INDIA LIMITED
157	U72200DL2005PTC133104	GULMOHAR SOFTECH PRIVATE LIMITED
158	U74899DL1994PTC063225	AVI EXIM PVT LIMITED
159	U18101DL2003PTC121842	SATPAL OM PARKASH HANDLOOM PRIVATE LIMITED
160	U51500DL2006PTC155521	JAI AMBIKA FRANCHISES PRIVATE LIMITED
161	U74140DL2014PTC264624	SIVANA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
162	U74140DL2014PTC272075	309 COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
163	U74900DL2008PTC181688	TIWARI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
164	U80903DL2000PTC104479	BRAHMA ACADEMY PRIVATE LIMITED
165	U92410DL2009PTC186345	ROYAL FOOTBALL ACADEMY PRIVATE LIMITED
166	U18101DL2003PTC118420	NEW DESIGN FASHIONS PRIVATE LIMITED
167	U63022DL1996PTC075915	ROVANI FOODS PRIVATE LIMITED
168	U74899DL1982PTC013375	KAPBROS INDIA PVT LTD
169	U74140DL2011PTC216083	MEGAS STRATEGIC ADVISORS PRIVATE LIMITED
170	U74899DL1985PTC020866	MUNJAL APARTMENTS PRIVATE LIMITED
171	U74140DL2009PTC186959	ALBATROSS VIKTOR BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
172	U45204DL2012PTC244176	HSBK INFRA TECH PRIVATE LIMITED
173	U65191DL2008PTC177038	FOUR S RESEARCH PRIVATE LIMITED
174	U92490DL2010PTC209961	HUM N DRUM MUSIC PRIVATE LIMITED
175	U63022DL1999FTC100603	BALAK SHAKTI COLD STORAGE PVT. LTD.
176	U17290DL2010PTC209419	MAESTRO COUTURE PRIVATE LIMITED
177	U52100DL2014PTC273518	VOLUME INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
178	U55101DL2010PTC207527	LUXURIATE HOSPITALITIES AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
179	U51909DL2012PTC246339	P4MR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
180	U74120DL2008PTC185743	I R HOLDINGS PRIVATE LIMITED



S N	CIN	COMPANY NAME
181	U74899DL1995PTC067999	WIZARD COMPUTER PRIVATE LIMITED
182	U93000DL2010PTC200456	REDBULLS SECURITY PRIVATE LIMITED
183	U85110DL2000ULL108015	LIVER CARE FOUNDATION
184	U01111DL2002PTC117832	ALLIED AGRI FOODS PRIVATE LIMITED
185	U74999DL2013PTC249167	JET MAIL INDIA PRIVATE LIMITED
186	U45400DL2007PTC171147	CLICKMAGIC MEDIA PRIVATE LIMITED
187	U72200DL2010PTC207017	FLIPBYTES INFOMEDIA PRIVATE LIMITED
188	U74140HR2012PTC048008	GOLDFISH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
189	U45200DL2009PTC194497	APEX ALLIANCE INFRASOLUTIONS PRIVATE LIMITED
190	U74899DL1995PTC067427	SAMSON COIR PRODUCTS PRODUCTS PRIVATE LIMITED
191	U30008DL1998PTC093949	ESSELTE OFFICE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
192	U64200DL2010PTC199031	PINE MOBILES PRIVATE LIMITED
193	U93090DL2012PTC242988	ORIENTATION OPENINGS PRIVATE LIMITED
194	U74899DL2001PTC110032	SHRI GIRIRAJ NAME PLATES AND PRINTERS PRIVATE LIMITED
195	U80903DL2013PTC259223	RSM COACHINGS PRIVATE LIMITED
196	U74899DL1990PTC042227	DARBARI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
197	U72900DL2007PTC166329	S-Z SOFTPOWER PRIVATE LIMITED
198	U74140DL2002PTC115494	ENVIRO FRIENDLY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
199	U70109DL2012PTC234350	GLOBALHORIZON SPACEBUILD PRIVATE LIMITED
200	U51909DL2013PTC255055	SEIGHTEEN FOOD & BEVERAGE PRIVATE LIMITED
201	U80301DL2011PTC213345	SHRESHTH EDUCATION PRIVATE LIMITED
202	U51397DL2002PTC115939	BIRKDALE IMPEX PRIVATE LIMITED
203	U74899DL2000PTC103899	SHREE TULSI SALES PRIVATE LIMITED
204	U72300DL2014PTC268471	C CIRCLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
205	U74999DL2009PTC192980	INDIAN OFFSET SERVICES PRIVATE LIMITED
206	U45400DL2013PLC250798	YUGANTAR INFRATECH AND ENERGY LIMITED
207	U31200DL2006PTC156680	LORD SENTRONICS PRIVATE LIMITED
208	U52590DL2013PTC261475	GYNJER E-SERVICES PRIVATE LIMITED
209	U63000DL2011PTC225223	HARDIK TRAVELS AND HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
210	U70101DL2012PTC234619	PRIUS INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
211	U51909DL2010PTC211921	CRUZO TRADELINKS PRIVATE LIMITED
212	U67110DL1996PTC075562	MADHAV CREDIT SERVICES PRIVATE LIMITED
213	U74999DL2007PTC161980	AYUSHI MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
214	U51909DL2011PTC218407	TRIRATNA FOODS PRIVATE LIMITED
215	U25202DL2006PTC145789	NOIDA PRINT-PACK PRIVATE LIMITED
216	U74996DL2006PTC153426	NIVEOUS EXPORT IMPORT PRIVATE LIMITED
217	U80903DL2010PTC197610	BRENTWOODS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
218	U74999DL2015PTC277331	IDEAPRENEURS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED



S N	CIN	COMPANY NAME
219	U74120DL2009PTC186534	NIRI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
220	U74899DL1968PTC004857	HYCO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
221	U51909DL2006PTC153243	VINTEL EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
222	U74140DL2011PTC219322	CASCADE INN PRIVATE LIMITED
223	U55101DL2011PTC219337	NEHARA HOMES PRIVATE LIMITED
224	U31500DL2008PTC183609	KARMIC ELECTRICLES PRIVATE LIMITED
225	U99999DL1992PTC049288	MAXIMAX EDUCATIONAL AND VOCATIONAL ACADEMIES PRIVATE LIMITED
226	U52390DL2012PTC230769	RANGI PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
227	U52399DL2010PTC198345	AARAA CRAFTS & CREATIONS EXPORTS PRIVATE LIMITED
228	U74899DL1987PTC028793	MULTI LITES PRIVATE LIMITED
229	U93000HR2013PTC048774	EFFORTS INTEGRATED SERVICES PRIVATE LIMITED
230	U92193DL1999PTC102883	MANI MEDIA PRIVATE LIMITED
231	U51909DL1996PTC080566	PIERRE SUMER OVERSEAS PRIVATE LIMITED
232	U93000DL2008PTC185756	HILFE CONSULTANCY & TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED
233	U45202DL1998PTC095381	AVHK ENGINEERS AND CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
234	U64200DL2010PTC209221	KAIZEN EXPRESS COURIER SERVICES PRIVATE LIMITED
235	U40300HR2012PTC046276	BLP PROJECT (RAJASTHAN) PRIVATE LIMITED
236	U70102DL2013PTC258156	SAMSON TOWN PLANNERS INDIA PRIVATE LIMITED
237	U70102DL2013PTC257817	FICKLE BUILDTECH INDIA PRIVATE LIMITED
238	U72900DL2006PTC146066	IDEAWICKET INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
239	U40106DL2011PTC214613	BLP SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
240	U67200DL2012PTC236774	COPIOUS PORTFOLIO PRIVATE LIMITED
241	U70102DL2013PTC258119	ALDEN BUILDTECH INDIA PRIVATE LIMITED
242	U73100DL2011PTC223016	BRAINPOOL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
243	U70102DL2013PTC257687	PLACID BUILDTECH INDIA PRIVATE LIMITED
244	U70102DL2013PTC254802	ANALOX ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
245	U64201DL2005PTC137744	AAS TELECOM PRIVATE LIMITED
246	U93000DL2012PTC244114	NEW MOBILE CARE INDIA PRIVATE LIMITED
247	U72200DL2005PTC141993	CHETAN INFOTECH PRIVATE LIMITED
248	U74899DL1994PTC060419	UNITED ELTROCOMPS PRIVATE LIMITED
249	U22219DL2008PTC172244	KAIZER PRINTING AND PACKAGING PRIVATE LIMITED
250	U55101DL2006PTC154920	MJR HOTELS PRIVATE LIMITED
251	U18109DL2012PTC241376	ABS APPARELS PRIVATE LIMITED
252	U74140DL2012PTC245252	TEAM TOYSONS INDIA PRIVATE LIMITED
253	U72200DL2001PTC111657	TEXSOCO TECHNOLOGIES PVT. LTD.
254	U28994DL2008PTC177566	AKG DUCTS PRIVATE LIMITED
255	U74900DL2012PTC230985	SAWARIYA SETH SECURITIES PRIVATE LIMITED



S N	CIN	COMPANY NAME
256	U40101DL2008PTC185288	SOHAM HYDROPOWER PRIVATE LIMITED
257	U45200DL2007PTC169672	R.S.N INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
258	U80903DL2012PTC244088	ADARSH EDUCARE PRIVATE LIMITED
259	U51900DL2009PTC191775	A. K. GARG SUGAR TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
260	U74140DL2005PTC140438	KANRAJ TECH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
261	U74899DL1995PTC073772	BASGITRAM FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
262	U74140DL2010PTC205161	GAINWELL LOGISTICS PRIVATE LIMITED
263	U74899DL1995PLC065361	A S L GRAPHICS LIMITED
264	U15411DL2012PTC239672	AL FORNO PIZZA PRIVATE LIMITED
265	U27106DL1983PLC016179	BALRAM STEEL UDYOG LIMITED
266	U74140DL2006PTC144424	MAGNUM MEDICO LEGAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
267	U63030DL2015PTC277283	LOCAL ONLINE TRAVEL FACTORY PRIVATE LIMITED
268	U74899DL1993PLC056100	JAGATJIT SPIRITS AND WINE LIMITED
269	U74899DL1982PTC013754	VAPOUR INVESTMENT AND TRADING PRIVATE LIMITED
270	U74899DL1995PTC065355	CAMELION DYER PRIVATE LIMITED
271	U70200DL2008PTC175285	KAL BRO DEVELOPERS & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
272	U45200DL2007PTC171293	MEWAT INFRASTRUCTURE PROJECTS PRIVATE LIMITED
273	U52390DL2009PTC189067	OSPS TRADING PRIVATE LIMITED
274	U70200DL2013PLC256443	SANSKRITI INFRACORP LIMITED
275	U74140HR2012PTC045125	SNP SERVICES PRIVATE LIMITED
276	U74140DL2013PTC248695	COMRADE CORPORATE PROFESSIONALS PRIVATE LIMITED
277	U25202DL2001PTC110414	A.K.NAMEPLATES PVT. LTD.
278	U70101DL2012PTC238012	PANAM REALITY & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
279	U51909DL2006PTC154956	EMAAN MARKETING PRIVATE LIMITED
280	U80904DL2012PTC243271	PRIME SKILLS PRIVATE LIMITED
281	U27310DL2008PTC175953	VAID SAI EXIM PRIVATE LIMITED
282	U72900HR2013PTC050373	VR LI TECH PRIVATE LIMITED
283	U74140DL2007PTC169279	KARMIC ADVISORY PRIVATE LIMITED
284	U45400DL2007PTC165284	SUKHSHANTI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
285	U40109DL2007PLC162077	SCOPIC POWER PROJECTS LIMITED
286	U51909DL1984PLC018984	SHAKUN OVERSEAS LIMITED
287	U74999DL2007PTC159670	SHREE KRISHNA HOME FURNISHING PRIVATE LIMITED
288	U32109DL1997PTC087876	BHARTIYA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
289	U70200DL2013PTC262586	ADHARSHILA ESTATES PRIVATE LIMITED
290	U45201DL2005PTC137650	CROSS COUNTRY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
291	U24100DL2009PTC187403	MARYAM PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
292	U45204DL2010PTC210918	RR REALTY SERVICES PRIVATE LIMITED
293	U74999DL2010PTC203029	PD VENTURES PRIVATE LIMITED



S N	CIN	COMPANY NAME
294	U51909HR2007PTC037412	GURSIMAR MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
295	U72900DL2012PTC237762	FEATHER COMPUTING LABS PRIVATE LIMITED
296	U72220DL2000PTC107010	KNOWLEDGECROP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
297	U17200DL2012PTC230259	JAISUMI TEX PRIVATE LIMITED
298	U18101DL1983PTC016762	BANISH TEXTILE AGENCIES PRIVATE LIMITED
299	U18101DL2005PTC133551	H K HANDLOOMS PRIVATE LIMITED
300	U25199HR1987PTC028993	SARASWATI RUBBERS WORKS PVT LTD
301	U72900HR2011PTC043451	ETHOSWAY E SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
302	U80900DL2009PTC189248	ISH INSTITUTE OF COMMERCE PRIVATE LIMITED
303	U72900DL2004PTC124703	SIX SIGMA OUTSOURCING PRACTICES PRIVATE LIMITED
304	U74120DL2013PTC260697	FUEL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
305	U22212DL2004PTC127628	MATINS PRINT WORKS PRIVATE LIMITED
306	U74910DL1986PTC023273	FNS EXPORTS PRIVATE LIMITED
307	U22300DL2011PTC223173	SAS BREAKING NEWS PRIVATE LIMITED
308	U74999DL2005PTC135126	SUNMOON PAPER CONVERTERS PRIVATE LIMITED
309	U74999DL2012PTC239971	ANIKA MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
310	U45400HR2012PTC047292	GFD INDIA PRIVATE LIMITED
311	U26100DL2007PTC168680	BRS GLASS CONCEPTS PRIVATE LIMITED
312	U16009DL2007PTC163922	MAHARISHI AROMATICS TOBACCO PRIVATE LIMITED
313	U40300DL2007PTC159878	ACTION POWERHOUSE PRIVATE LIMITED
314	U80904HR2012PTC046830	ELLAZACH TEACHING AND LEARNING PRIVATE LIMITED
315	U70109DL2006PTC155479	ANKIT INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
316	U17291DL2010PTC208254	AMAANAT CREATIVE LIVING PRIVATE LIMITED
317	U70102DL2013PTC262141	NARAYANI BUILDTECH PRIVATE LIMITED
318	U74900DL2012PTC230327	P FOUR CONSULTATION PRIVATE LIMITED
319	U80302DL2011PTC222963	CL HIGHER EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
320	U52190DL2011PTC225635	MECHSPART SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
321	U22100DL2009PTC190800	ORGANO MEDIA PRIVATE LIMITED
322	U70102DL2008PTC180088	SGI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
323	U70102DL2013PTC262031	AVYUKTA DEVCON PRIVATE LIMITED
324	U74120DL2008PTC186096	SWIFT INTERNATIONAL CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED.
325	U24239HR2004PTC035376	DUTECH REMEDIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
326	U52399DL2012PTC236884	AMODA E-COMMERCE VENTURES PRIVATE LIMITED
327	U15132DL2010PTC207789	BETTIAH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
328	U45400DL2009PTC189730	INTERMODAL BUILDING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
329	U24232DL2009PTC193721	CONQUER REMEDIES PRIVATE LIMITED
330	U52100DL2013PTC260078	SHOPPREXO RETAIL PRIVATE LIMITED
331	U74140DL2010PTC207275	M.P. PROFESSIONALS PRIVATE LIMITED



S N	CIN	COMPANY NAME
332	U27200DL2009PTC190057	AVS BACCHIC STONES INDIA PRIVATE LIMITED
333	U72300DL2007PTC168607	MOBIO NETWORKS PRIVATE LIMITED
334	U80900DL2008PTC174497	CIE COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
335	U74140DL2008PTC174913	SGI CONSULTING PRIVATE LIMITED
336	U65923DL1996PTC082227	ADTIYA FINLEASE PRIVATE LIMITED
337	U70200HR2012PTC046468	ADROIT DSGN-BLD PRIVATE LIMITED
338	U72200HR2011PTC042788	NXGX COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
339	U18204HR2007PTC037119	HBM APPARELS PRIVATE LIMITED
340	U34100DL2009PTC187011	BID AUTOMOBILE PRIVATE LIMITED
341	U92100DL2009PTC187024	RAY ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
342	U40107DL2010PTC198560	METRO VALLEY POWER PRIVATE LIMITED
343	U17234DL1996PTC079020	FREEDOM FOAMS PRIVATE LIMITED
344	U74140DL2014PTC267054	A R POWERTECH PRIVATE LIMITED
345	U51420DL2013PTC258009	AAR SONS IMPEX PRIVATE LIMITED
346	U70102DL2012PTC238998	RIGVED INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
347	U11100DL2012PTC235875	IMPRESSION ENERGY PRIVATE LIMITED
348	U51229DL2003PTC123697	J M C FOODS PRIVATE LIMITED
349	U74140DL2013PTC261776	ELECTROSTEIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
350	U51909DL2011PTC226851	HORIZON MEDITRONICS PRIVATE LIMITED
351	U74899DL1994PTC063211	SHARK LABORATORIES PRIVATE LIMITED
352	U65100DL2012PTC234523	MARWAH FINANCIAL ADVISORY PRIVATE LIMITED
353	U24239DL2002PTC116588	ANI VET PHARMA PRIVATE LIMITED
354	U15122DL2011PTC214999	TULIP CEREALS PRIVATE LIMITED
355	U51900DL2009PTC190156	VEKS-M INDIA PRIVATE LIMITED
356	U45400DL2007PTC167440	KDI DEVELOPERS & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
357	U51909DL2005PTC135228	KPM PAPER CONVERTERS PRIVATE LIMITED
358	U17299DL2009PTC192335	PANACHE GARMENTS PRIVATE LIMITED
359	U74899DL1991PTC046663	TEMPERATURE CONTROL ENGINEERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
360	U63000HR2011PTC043899	OM CABS INDIA PRIVATE LIMITED
361	U45200DL2006PTC155476	ANKIT CITY PLANNERS PRIVATE LIMITED
362	U70109DL2006PTC155480	ANKIT INFRATECH PRIVATE LIMITED
363	U40101DL2006PTC154872	ANKIT POWERTECH PRIVATE LIMITED
364	U18109DL2006PTC154874	ANKIT TEXFAB PRIVATE LIMITED
365	U14220DL2007PTC165599	MG COAL MINES PRIVATE LIMITED
366	U45200DL2006PTC155477	ANKIT TOWNSHIP PRIVATE LIMITED
367	U18109DL2009PTC197373	AMPEX FASHIONS PRIVATE LIMITED
368	U74899DL1989PTC038713	NANDAY ESTATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
369	U72900DL2013PLC248786	TECH SMELTER LIMITED



S N	CIN	COMPANY NAME
370	U72200DL2011PTC214312	STITCH TELECOM PRIVATE LIMITED
371	U19122DL2012PTC232227	KAP FABRICATORS PRIVATE LIMITED
372	U31300DL1985PTC021395	TOPKON POWER CABLES PRIVATE LTD.
373	U74900HR2011PTC043595	FOOD MANDI WEB PRIVATE LIMITED
374	U74120HR1999PTC034383	SIGUPTA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
375	U51909DL2010PTC200447	SHYAM AVTAR MERCHANTILE PRIVATE LIMITED
376	U63040DL2004PTC125753	BELLA INDIA TOURISM AND TRADLINKERS PRIVATE LIMITED
377	U67120DL1997PTC089167	SIMERAN HOLDINGS PRIVATE LIMITED
378	U01400HR2010PTC041363	INDIAN LIVESTOCK FARMS PRIVATE LIMITED
379	U18101DL2008PTC179336	SHEELSAGAR GARMENT ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
380	U74999HR2000PTC034455	SHARAWAT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
381	U45200DL2008PTC180804	DANIKON INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
382	U74140DL2010PTC198326	ANAND BUILDING PRODUCTS PRIVATE LIMITED
383	U74999HR2014PTC052377	BULWARK SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
384	U70101DL1986PTC025788	PUSHPA ESTATE PRIVATE LIMITED
385	U45203DL1983PTC015581	SPEED FLOW CONTINENTAL PRIVATE LIMITED
386	U72300HR2014PTC052330	QUESTINO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
387	U63040DL2009PTC188613	KAYTEE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
388	U72200DL2008PTC172157	RISING INFO SYSTEM PRIVATE LIMITED
389	U63020DL2012PTC233691	DEEPBHUMI COOL INDIA PRIVATE LIMITED
390	U51397DL2010PTC202672	SECANT HOSPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
391	U24240DL2014PTC266086	DOAB AMENITIES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
392	U74140DL2013PTC254672	BABA DUDHNATH COMMUNICATION SERVICES PRIVATE LIMITED
393	U74140DL2013PTC254665	BDCS OPERATIONS PRIVATE LIMITED
394	U15139DL2009PTC189077	B.R.D. OVERSEAS PRIVATE LIMITED
395	U51909DL2011PTC220111	INNOVATIVEOR TRADING PRIVATE LIMITED
396	U74140DL2008PTC177102	REAL TECH CONSULTANT PRIVATE LIMITED
397	U80302DL2010PTC197647	BRENTWOODS SCHOOLS PRIVATE LIMITED
398	U15512DL2013PTC262544	BRAND IMPERIUM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
399	U74999DL2009PTC190629	MOJO91 CRAFTS PRIVATE LIMITED
400	U31909DL2003PTC121007	A.K.G.ELECTRIC AND SWITCHGEARS PRIVATE LIMITED
401	U29253DL2009PTC191990	JAI LUXMI IMPEX PRIVATE LIMITED
402	U01403DL2013PTC258196	BERNARD AGRI PRODUCTS PRIVATE LIMITED
403	U18109DL2009PTC191367	KATYAYNI BABYCARE PRIVATE LIMITED
404	U74999HR2009PTC039283	P.R.G. IMPEX PRIVATE LIMITED
405	U74899DL1994PTC058234	KISTURSONS WOODLAM PRIVATE LIMITED
406	U01111DL1999PTC101052	RANDHIR AGRO FARMS PRIVATE LIMITED



S N	CIN	COMPANY NAME
407	U24100DL2010PTC207084	ARORA POLYCOL PRIVATE LIMITED
408	U15419DL2006PTC156897	KAKAJI NAMKEENWALA PRIVATE LIMITED
409	U65929DL1996PTC078904	K.K. KARGOMAIL INDIA PRIVATE LIMITED
410	U27106DL2011PTC218439	COUP FUTURE MARKETING ADVISORS PRIVATE LIMITED
411	U64200DL2007PTC166907	SHIRDI SHRI SAI TELECOM PRIVATE LIMITED
412	U63010DL2008PTC184301	METCON LOGISTICS PRIVATE LIMITED
413	U74140DL2002PTC115795	CORPORATE EDGE RESOURCES PRIVATE LIMITED
414	U74899DL1994PTC061041	COMECON AVIATION PRIVATE LIMITED
415	U74996DL2006PTC150644	DEV VERSHA BIO-DIESEL EXTRACTION PRIVATE LIMITED
416	U63000DL2010PTC208974	SMIRTI LOGISTICS PRIVATE LIMITED
417	U45200DL2011PTC218891	IST PROJECTS PRIVATE LIMITED
418	U29256DL2003PTC121636	FINE HAND TOOLS PRIVATE LIMITED
419	U55101HR2014PTC053588	NOOR MAHAL HOTELS PRIVATE LIMITED
420	U80300DL2008PTC183389	REBIRTH MOTIVATIONAL ACADEMY PRIVATE LIMITED
421	U45200DL2008PTC183549	PARAS INFRATECH PRIVATE LIMITED
422	U29268DL2009PTC186845	NEXUS TOOLS PRIVATE LIMITED
423	U15410HR2011PTC043381	NIRO FOODS PRIVATE LIMITED
424	U74899DL1982PTC013722	LILAC INVESTMENT AND TRADING PRIVATE LIMITED
425	U51109DL2010PTC210549	MONU BHAI CHURI WALA PRIVATE LIMITED
426	U60200DL2010PTC211504	STAR BUS LINKS PRIVATE LIMITED
427	U45400DL2012PTC239618	CUBATIC HOMES PRIVATE LIMITED
428	U21020DL2011PTC221001	POWERSTIK LABELS PRIVATE LIMITED
429	U24231DL2006PTC144405	SINGHAL BIOTECH AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
430	U80904DL2014PTC263739	MOOCS MENTOR PRIVATE LIMITED
431	U80900DL2014PTC263788	BRENTWOODS TUTORS PRIVATE LIMITED
432	U80904DL2014PTC263736	MOOCS EDUCATION PRIVATE LIMITED
433	U72300DL2007PTC167351	I PRO WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
434	U74899DL1982PTC013721	MAIZE INVESTMENT PRIVATE LIMITED
435	U72100DL2014PTC266092	ABD BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
436	U24233DL1999PTC100824	VEDIC CLINIC (INDIA) PRIVATE LIMITED
437	U63090DL2009PTC193483	SGE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
438	U15532DL2011PTC212435	COORS BREWERY PRIVATE LIMITED
439	U65921DL1992PTC049554	SASSTEK ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
440	U72900DL2012PTC245229	D ONE DIGITAL INTERACTIVE PRIVATE LIMITED
441	U45400DL2007PTC162745	YAJEE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
442	U72300DL2010PTC199685	KKK FLAVOURS AND FRAGRANCES PRIVATE LIMITED
443	U52590DL2012PTC236173	PROCARE FACILITIES PRIVATE LIMITED

DEBASHISH BANDOPADHYAY

Registrar of Companies

NCT of Delhi &amp; Haryana



In the matter of Companies Act 1956 and of the following companies

Gwalior-474009, the 17th December 2015

No. ROC-G/U/S 560/2015/3781—Notice is hereby given under sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved :—

S.No	CIN	COMPANY NAME
1	U02423MP2005PTC018078	JPG LIFE CARE PRIVATE LIMITED
2	U52590MP2011PTC025951	REWASHRI NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
3	U55101MP2010PTC024889	BHAVAN HOSPITALITY EDUCATION & RESEARCH PRIVATE LIMITED
4	U52599MP2013PTC029847	JUBILEE TREXIM PRIVATE LIMITED
5	U33112MP2005PTC017789	BIO SPECTRA FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
6	U28910MP1980PTC001705	LAXMI METAL POWDER CO PVT LTD
7	U01403MP2009PTC021823	ATHARVA GREEN INDIA PRIVATE LIMITED
8	U74999MP2014PTC032965	SanganakYantra Vivardhan Technologies Private Limited
9	U45202MP2006PTC019156	BUNDELA BANDHU CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
10	U93090MP2014PTC033084	ADINATH MATRIMONY PRIVATE LIMITED
11	U28910MP2014PTC032204	AADINATH TREXIM AND STEEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
12	U65921MP1995PLC009228	MATA PARVATI LEASING AND FINANCE LIMITED
13	U45201MP2008PTC020886	SHRIYASH INFRATECH PRIVATE LIMITED
14	U70101MP2011PTC027099	SK (ACCORD) HOUSING PROJECTS PRIVATE LIMITED
15	U45303MP2014PTC032975	SAXENA ENGITECH SERVICES PRIVATE LIMITED
16	U45200MP2011PTC026677	JOY BUILDTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
17	U34300MP2001PLC014901	AKAL PRECISION COMPONENTS LIMITED
18	U70101MP2010PTC024154	PORWAL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
19	U55101MP1999PTC013531	DING DONG HOTELS PRIVATE LIMITED
20	U80904MP2014PTC032075	DREAMCHEASING EDUCARE PRIVATE LIMITED
21	U74120MP2014PTC032067	ROHITAS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
22	U70101MP2013PTC030116	MAG DEVCON PRIVATE LIMITED
23	U85110MP2010PTC023688	BSL Hospitals Private Limited
24	U80302MP2011PTC026527	RSD EDUCARE CONCEPT MARKETING PRIVATE LIMITED
25	U24100MP2008PTC021141	NAV KAR ORGANICS PRIVATE LIMITED
26	U45201MP2009PTC022614	Ambika Shree Constructions & Suppliers Private Limited
27	U60231MP2009PTC022651	SHRI MA SHARDA AMBIKA CARRIER SERVICE PRIVATE LIMITED
28	U72200MP2010PTC024339	KAIRON INFOTECH PRIVATE LIMITED
29	U72100MP2012PTC029093	NITIZART MOBILE MEDIA PRIVATE LIMITED
30	U65923MP1995PTC008972	N.J.INVESTMENTS PVT LTD

Sd/- ILLEGIBLE  
Deputy Registrar of Companies  
Madhya Pradesh



In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 18th December 2015

No.ROC/WB/FTE/560/2015—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 34 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved :—

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U65923WB2012PLC177907	MLA FINANCE CORPORATION LIMITED
2	U52190WB2012PTC175420	KOTIRATAN DEALTRADE PRIVATE LIMITED
3	U51909WB2009PTC139315	DHARA VINIMAY PRIVATE LIMITED
4	U51909WB2009PTC139284	BASERA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
5	U24233WB2009PTC138554	STAR BIOTECH PRIVATE LIMITED
6	U45200WB2012PTC177839	MLA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
7	U51909WB2011PTC170756	RADISON EXIM PRIVATE LIMITED
8	U51909WB2011PTC170755	KS TRADECOMM PRIVATE LIMITED
9	U51909WB2011PTC170754	FASTWELL COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
10	U72200WB2012PTC181091	TEHCARE INFOTECH PRIVATE LIMITED
11	U72300WB2012PTC186870	VISUALIZATION IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
12	U15419WB1999PTC090330	AROMATIC CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED
13	U74140WB2010PTC150437	SUVIDHA MICROSERVICES PRIVATE LIMITED
14	U01400WB2009PTC138515	REGAL AGRICULTURE PRIVATE LIMITED
15	U70102WB2012PTC172476	INESH PROJECTS PRIVATE LIMITED
16	U45400WB2007PTC114750	SAMPURNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
17	U45400WB2007PTC114771	VASANT VIHAR BUILDCON PRIVATE LIMITED
18	U51109WB1995PTC069542	SAMARTH TRADERS PVT.LTD
19	U74140WB2011PTC170294	PREFER INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
20	U45400WB2011PTC170296	SULTANIA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
21	U01400WB2009PTC138494	RISHIKESH AGRO PRIVATE LIMITED
22	U40101WB2011PLC159894	ATHA POWER LIMITED
23	U27109WB1996PTC081990	NATURE CRAFTS PRIVATE LIMITED
24	U72200WB2012PTC175297	MEGAPIX COMPUTECH PRIVATE LIMITED
25	U52190WB2012PTC177195	NEEL SIMANA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
26	U51909WB2012PTC175301	OVERSURE COMMODITIES PRIVATE LIMITED
27	U52190WB2012PTC177216	PRIYAKRIT BARTER PRIVATE LIMITED
28	U51909WB2011PTC167163	RYTHEM AGENCIES PRIVATE LIMITED
29	U51909WB2012PTC175306	SARVLOK VINIMAY PRIVATE LIMITED



SL No.	CIN	Name of the Company
30	U51909WB2012PTC173798	VIEWMORE TIE-UP PRIVATE LIMITED
31	U74140WB1996PTC077791	INSIGHT TECHNOLOGIES PVT LTD
32	U70109WB2012PTC173796	TOPFLOW INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
33	U51909WB2012PTC175298	NEWEVER SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
34	U72200WB2012PTC180637	BRAIN CARE INFOZEN PRIVATE LIMITED

D. N. CHOWDHURY  
Dy. Registrar of Companies  
West Bengal

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

[www.dop.nic.in](http://www.dop.nic.in)